



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2006/फाल्गुन 10, 1927

No. 70]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2006/PHALGUNA 10, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2006

सं. 9/2006—सीमा-शुल्क

**सा.का.नि. 81(अ).—** केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 75/2004-सीमा-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 2004 [सा.का.नि. सं० 478(अ), तारीख 26 जुलाई, 2004] और कंप्यूटर (अतिरिक्त शुल्क) नियम, 2004 को, जो अधिसूचना सं० 76/2004 - सीमा-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 2004 [सा.का.नि. 479(अ), तारीख 26 जुलाई, 2004] द्वारा अधिसूचित किए गए थे, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई हैं या किए जाने से जिनका लोप किया गया है।

[फा. सं. 334/3/2006—टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

**टिप्पण :—** (1) मूल अधिसूचना सं० 75/2004 - सीमा-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं० 478(अ), तारीख 26 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(2) मूल नियम अधिसूचना सं० 76/2004 - सीमा-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं० 479(अ), तारीख 26 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अधिसूचना सं० 38/2005-सीमा-शुल्क, तारीख 2 मई, 2005 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 26 जुलाई, 2004 में सा.का.नि. सं० 264(अ), तारीख 2 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, संशोधन किए गए थे।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2006

No. 9/2006—CUSTOMS

**G.S.R. 81(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3), read with sub-section (4) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.75/2004—Customs, [number G.S.R. 478(E)], dated the 26th, July, 2004, and the Computers (Additional Duty) Rules, 2004, notified vide No. 76/2004—Customs, (number G.S.R. 479(E) ) dated the 26<sup>th</sup> July, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

**Note:—**(1) The principal notification No.75/2004—Customs, dated the 26<sup>th</sup> July, 2004, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 478 (E), dated the 26<sup>th</sup> July, 2004.

(2) The principal rules were published vide notification No.76/2004—Customs, dated the 26<sup>th</sup> July, 2004, in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 479 (E), dated the 26<sup>th</sup> July, 2004 and was amended vide notification No.38/2005—Customs dated the 2<sup>nd</sup> May, 2005, vide number G.S.R. 264 (E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 2005.

अधिसूचना

सं० 10/ 2006-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 82(अ).**— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, 1 मार्च 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको पूर्वोक्त अधिनियम की उक्त धारा में अंतर्विष्ट उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

Notification

No. 10/2006-Customs

New Delhi, the 1<sup>st</sup> March, 2006

10-Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 82(E).**— In exercise of the powers conferred by section 133 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of March, 2006, as the date on which the provisions contained in the said section of the aforesaid Act shall come into force.

[F.No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 11/2006- सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 83(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002 - सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 118(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(I) उद्देशिका में, -

(i) “धारा 3” शब्द और अंक के स्थान पर, “धारा 3 की उपधारा 1” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (ख) 1 मई, 2007 को या उसके पश्चात् उक्त सारणी की क्रम सं० 252क के सामने विनिर्दिष्ट माल ;”;

(iii) परन्तुक में खंड (घ) का लोप किया जाएगा ;

(II) सारणी में, -

(i) क्रम सं० 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम सं० 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“30	15	(क) साबुन, औद्योगिक फैटी एसिड और फैटी एल्कोहल के विनिर्माण के लिए ऐसे किसी विनिर्माता द्वारा जिसका ऐसे तेलों को फैटी एसिड और ग्राइसेरोल में विभाजित करने के लिए संयंत्र है, आयातित शीर्ष 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 या 1515 के अधीन आने वाला, खाद्य श्रेणी से भिन्न सभी माल (अपरिष्कृत पाम आयल के सिवाय) जिसमें फ्री फैटी एसिड (एफएफए) 20% या अधिक है	12.5%	5
		(ख) साबुन, औद्योगिक फैटी एसिड और फैटी एल्कोहल के विनिर्माण के लिए शीर्ष 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 या 1515 के अधीन आने वाला खाद्य श्रेणी से भिन्न सभी माल (अपरिष्कृत पाम आयल के सिवाय) जिसमें फ्री फैटी एसिड (एफएफए) 20% या अधिक है	20%	5
		(ग) शीर्ष 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 या 1515 के अधीन आने वाला, खाद्य श्रेणी से भिन्न सभी माल (अपरिष्कृत पाम आयल के सिवाय) जिसमें फ्री फैटी एसिड (एफएफए) 20% या अधिक है	65%	-

- (iii) क्रम सं० 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (iv) क्रम सं० 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (v) क्रम सं० 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (vi) क्रम सं० 65 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (vii) क्रम सं० 66 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (viii) क्रम सं० 74 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ix) क्रम सं० 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“80	28,29 या 30	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) सूची 3 में विनिर्दिष्ट ओषधि, औषध, डायगनोस्टिक, किट्स या उपस्कर (ख) ऊमर (क) पर ओषधि और औषध के विनिर्माण में प्रयुक्त थोक ओषधि	5%  5%	-  -	-  5

- (x) क्रम सं० 119 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xi) क्रम सं० 123 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xii) क्रम सं० 125 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xiii) क्रम सं० 126 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xiv) क्रम सं० 127 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xv) क्रम सं० 128 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xvi) क्रम सं० 135 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xvii) क्रम सं० 143 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xviii) क्रम सं० 147 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xix) क्रम सं० 169 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xx) क्रम सं० 170क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxi) क्रम सं० 172 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxii) क्रम सं० 200 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“200	7204	लोह और इस्पात के मेल्टिंग स्कैप	5%	-	“”;

- (xxiii) क्रम सं० 207 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxiv) क्रम सं० 212क के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

- (xxv) क्रम सं० 220 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxvi) क्रम सं० 223 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxvii) क्रम सं० 250 के सामने स्तम्भ (3) में मद (3) और स्तम्भ (4) से स्तम्भ (6) में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxviii) क्रम सं० 251 के सामने स्तम्भ (3) में मद (3) और स्तम्भ (4) से स्तम्भ (6) में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxix) क्रम सं० 252 के सामने स्तम्भ (3) में मद (2) और स्तम्भ (4) से स्तम्भ (6) में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxx) क्रम सं० 255 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxxi) क्रम सं० 260 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxii) क्रम सं० 261 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxiii) क्रम सं० 292 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxxiv) क्रम सं० 344 के सामने स्तम्भ (4) में स्तम्भ (3) की मद (1) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxv) क्रम सं० 344क के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxvi) क्रम सं० 345 के सामने स्तम्भ (4) में स्तम्भ (3) की मद (1) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxvii) क्रम सं० 360 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“360	90 या कोई अन्य अध्याय	डीफ ऐड्स सहित हीयरिंग ऐड्स के विनिर्माण के लिए पुर्जें	कुछ नहीं	-	”;

- (xxxviii) क्रम सं० 361 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxix) क्रम सं० 408 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xl) क्रम सं० 419 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “2%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xli) क्रम सं० 426ख के सामने स्तम्भ (3) में मद (4) और स्तम्भ (4) से स्तम्भ (6) में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xlii) क्रम सं० 438 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “75” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xliii) क्रम सं० 442 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xliv) क्रम सं० 443 के सामने स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “सभी माल” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

[illegible]

(lix) क्रम सं० 489 के सामने स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lx) क्रम सं० 490 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"490.	2901, 2902, 2903 (2903 11 10, 2903 12 00, 2903 13 00, 2903 22 00 के सिवाय), 2904	सभी माल	5%	-	-";

- (lxi) क्रम सं० 493 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (lxii) क्रम सं० 494 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (lxiii) क्रम सं० 495 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (lxiv) क्रम सं० 497 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (lxv) क्रम सं० 499 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (lxvi) क्रम सं० 510 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"511.	0302 या 0303	अटलांटिक साल्मन	10%	-	-
512.	1516 10	सभी माल	30%	-	-
513.	1516 20	सभी माल	80%	-	-
514.	1517 या 1518	खाद्य ग्रेड के सभी माल	80%	-	-
515.	1517 या 1518	खाद्य ग्रेड से भिन्न सभी माल	30%	-	-
516.	1520 00 00	अपरिष्कृत ग्लिसरीन	12.5%	-	-
517.	25(2515, 2516, 2523 या 2524 के सिवाय)	सभी माल	5%	-	-
518.	2601 से 2617	सभी माल	2%	-	-
519.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 21 00	सभी माल	5%	-	-
520.	2713	पेट्रोलियम कोक	5%	-	-
521.	2804 61 00, 2804 69 00	धात्विक ग्रेड सिलीकान	10%	-	-

522.	2810	बोरैक्स या बोरिक एसिड	10%	-	-
523.	2903 22 00	ट्राइक्लोरोएथिन	10%	-	-
524.	2903, 2903 12 00 या 2903 13 00	क्लोरोमेथेन	10%	-	-
525.	2905 11 00	मेथेनोल	10%	-	-
526.	2905 31	मोनो एथिलिन ग्लाइकोल (एमईजी)	10%	-	-
527.	2915 32 00	विनाइल एसिटेट	10%	-	-
528.	2917 36	शुद्ध टेरैफ्थैलिक एसिड (पीटीए)	10%	-	-
529.	2917 37	डाइमिथाइल टेरैफ्थैलिक (डीएमटी)	10%	-	-
530.	2933	2-विनाइल पाइरीडीन	10%	-	-
531.	2933 71 00	कैप्रोलैक्टम	10%	-	-
532.	3104 20 00	पोटैशियम क्लोराइड	10%	-	-
533.	4002 31 00	सभी माल	10%	-	-
534.	5401 से 5406	सभी माल	10%	-	-
535.	5501 से 5511	सभी माल	10%	-	-
536.	7001 00 10	सभी माल	5%	-	-
537.	8422 30 00, 8422 40 00 या 8322 90 90	सभी माल	5%	-	-
538.	85	इटीग्रेटेड डिक्कोडर रिसीवर, जो सेट टॉप बाक्स के नाम से भी ज्ञात है	कुछ नहीं	-	-
539.	8519 99 40, 8520 90 90 या 8521 90 90	एमपी 3 प्लेयर या एमपीइजी 4 प्लेयर	5%	-	-
540.	9608	लेखन यंत्रों के पुर्जे	5%	-	-";

(III) उपाबंध में,-

(अ) शर्तों में,-

(क) शर्त 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) शर्त 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) शर्त 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(घ) शर्त 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;



(आ) सूची 3 में, मद (112) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

113. डिडनोसिन ;
114. एफाविरेंज ;
115. इंडिनाविर ;
116. नेल्फिनाविर ;
117. नेविरापाइन ;
118. स्टावुडाइन ;
119. एबकाविर सल्फेट ;
120. लोपिनाविर ;
121. टेनोफोविर डिसोप्रोक्सिल ;
122. एम्ट्रीसिटारबाइन ;
123. एजेथियाग्रिन ;
124. एंटीनोमाइसिन डी ;
125. सिसप्लेटिन ;
126. साइटोसिन एसबिनोसाइड (सिटारबाइन) ;
127. डेनाजोल ;
128. डोक्सोरोबिसिन ;
129. इटोपोसाइड ;
130. फ्लूटामाइड ;
131. ओडनसेट्रान ;
132. पैक्लीटैक्सेल ;
133. टेमोक्सीफेन सिट्रेट ;
134. विनब्लास्टिन सल्फेट ;
135. विनक्रिस्टाइन ;
136. यूरोकोलिन्स सोल्यूशन ;
137. ऐवेरोलिक्स टैबलेट/डिस्पर्सिबल टैबलेट ;
138. फोस्फेटेन्ट अल्फा ;
139. एकजीमेस्टेन ;
140. रिकम्बीनेन्ट ह्यूमन इंटरफेरान बीटा 1 - ए ;
141. ट्रोपोनिन - I संपूर्ण रक्त परीक्षण किट ;
142. बीटिंग हर्ट सर्जरी के लिए ब्लोबर्/मिस्टर किट

143. फ्लूरो एंजाइम इम्युनेसे डाइग्नोस्टिक किट I”;

(ii) सूची 33 और सूची 49 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

Notification

No. 11/2006-Customs

New Delhi, the 1<sup>st</sup> March, 2006

10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 83(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, namely:-

In the said notification, -

(I) in the preamble,

- (i) for the word and figure “section 3”, the words, brackets and figures “sub-section (1) of section 3” shall be substituted;
- (ii) in the proviso, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-  
“(b) the goods specified against serial No. 252A of the said Table on or after the 1<sup>st</sup> day of May, 2007;”;
- (iii) in the proviso, clause (d) shall be omitted;

(II) in the Table,-

- (i) S. No. 13 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) for S.No. 30, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“30.	15	(A) All goods (except crude palm oil) other than edible grade, having Free Fatty Acid (FFA) 20 per cent or more, and falling under heading 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 1514 or 1515, for the manufacture of soaps, industrial fatty acids, and fatty alcohol	20%	5
		(B) All goods (except crude palm oil) other than edible grade, having Free Fatty Acid (FFA) 20 per cent or more and falling under heading 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 1514 or 1515	65%	-
		(C) All goods (except crude palm oil) other than edible grade, having Free Fatty Acid (FFA) 20 per cent or more and falling under heading 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 1514 or 1515, imported for the manufacture of soaps, industrial fatty acids, and fatty alcohol by a manufacturer having plant for splitting up of such oils into fatty acids and glycerols	12.5%	5

- (iii) S. No. 42 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) S.No. 57 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (v) S.No. 64 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) against S.No. 65, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (vii) against S.No. 66, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (viii) against S.No. 74, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (ix) for S.No. 80, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80.	28, 29 or 30	The following goods, namely: -			
		(A) Drugs, medicines, diagnostic kits or equipment specified in List 3	5%	-	-
		(B) Bulk drugs used in the manufacture of drugs or medicines at (A) above	5%	-	-

- (x) against S.No. 119, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted
- (xi) against S.No. 123, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;
- (xii) against S.No. 125, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;
- (xiii) against S.No. 126, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;
- (xiv) against S.No. 127, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;
- (xv) against S.No. 128, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;
- (xvi) against S.No. 135, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;
- (xvii) S. No. 143 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xviii) S. No. 147 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xix) S.No. 169 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xx) S.No. 170A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xxi) against S.No. 172, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;
- (xxii) for S.No. 200 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"200.	7204	Melting scrap of iron or steel	5%	-	-";

- (xxiii) against S.No. 207, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (xxiv) against S.No. 212A, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;
- (xxv) S. No. 220 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xxvi) against S.No. 223, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;
- (xxvii) against S.No. 250, in column (3), item (3) and the corresponding entries in columns (4) to (6) shall be omitted;
- (xxviii) against S.No. 251, in column (3), item (3) and the corresponding entries in columns (4) to (6) shall be omitted;
- (xxix) against S.No. 252, in column (3), item (2) and the corresponding entries in columns (4) to (6) shall be omitted;
- (xxx) S. No. 255 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xxxi) against S.No. 260, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;
- (xxxii) against S.No. 261, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;



- (xlvi) against S.No. 456, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (xlvii) against S.No. 457, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (xlviii) against S.No. 459, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (xlix) against S.No. 460, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (l) against S.No. 461, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (li) against S.No. 464, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- (lii) against S.No. 472, for the entry in column (4), the entry "2%" shall be substituted;
- (liii) against S.No. 474, for the entry in column (4), the entry "2%" shall be substituted;
- (liv) against S.No. 475, for the entry in column (4), the entry "2%" shall be substituted;
- (lv) against S.No. 477, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (lvi) against S.No. 478, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (lvii) against S.No. 479, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (lviii) against S.No. 480, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (lix) against S.No. 489, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (lx) for S.No. 490 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"490.	2901, 2902, 2903 (except 2903 11 10, 2903 12 00, 2903 13 00, 2903 19 20, 2903 22 00), 2904	All goods (except trichloroethane, trichloromethane, trichloro ethylene and chloromethanes)	5%	-	-";

- (lxi) against for S.No. 493, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (lxii) against for S.No. 494, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted
- (lxiii) against S.No. 495, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (lxiv) against S.No. 497, for the entry in column (4), the entry "7.5%" shall be substituted;
- (lxv) against S. No. 499, for the entry in columns (3), the entry "All goods" shall be substituted;
- (lxvi) after S.No. 510, and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"511.	0302 or 0303	Atlantic salmon	10%	-	-
512	1516 10	All goods	30%	-	-
513.	1516 20	All goods	80%	-	-
514.	1517 or 1518	All goods of edible grade	80%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
515.	1517 or 1518	All goods other than edible grade	30%	-	-
516.	1520 00 00	Crude glycerin	12.5%	-	-
517.	25 (except 2515, 2516, 2523 or 2524)	All goods	5%	-	-
518.	2601 to 2617	All goods	2%	-	-
519.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 21 00	All goods	5%	-	-
520.	2713	Petroleum coke	5%	-	-
521.	2804 61 00, 2804 69 00	Metallurgical grade Silicon	10%	-	-
522.	2810	Borax or Boric Acid	10%	-	-
523.	2903 22 00	Trichloroethylene	10%	-	-
524.	2903 11 10, 2903 12 00 or 2903 13 00	Chloromethanes	10%	-	-
525.	2905 11 00	Methanol	10%	-	-
526.	2905 31	Mono ethylene glycol (MEG)	10%	-	-
527.	2915 32 00	Vinyl Acetate	10%	-	-
528.	2917 36	Pure terephthalic acid (PTA)	10%	-	-
529.	2917 37	Dimethyl terephthalate (DMT)	10%	-	-
530.	2933	2-Vinyl Pyridine	10%	-	-
531.	2933 71 00	Caprolactam	10%	-	-
532.	3104 20 00	Potassium chloride	10%	-	-
533.	4002 31 00	All goods	10%	-	-
534.	5401 to 5406	All goods	10%	-	-
535.	5501 to 5511	All goods	10%	-	-
536.	7001 00 10	All goods	5%	-	-
537.	8422 30 00, 8422 40 00 or 8422 90 90	All goods	5%	-	-
538.	85	Integrated decoder receiver, also known as set top box	Nil	-	-
539.	8519 99 40, 8520 90 90 or 8521 90 90	MP3 Player or MPEG4 Player	5%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
540.	9608	Parts of writing instruments	5%	-	”;

(III) in the Annexure,-

(A) in Conditions,-

- (a) Condition No. 3 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) Condition No. 55 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) Condition No. 65 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (d) Condition No. 95 and the entries relating thereto shall be omitted;

(B) in List 3, after item (112) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

- 113. Didanosine;
- 114. Efavirenz;
- 115. Indinavir;
- 116. Nelfinavir;
- 117. Nevirapine;
- 118. Stavudine;
- 119. Abacavir Sulphate;
- 120. Lopinavir;
- 121. Tenofovir Disoproxil;
- 122. Emtricitabine;
- 123. Azathioprine ;
- 124. Antinomycin D;
- 125. Cisplatin;
- 126. Cytosine Arabinoside (Cytarabine);
- 127. Danazol;
- 128. Doxorubicin;
- 129. Etoposide;
- 130. Flutamide;
- 131. Ondansetron;;
- 132. Paclitaxel;
- 133. Tamoxifen Citrate;
- 134. Vinblastine Sulphate;
- 135. Vincristine;
- 136. Eurocollins Solution;
- 137. Everolimus tablets/dispersible tablets;
- 138. Poractant alfa;
- 139. Exemestane;
- 140. Recombinant Human Interferon beta 1-a;
- 141. Troponin-I whole blood test kit;
- 142. Blower/mister kit for beating heart surgery;
- 143. Fluoro Enzyme Immunoassay Diagnostic kits.”;

(ii) List 33 and 49 shall be omitted;

[F.No. 334/3/2006-TRU]  
S. BAJAJ, Under Secy.

**Note:—** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, and was last amended by notification No.88/2005-Customs, dated the 30<sup>th</sup> September, 2005, which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.619 (E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2005.

अधिसूचना

सं० 12/2006-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 84(अ).—** केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्याक 27/2004-सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 2004 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 74(अ), तारीख 23 जनवरी, 2004, द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- (i) क्रम सं० 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) क्रम सं० 2 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iii) क्रम सं० 3 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iv) क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (v) क्रम सं० 17 से क्रम सं० 24 (दोनों प्रविष्टियां सम्मिलित हैं) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (vi) क्रम सं० 26 से क्रम सं० 32 (दोनों प्रविष्टियां सम्मिलित हैं) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (vii) क्रम सं० 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"33.	2907 11 10	फिनाल	5%	2907 23 00	बिस-फिनाल ए
34.	2914 11 00	एसिटोन	5%	2907 23 00	बिस-फिनाल ए"।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

**टिप्पणी :—** मूल अधिसूचना सं० 27/2004-सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 74(अ), तारीख 23 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।



Notification

No. 12 / 2006-Customs

New Delhi, the 1st March, 2006

10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 84(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2004-Customs, dated the 23<sup>rd</sup> January, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 74 (E), dated the 23<sup>rd</sup> January, 2004, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) against S. No. 2, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 3, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (iv) S. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) S. No. 17 to S.No. 24 (both inclusive) and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) S. No. 26 to S.No. 32 (both inclusive) and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vii) after S.No.32 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"33.	2907 11 10	Phenol	5%	2907 23 00	Bis-phenol A
34.	2914 11 00	Acetone	5%	2907 23 00	Bis-phenol A".

[F.No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

**Note:—** The principal notification No 27/2004-Customs, dated the 23<sup>rd</sup> January, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 74 (E), dated the 23<sup>rd</sup> January, 2004

अधिसूचना

सं० 13/2006-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927(शक)

सा.का.नि. 85(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन इस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, जो पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

स्पष्टीकरण.— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर मूल्यानुसार दर है जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाए।

## सारणी

क्रम सं०.	पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	दर
(1)	(2)	(3)
1.	25 (2504 और 2510 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
2.	2701 (2701 12 00 और 2709 00 00 के सिवाय), 2702, 2703, 2704, 2705 00 00, 2706, 2707, 2708, 2710, 2712, 2713 और 2715	12.5 प्रतिशत
3.	2709 00 00	5 प्रतिशत
4.	28 (2814 10 00 और 2814 20 00 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
5.	29 (2902 43 00, 2905 43 00, 2905 44 00, 2917 37 00, 2933 71 00, 2936, 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00 और 2941 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
6.	3005 और 3006 (3006 60 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
7.	31 (3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00 और 3105 90 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
8.	32	12.5 प्रतिशत
9.	33 (3301 और 3302 10 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
10.	34 (3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
11.	3506 और 3507	12.5 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
12.	36	12.5 प्रतिशत
13.	37	12.5 प्रतिशत
14.	38 (3801 10 00, 3802 10 00, 3809 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12, 3818, 3823 और 3824 60 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
15.	39	12.5 प्रतिशत
16.	40 (4001 10, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29 और 4011 30 00 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
17.	41 (4101, 4102 और 4103 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
18.	42	12.5 प्रतिशत
19.	43 (4301 30 00 और 4302 13 00 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
20.	44 (4401, 4402 और 4403 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
21.	45	12.5 प्रतिशत
22.	46	12.5 प्रतिशत
23.	4707	12.5 प्रतिशत
24.	48	12.5 प्रतिशत
25.	49 (4902, 4904 00 00 और 4905 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
26.	5004, 5005, 5006 और 5007	12.5 प्रतिशत
27.	5104, 5105 (5105 29 10 के सिवाय), 5106, 5107, 5108, 5109 और 5110	12.5 प्रतिशत
28.	5111 11	12.5 प्रतिशत या 135 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
29.	5111 19	12.5 प्रतिशत या 150 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
30.	5111 20	12.5 प्रतिशत या 80 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
31.	5111 30	12.5 प्रतिशत या 75 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
32.	5111 90	12.5 प्रतिशत या 90 रु०

(1)	(2)	(3)
		प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
33.	5112 11	12.5 प्रतिशत या 125 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
34.	5112 19	12.5 प्रतिशत या 155 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
35.	5112 20	12.5 प्रतिशत या 85 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
36.	5112 30	12.5 प्रतिशत या 110 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
37.	5112 90	12.5 प्रतिशत या 135 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
38.	5113	12.5 प्रतिशत या 60 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
39.	5204, 5205, 5206 और 5207	12.5 प्रतिशत
40.	5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32, और 5208 33	12.5 प्रतिशत
41.	5208 39	12.5 प्रतिशत या 150 रु० प्रति कि०मी०, इनमें से जो भी अधिक हो
42.	5208 41	12.5 प्रतिशत या 9 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
43.	5208 42	12.5 प्रतिशत या 37 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
44.	5208 43	12.5 प्रतिशत
45.	5208 49	12.5 प्रतिशत या 200 रु० प्रति कि०मी०, इनमें से जो भी अधिक हो
46.	5208 51	12.5 प्रतिशत या 27 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
47.	5208 52	12.5 प्रतिशत या 23 रु०

(1)	(2)	(3)
		प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
48.	5208 53	12.5 प्रतिशत या 35 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
49.	5208 59	12.5 प्रतिशत या 50 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
50.	5209 11, 5209 12, 5209 19 00, 5209 21, 5209 22 और 5209 29	12.5 प्रतिशत
51.	5209 31, 5209 32 और 5209 39	12.5 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
52.	5209 41	12.5 प्रतिशत या 32 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
53.	5209 42 00	12.5 प्रतिशत या 25 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
54.	5209 43	12.5 प्रतिशत या 30 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
55.	5209 49	12.5 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
56.	5209 51 और 5209 52	12.5 प्रतिशत या 30 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
57.	5209 59	12.5 प्रतिशत या 38 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
58.	5210 11, 5210 12, 5210 19 00, 5210 21, 5210 22, 5210 29, 5210 31 और 5210 32	12.5 प्रतिशत
59.	5210 39	12.5 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
60.	5210 41	12.5 प्रतिशत या 15 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
61.	5210 42	12.5 प्रतिशत या 25 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो

(1)	(2)	(3)
62.	5210 49	12.5 प्रतिशत या 185 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
63.	5210 51, 5210 52 और 5210 59	12.5 प्रतिशत या 15 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
64.	5211 11, 5211 12, 5211 19 00, 5211 21, 5211 22 और 5211 29	12.5 प्रतिशत
65.	5211 31, 5211 32 और 5211 39	12.5 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
66.	5211 41	12.5 प्रतिशत या 44 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
67.	5211 42 00	12.5 प्रतिशत या 18 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
68.	5211 43	12.5 प्रतिशत या 40 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
69.	5211 49	12.5 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
70.	5211 51, 5211 52 और 5211 59	12.5 प्रतिशत या 18 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
71.	5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 और 5212 14 00	12.5 प्रतिशत
72.	5212 15 00	12.5 प्रतिशत या 165 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
73.	5212 21 00, 5212 22 00 और 5212 23 00	12.5 प्रतिशत
74.	5212 24 00	12.5 प्रतिशत या 20 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
75.	5212 25 00	12.5 प्रतिशत या 165 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
76.	53 (5301 और 5302 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
77.	5401, 5402, 5403, 5404, 5405 00 00 और 5406.	12.5 प्रतिशत
78.	5407 10	12.5 प्रतिशत या 115 रु0 प्रति किग्रा0, इनमें से जो भी अधिक हो
79.	5407 20 और 5407 30	12.5 प्रतिशत
80.	5407 41	12.5 प्रतिशत या 30 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
81.	5407 42	12.5 प्रतिशत या 60 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
82.	5407 43 00	12.5 प्रतिशत या 67 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
83.	5407 44	12.5 प्रतिशत या 58 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
84.	5407 51	12.5 प्रतिशत या 11 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
85.	5407 52	12.5 प्रतिशत या 38 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
86.	5407 53 00	12.5 प्रतिशत या 50 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
87.	5407 54	12.5 प्रतिशत या 20 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
88.	5407 61	12.5 प्रतिशत या 150 रु0 प्रति किग्रा0, इनमें से जो भी अधिक हो
89.	5407 69 00	12.5 प्रतिशत या 60 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
90.	5407 71	12.5 प्रतिशत या 10 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
91.	5407 72 00	12.5 प्रतिशत या 24 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो

(1)	(2)	(3)
		अधिक हो
92.	5407 73 00	12.5 प्रतिशत या 60 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
93.	5407 74 00	12.5 प्रतिशत या 38 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
94.	5407 81	12.5 प्रतिशत या 10 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
95.	5407 82	12.5 प्रतिशत या 42 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
96.	5407 83 00	12.5 प्रतिशत या 67 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
97.	5407 84	12.5 प्रतिशत या 38 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
98.	5407 91	12.5 प्रतिशत या 15 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
99.	5407 92 00	12.5 प्रतिशत या 67 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
100.	5407 93 00	12.5 प्रतिशत या 45 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
101.	5407 94 00	12.5 प्रतिशत या 67 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
102.	5408 10 00 और 5408 21	12.5 प्रतिशत
103.	5408 22	12.5 प्रतिशत या 45 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
104.	5408 23 00	12.5 प्रतिशत या 47 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो



(1)	(2)	(3)
105.	5408 24	12.5 प्रतिशत या 87 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
106.	5408 31	12.5 प्रतिशत या 25 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
107.	5408 32	12.5 प्रतिशत या 44 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
108.	5408 33 00	12.5 प्रतिशत या 10 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
109.	5408 34	12.5 प्रतिशत या 11 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
110.	5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509 और 5510	12.5 प्रतिशत
111.	5511 10 00 और 5511 20 00	12.5 प्रतिशत या 31 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
112.	5511 30	12.5 प्रतिशत या 30 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
113.	5512 11	12.5 प्रतिशत
114.	5512 19	12.5 प्रतिशत या 42 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
115.	5512 21	12.5 प्रतिशत
116.	5512 29	12.5 प्रतिशत या 47 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
117.	5512 91	12.5 प्रतिशत
118.	5512 99	12.5 प्रतिशत या 65 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
119.	5513 11, 5513 12, 5513 13 और 5513 19	12.5 प्रतिशत
120.	5513 21 00 और 5513 22 00	12.5 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो

(1)	(2)	(3)
121.	5513 23 00	12.5 प्रतिशत या 125 रु० प्रति किग्रा० या 25 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
122.	5513 29 00	12.5 प्रतिशत या 185 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
123.	5513 31 00	12.5 प्रतिशत या 21 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
124.	5513 32 00	12.5 प्रतिशत या 170 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
125.	5513 33 00	12.5 प्रतिशत या 22 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
126.	5513 39 00	12.5 प्रतिशत या 125 रु० प्रति किग्रा० या 30 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिकतम हो
127.	5513 41 00	12.5 प्रतिशत या 25 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
128.	5513 42 00	12.5 प्रतिशत या 12 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
129.	5513 43 00	12.5 प्रतिशत या 20 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
130.	5513 49 00	12.5 प्रतिशत या 185 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
131.	5514 11, 5514 12, 5514 13 और 5514 19	12.5 प्रतिशत
132.	5514 21 00	12.5 प्रतिशत या 100 रु० प्रति किग्रा० या 30 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिकतम हो
133.	5514 22 00	12.5 प्रतिशत या 140 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो

(1)	(2)	(3)
		अधिक हो
134.	5514 23 00	12.5 प्रतिशत या 160 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
135.	5514 29 00	12.5 प्रतिशत या 170 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
136.	5514 31 00	12.5 प्रतिशत या 64 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
137.	5514 32 00	12.5 प्रतिशत या रु० 43 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिकतम हो
138.	5514 33 00	12.5 प्रतिशत या 180 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
139.	5514 39 00	12.5 प्रतिशत या 31 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
140.	5514 41 00	12.5 प्रतिशत या 26 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
141.	5514 42 00	12.5 प्रतिशत या 140 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
142.	5514 43 00	12.5 प्रतिशत या 31 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
143.	5514 49 00	12.5 प्रतिशत या 160 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
144.	5515 11	12.5 प्रतिशत या 40 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
145.	5515 12	12.5 प्रतिशत या 95 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
146.	5515 13	12.5 प्रतिशत या 75 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो

(1)	(2)	(3)
		अधिक हो
147.	5515 19	12.5 प्रतिशत या 45 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
148.	5515 21	12.5 प्रतिशत या 79 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
149.	5515 22	12.5 प्रतिशत या 140 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
150.	5515 29	12.5 प्रतिशत या 30 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
151.	5515 91	12.5 प्रतिशत या 57 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
152.	5515 92	12.5 प्रतिशत या 55 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
153.	5515 99	12.5 प्रतिशत या 35 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
154.	5516 11	12.5 प्रतिशत
155.	5516 12 00	12.5 प्रतिशत या 35 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
156.	5516 13 00	12.5 प्रतिशत या 40 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
157.	5516 14	12.5 प्रतिशत या 12 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
158.	5516 21	12.5 प्रतिशत
159.	5516 22 00 और 5516 23 00	12.5 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
160.	5516 24 00	12.5 प्रतिशत या 12 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
161.	5516 31, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 और 5516 42 00	12.5 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
162.	5516 43 00 और 5516 44 00	12.5 प्रतिशत या 12 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
163.	5516 91 और 5516 92 00	12.5 प्रतिशत
164.	5516 93 00	12.5 प्रतिशत या 21 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
165.	5516 94 00	12.5 प्रतिशत या 40 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
166.	56	12.5 प्रतिशत
167.	5701, 5702 10 00, 5702 20 और 5702 31	12.5 प्रतिशत
168.	5702 32	12.5 प्रतिशत या 105 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
169.	5702 39 और 5702 41	12.5 प्रतिशत
170.	5702 42	12.5 प्रतिशत या 80 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
171.	5702 49 और 5702 51	12.5 प्रतिशत
172.	5702 52	12.5 प्रतिशत या 105 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
173.	5702 59 और 5702 91	12.5 प्रतिशत
174.	5702 92	12.5 प्रतिशत या 110 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
175.	5702 99 और 5703 10	12.5 प्रतिशत
176.	5703 20	12.5 प्रतिशत या 70 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
177.	5703 30	12.5 प्रतिशत या 55 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
178.	5703 90 और 5704 10 00	12.5 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
179.	5704 90	12.5 प्रतिशत या 35 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
180.	5705	12.5 प्रतिशत
181.	5801 10 00	12.5 प्रतिशत या 210 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
182.	5801 21 00	12.5 प्रतिशत या 80 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
183.	5801 22	12.5 प्रतिशत या 75 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
184.	5801 23 00	12.5 प्रतिशत या 80 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
185.	5801 24 00	12.5 प्रतिशत या 135 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
186.	5801 25 00	12.5 प्रतिशत या 120 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
187.	5801 26 00	12.5 प्रतिशत या 180 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
188.	5801 31 00	12.5 प्रतिशत या 75 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
189.	5801 32 00	12.5 प्रतिशत या 180 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
190.	5801 33 00	12.5 प्रतिशत या 150 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
191.	5801 34	12.5 प्रतिशत या 140 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
192.	5801 35 00	12.5 प्रतिशत या 86 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
193.	5801 36	12.5 प्रतिशत या 130 रु प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी

(1)	(2)	(3)
		अधिक हो
194.	5801 90	12.5 प्रतिशत या 35 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
195.	5802 11 00	12.5 प्रतिशत
196.	5802 19	12.5 प्रतिशत या 60 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
197.	5802 20 00	12.5 प्रतिशत
198.	5802 30 00	12.5 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
199.	5803	12.5 प्रतिशत
200.	5804	12.5 प्रतिशत या 200 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
201.	5805, 5806, 5807, 5808 और 5809	12.5 प्रतिशत
202.	5810 10 00	12.5 प्रतिशत या 200 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
203.	5810 91 00, 5810 92, 5810 99 00 और 5811	12.5 प्रतिशत
204.	59	12.5 प्रतिशत
205.	60 (के सिवाय 6001 92 00)	12.5 प्रतिशत
206.	6001 92 00	12.5 प्रतिशत या 100 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
207.	6101 10	12.5 प्रतिशत या 700 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
208.	6101 20 00	12.5 प्रतिशत या 540 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
209.	6101 30	12.5 प्रतिशत या 530 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
210.	6101 90	12.5 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
211.	6102 10 00	12.5 प्रतिशत या 595 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
212.	6102 20 00	12.5 प्रतिशत या 425 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
213.	6102 30	12.5 प्रतिशत या 475 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
214.	6102 00, 6103, 6104 11 00, 6104 12 00 और 6104 13 00	12.5 प्रतिशत
215.	6104 19	12.5 प्रतिशत या 460 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
216.	6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00 और 6104 39	12.5 प्रतिशत
217.	6104 41 00	12.5 प्रतिशत या 255 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
218.	6104 42 00	12.5 प्रतिशत
219.	6104 43 00 और 6104 44 00	12.5 प्रतिशत या 255 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
220.	6104 49	12.5 प्रतिशत या 220 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
221.	6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00 और 6104 59	12.5 प्रतिशत या 110 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
222.	6104 61 00	12.5 प्रतिशत
223.	6104 62 00 और 6104 63 00	12.5 प्रतिशत या 98 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
224.	6104 69	12.5 प्रतिशत
225.	6105 10 और 6105 20	12.5 प्रतिशत या 83 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
226.	6105 99	12.5 प्रतिशत या 90 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी



(1)	(2)	(3)
		अधिक हो
227.	6106 10 00	12.5 प्रतिशत या 90 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
228.	6106 20	12.5 प्रतिशत या 25 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
229.	6106 90	12.5 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
230.	6107 11 00	12.5 प्रतिशत या 24 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
231.	6107 12	12.5 प्रतिशत या 30 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
232.	6107 19, 6107 21 00, 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 92, 6107 99, 6108 11 और 6108 19	12.5 प्रतिशत
233.	6108 21 00 और 6108 22	12.5 प्रतिशत या 25 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
234.	6108 29, 6108 31 00, 6108 32 और 6108 39	12.5 प्रतिशत
235.	6108 91 00	12.5 प्रतिशत या 65 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
236.	6108 92	12.5 प्रतिशत या 60 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
237.	6108 99	12.5 प्रतिशत
238.	6109 10 00	12.5 प्रतिशत या 45 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
239.	6109 90	12.5 प्रतिशत या 50 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
240.	6110 11, 6110 12 00 और 6110 19 00	12.5 प्रतिशत या 275 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो

(1)	(2)	(3)
241.	6110 20 00	12.5 प्रतिशत या 85 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
242.	6110 30	12.5 प्रतिशत या 110 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
243.	6110 90 00	12.5 प्रतिशत या 105 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
244.	6111, 6112, 6113 00 00, 6114, 6115, 6116 और 6117	12.5 प्रतिशत
245.	6201 11 00 और 6201 12	12.5 प्रतिशत या 385 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
246.	6201 13	12.5 प्रतिशत या 320 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
247.	6201 19	12.5 प्रतिशत
248.	6201 91 00	12.5 प्रतिशत या 220 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
249.	6201 92 00	12.5 प्रतिशत या 210 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
250.	6201 93 00	12.5 प्रतिशत या 180 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
251.	6201 99	12.5 प्रतिशत
252.	6202 11	12.5 प्रतिशत या 385 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
253.	6202 12 00	12.5 प्रतिशत या 210 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
254.	6202 13 00	12.5 प्रतिशत या 385 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
255.	6202 19	12.5 प्रतिशत
256.	6202 91	12.5 प्रतिशत या 220 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी

(1)	(2)	(3)
		अधिक हो
257.	6202 92	12.5 प्रतिशत या 160 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
258.	6202 93	12.5 प्रतिशत या 220 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
259.	6202 99	12.5 प्रतिशत
260.	6203 11 00	12.5 प्रतिशत या 1100 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
261.	6203 12 00	12.5 प्रतिशत या 720 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
262.	6203 19	12.5 प्रतिशत या 1110 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
263.	6203 21 00, 6203 22 00, 6203 23 00 और 6203 29 00	12.5 प्रतिशत या 145 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
264.	6203 31 00	12.5 प्रतिशत या 815 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
265.	6203 32 00	12.5 प्रतिशत या 440 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
266.	6203 33 00	12.5 प्रतिशत या 320 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
267.	6203 39	12.5 प्रतिशत या 755 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
268.	6203 41 00	12.5 प्रतिशत या 285 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
269.	6203 42 00	12.5 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो

(1)	(2)	(3)
270.	6203 43 00 और 6203 49	12.5 प्रतिशत या 110 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
271.	6204 11 00	12.5 प्रतिशत या 550 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
272.	6204 12 00	12.5 प्रतिशत
273.	6204 13 00	12.5 प्रतिशत या 550 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
274.	6204 19	12.5 प्रतिशत या 500 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
275.	6204 21 00, 6204 22, 6204 23 00 और 6204 29	12.5 प्रतिशत
276.	6204 31 00	12.5 प्रतिशत या 370 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
277.	6204 32 00	12.5 प्रतिशत या 650 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
278.	6204 33 00	12.5 प्रतिशत या 390 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
279.	6204 39	12.5 प्रतिशत या 350 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
280.	6204 41	12.5 प्रतिशत या 145 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
281.	6204 42	12.5 प्रतिशत या 116 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
282.	6204 43, 6204 44 00 और 6204 49	12.5 प्रतिशत या 145 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो

(1)	(2)	(3)
283.	8204 51 00	12.5 प्रतिशत या 485 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
284.	6204 52 00, 6204 53 00 और 6204 59	12.5 प्रतिशत
285.	6204 61	12.5 प्रतिशत या 285 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
286.	6204 62 00	12.5 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
287.	6204 63 00	12.5 प्रतिशत
288.	6204 69	12.5 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
289.	6205 10 00	12.5 प्रतिशत या 200 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
290.	6205 20 00	12.5 प्रतिशत या 85 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
291.	6205 30 00	12.5 प्रतिशत या 120 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
292.	6205 90	12.5 प्रतिशत या 95 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
293.	6206 10	12.5 प्रतिशत
294.	6206 20 00	12.5 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
295.	6206 30 00	12.5 प्रतिशत या 95 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
296.	6206 40 00	12.5 प्रतिशत या 120 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी

(1)	(2)	(3)
		अधिक हो
297.	6206 80 00	12.5 प्रतिशत
298.	6207 11 00	12.5 प्रतिशत या 28 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
299.	6207 19	12.5 प्रतिशत या 30 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
300.	6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 और 6207 92 00	12.5 प्रतिशत
301.	6207 99	12.5 प्रतिशत या 70 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
302.	6208 11 00	12.5 प्रतिशत या 80 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
303.	6208 19	12.5 प्रतिशत या 60 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
304.	6208 21 00, 6208 22 00 और 6208 29	12.5 प्रतिशत
305.	6208 91	12.5 प्रतिशत या 95 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
306.	6208 92	12.5 प्रतिशत या 65 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
307.	6208 99, 6209 और 6210 10 00	12.5 प्रतिशत
308.	6210 20	12.5 प्रतिशत या 365 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
309.	6210 30	12.5 प्रतिशत या 305 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
310.	6210 40 और 6210 50 00	12.5 प्रतिशत या 65 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो

(1)	(2)	(3)
311.	6211 11 00, 6211 12 00, 6211 20 00 और 6211 31 00	12.5 प्रतिशत
312.	6211 32 00 और 6211 33 00	12.5 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
313.	6211 39 00 और 6211 41 00	12.5 प्रतिशत
314.	6211 42 और 6211 43 00	12.5 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
315.	6211 49 00	12.5 प्रतिशत
316.	6212	12.5 प्रतिशत या 30 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
317.	6213	12.5 प्रतिशत
318.	6214 10	12.5 प्रतिशत या 390 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
319.	6214 20	12.5 प्रतिशत या 180 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
320.	6214 30 00 और 6214 40 00	12.5 प्रतिशत
321.	6214 90	12.5 प्रतिशत या 75 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
322.	6215	12.5 प्रतिशत या 55 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
323.	6216 और 6217	12.5 प्रतिशत
324.	63 (6301 20 00, 6302 21 00 और 6302 31 00 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
325.	6301 20 00	12.5 प्रतिशत या 275 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
326.	6302 21 00	12.5 प्रतिशत या 108 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो

(1)	(2)	(3)
		अधिक हो
327.	6302 31 00	12.5 प्रतिशत या 96 रु० प्रति किग्रा०, इनमें से जो भी अधिक हो
328.	64	12.5 प्रतिशत
329.	65	12.5 प्रतिशत
330.	66	12.5 प्रतिशत
331.	67	12.5 प्रतिशत
332.	68	12.5 प्रतिशत
333.	69	12.5 प्रतिशत
334.	70	12.5 प्रतिशत
335.	71	12.5 प्रतिशत
336.	73	12.5 प्रतिशत
337.	74	12.5 प्रतिशत
338.	75	12.5 प्रतिशत
339.	76	12.5 प्रतिशत
340.	78	12.5 प्रतिशत
341.	79	12.5 प्रतिशत
342.	80	12.5 प्रतिशत
343.	81	12.5 प्रतिशत
344.	82	12.5 प्रतिशत
345.	83	12.5 प्रतिशत
346.	84 (8407 21 00, 8456 91 00, 8469 11 00, 8470, 8471, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30 और 8473 50 00 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
347.	85 (8517, 8520 20 00, 8523 11, 8523 12, 8523 13, 8523 20, 8523 90, 8524 31, 8524 40, 8524 91, 8525 20, 8531 20 00, 8532, 8533, 8534 00 00, 8540 40 00, 8541, 8542, 8543 11 00,	12.5 प्रतिशत



(1)	(2)	(3)
	8543 81 00 और 8544 70 के सिवाय)	
348.	86	12.5 प्रतिशत
349.	87(8703, 8710 00 00 और 8711 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
350.	88 (8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
351.	89	12.5 प्रतिशत
352.	9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009 12 00, 9009 22 00, 9009 30 00, 9010 10 00, 9010 50 00, 9010 60 00, 9010 90 00, 9011, 9012, 9013 10, 9013 20 00, 9013 80 90, 9013 90 90, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020 00 00, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9027 10 00, 9027 40 00, 9027 90, 9028, 9029, 9030 10 00, 9030 20 00, 9030 31 00, 9030 39, 9030 83 00, 9030 89, 9030 90, 9031 10 00, 9031 20 00, 9031 30 00, 9031 49 00, 9031 80 00, 9031 90 00, 9032 और 9033 00 00	12.5 प्रतिशत
353.	91	12.5 प्रतिशत
354.	92	12.5 प्रतिशत
355.	93	12.5 प्रतिशत
356.	94	12.5 प्रतिशत
357.	95	12.5 प्रतिशत
358.	96	12.5 प्रतिशत
359.	97(9704 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत
360.	98 (9803 00 00 के सिवाय)	12.5 प्रतिशत

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

**Notification**  
No.13 / 2006-Customs

New Delhi, the 1st March, 2006  
10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 85(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods falling under the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975), as are specified in column (2) of the Table below, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the aforesaid Table.

**Explanation.**— For the purposes of this notification, the rate specified in column (3) is the *ad valorem* rate unless otherwise specified.

Table

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	25 (except 2504 and 2510)	12.5%
2.	2701 (except 2701 12 00 and 2709 00 00), 2702, 2703, 2704, 2705 00 00, 2706, 2707 and 2708	12.5%
3.	2709 00 00	5%
4.	2710, 2712, 2713 and 2715	10%
5.	28 (except 2801, 2802, 2803, 2804, 2805 and 2814)	12.5%
6.	2801, 2802, 2803, 2804 and 2805	10%
7.	29 (except 2902 43 00, 2905 43 00, 2905 44 00, 2917 37 00, 2933 71 00, 2936, 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00 and 2941)	12.5%
8.	3005 and 3006 (except 3006 60)	12.5%
9.	31 (except 3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00 and 3105 90)	12.5%
10.	32	12.5%
11.	33 (except 3301 and 3302 10)	12.5%
12.	34 (except 3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 and 3402 19 00)	12.5%
13.	3506 and 3507	12.5%
14.	36	12.5%
15.	37	12.5%
16.	38 (except 3801 10 00, 3802 10 00, 3809 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12, 3818, 3823 and 3824 60)	12.5%
17.	39	12.5%
18.	40 (except 4001 10, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29 and 4011 30 00)	12.5%
19.	41 (except 4101, 4102 and 4103)	12.5%
20.	42	12.5%
21.	43 (except 4301 30 00 and 4302 13 00)	12.5%
22.	44 (except 4401, 4402 and 4403)	12.5%
23.	45	12.5%
24.	46	12.5%
25.	4707	12.5%
26.	48	12.5%

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
27.	49 (except 4902, 4904 00 00 and 4905)	12.5%
28.	5004, 5005, 5006 and 5007	12.5%
29.	5104, 5105 (except 5105 29 10), 5106, 5107, 5108, 5109 and 5110	12.5%
30.	5111 11	12.5% or Rs 135 per sq. metre, whichever is higher
31.	5111 19	12.5% or Rs 150 per sq. metre, whichever is higher
32.	5111 20	12.5% or Rs 80 per sq. metre, whichever is higher
33.	5111 30	12.5% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher
34.	5111 90	12.5% or Rs. 90 per sq. metre, whichever is higher
35.	5112 11	12.5% or Rs. 125 per sq. metre, whichever is higher
36.	5112 19	12.5% or Rs. 155 per sq. metre, whichever is higher
37.	5112 20	12.5% or Rs. 85 per sq. metre, whichever is higher
38.	5112 30	12.5% or Rs. 110 per sq. metre, whichever is higher
39.	5112 90	12.5% or Rs. 135 per sq. metre, whichever is higher
40.	5113	12.5% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher
41.	5204, 5205, 5206 and 5207	12.5%
42.	5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32, and 5208 33	12.5%
43.	5208 39	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
44.	5208 41	12.5% or Rs. 9 per sq. metre, whichever is higher
45.	5208 42	12.5% or Rs. 37 per sq. metre, whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
46.	5208 43	12.5%
47.	5208 49	12.5% or Rs. 200 per kg., whichever is higher
48.	5208 51	12.5% or Rs. 27 per sq. metre, whichever is higher
49.	5208 52	12.5% or Rs. 23 per sq. metre, whichever is higher
50.	5208 53	12.5% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher
51.	5208 59	12.5% or Rs. 50 per sq. metre, whichever is higher
52.	5209 11, 5209 12, 5209 19 00, 5209 21, 5209 22 and 5209 29	12.5%
53.	5209 31, 5209 32 and 5209 39	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
54.	5209 41	12.5% or Rs. 32 per sq. metre, whichever is higher
55.	5209 42 00	12.5% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher
56.	5209 43	12.5% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher
57.	5209 49	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
58.	5209 51 and 5209 52	12.5% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher
59.	5209 59	12.5% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher
60.	5210 11, 5210 12, 5210 19 00, 5210 21, 5210 22, 5210 29, 5210 31 and 5210 32	12.5%
61.	5210 39	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
62.	5210 41	12.5% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher
63.	5210 42	12.5% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher
64.	5210 49	12.5% or Rs. 185 per kg., whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
65.	5210 51, 5210 52 and 5210 59	12.5% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher
66.	5211 11, 5211 12, 5211 19 00, 5211 21, 5211 22 and 5211 29	12.5%
67.	5211 31, 5211 32 and 5211 39	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
68.	5211 41	12.5% or Rs. 44 per sq. metre, whichever is higher
69.	5211 42 00	12.5% or Rs. 18 per sq. metre, whichever is higher
70.	5211 43	12.5% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher
71.	5211 49	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
72.	5211 51, 5211 52 and 5211 59	12.5% or Rs. 18 per sq. metre, whichever is higher
73.	5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 and 5212 14 00	12.5%
74.	5212 15 00	12.5% or Rs. 165 per kg., whichever is higher
75.	5212 21 00, 5212 22 00 and 5212 23 00	12.5%
76.	5212 24 00	12.5% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher
77.	5212 25 00	12.5% or Rs. 165 per kg., whichever is higher
78.	53 (except 5301 and 5302)	12.5%
79.	5401, 5402, 5403, 5404, 5405 00 00 and 5406	12.5%
80.	5407 10	12.5% or Rs. 115 per kg., whichever is higher
81.	5407 20 and 5407 30	12.5%
82.	5407 41	12.5% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher
83.	5407 42	12.5% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher
84.	5407 43 00	12.5% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher
85.	5407 44	12.5% or Rs. 58 per sq. metre, whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
86.	5407 51	12.5% or Rs. 11 per sq. metre, whichever is higher
87.	5407 52	12.5% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher
88.	5407 53 00	12.5% or Rs. 50 per sq. metre, whichever is higher
89.	5407 54	12.5% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher
90.	5407 61	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
91.	5407 69 00	12.5% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher
92.	5407 71	12.5% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher
93.	5407 72 00	12.5% or Rs. 24 per sq. metre, whichever is higher
94.	5407 73 00	12.5% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher
95.	5407 74 00	12.5% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher
96.	5407 81	12.5% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher
97.	5407 82	12.5% or Rs. 42 per sq. metre, whichever is higher
98.	5407 83 00	12.5% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher
99.	5407 84	12.5% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher
100.	5407 91	12.5% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher
101.	5407 92 00	12.5% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher
102.	5407 93 00	12.5% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
103.	5407 94 00	12.5% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher
104.	5408 10 00 and 5408 21	12.5%
105.	5408 22	12.5% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher
106.	5408 23 00	12.5% or Rs. 47 per sq. metre, whichever is higher
107.	5408 24	12.5% or Rs. 87 per sq. metre, whichever is higher
108.	5408 31	12.5% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher
109.	5408 32	12.5% or Rs. 44 per sq. metre, whichever is higher
110.	5408 33 00	12.5% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher
111.	5408 34	12.5% or Rs. 11 per sq. metre, whichever is higher
112.	5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509 and 5510	12.5%
113.	5511 10 00 and 5511 20 00	12.5% or Rs. 31 per kg., whichever is higher
114.	5511 30	12.5% or Rs. 30 per kg., whichever is higher
115.	5512 11	12.5%
116.	5512 19	12.5% or Rs. 42 per sq. metre, whichever is higher
117.	5512 21	12.5%
118.	5512 29	12.5% or Rs. 47 per sq. metre, whichever is higher
119.	5512 91	12.5%
120.	5512 99	12.5% or Rs. 65 per kg., whichever is higher
121.	5513 11, 5513 12, 5513 13 and 5513 19	12.5%
122.	5513 21 00 and 5513 22 00	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
123.	5513 23 00	12.5% or Rs. 125 per kg. or Rs 25 per sq. metre, whichever is highest
124.	5513 29 00	12.5% or Rs. 185 per kg., whichever is higher
125.	5513 31 00	12.5% or Rs. 21 per sq. metre, whichever is higher
126.	5513 32 00	12.5% or Rs. 170 per kg., whichever is higher
127.	5513 33 00	12.5% or Rs. 22 per sq. metre, whichever is higher
128.	5513 39 00	12.5% or Rs 125 per kg. or Rs. 30 per sq. metre, whichever is highest
129.	5513 41 00	12.5% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher
130.	5513 42 00	12.5% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher
131.	5513 43 00	12.5% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher
132.	5513 49 00	12.5% or Rs. 185 per kg., whichever is higher
133.	5514 11, 5514 12, 5514 13 and 5514 19	12.5%
134.	5514 21 00	12.5% or Rs 100 per kg. or Rs. 30 per sq. metre, whichever is highest
135.	5514 22 00	12.5% or Rs 140 per kg., whichever is higher
136.	5514 23 00	12.5% or Rs 160 per kg., whichever is higher
137.	5514 29 00	12.5% or Rs. 170 per kg., whichever is higher
138.	5514 31 00	12.5% or Rs 64 per sq. metre, whichever is higher
139.	5514 32 00	12.5% or Rs. 43 per sq. metre, whichever is highest
140.	5514 33 00	12.5% or Rs. 180 per kg., whichever is higher
141.	5514 39 00	12.5% or Rs. 31 per sq. metre, whichever is higher
142.	5514 41 00	12.5% or Rs. 26 per sq. metre, whichever is higher



S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
143.	5514 42 00	12.5% or Rs. 140 per kg., whichever is higher
144.	5514 43 00	12.5% or Rs. 31 per sq. metre, whichever is higher
145.	5514 49 00	12.5% or Rs. 160 per kg., whichever is higher
146.	5515 11	12.5% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher
147.	5515 12	12.5% or Rs. 95 per kg., whichever is higher
148.	5515 13	12.5% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher
149.	5515 19	12.5% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher
150.	5515 21	12.5% or Rs. 79 per sq. metre, whichever is higher
151.	5515 22	12.5% or Rs. 140 per kg., whichever is higher
152.	5515 29	12.5% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher
153.	5515 91	12.5% or Rs. 57 per sq. metre, whichever is higher
154.	5515 92	12.5% or Rs. 55 per sq. metre, whichever is higher
155.	5515 99	12.5% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher
156.	5516 11	12.5%
157.	5516 12 00	12.5% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher
158.	5516 13 00	12.5% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher
159.	5516 14	12.5% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher
160.	5516 21	12.5%
161.	5516 22 00 and 5516 23 00	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
162.	5516 24 00	12.5% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher
163.	5516 31, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 and 5516 42 00	12.5%
164.	5516 43 00 and 5516 44 00	12.5% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher
165.	5516 91 and 5516 92 00	12.5%
166.	5516 93 00	12.5% or Rs. 21 per sq. metre, whichever is higher
167.	5516 94 00	12.5% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher
168.	56	12.5%
169.	5701, 5702 10 00, 5702 20 and 5702 31	12.5%
170.	5702 32	12.5% or Rs. 105 per sq. metre, whichever is higher
171.	5702 39 and 5702 41	12.5%
172.	5702 42	12.5% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher
173.	5702 49 and 5702 51	12.5%
174.	5702 52	12.5% or Rs. 105 per sq. metre, whichever is higher
175.	5702 59 and 5702 91	12.5%
176.	5702 92	12.5% or Rs. 110 per sq. metre, whichever is higher
177.	5702 99 and 5703 10	12.5%
178.	5703 20	12.5% or Rs. 70 per sq. metre, whichever is higher
179.	5703 30	12.5% or Rs. 55 per sq. metre, whichever is higher
180.	5703 90 and 5704 10 00	12.5%
181.	5704 90	12.5% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher
182.	5705	12.5%
183.	5801 10 00	12.5% or Rs. 210 per sq. metre, whichever is higher
184.	5801 21 00	12.5% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
185.	5801 22	12.5% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher
186.	5801 23 00	12.5% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher
187.	5801 24 00	12.5% or Rs. 135 per sq. metre, whichever is higher
188.	5801 25 00	12.5% or Rs. 120 per sq. metre, whichever is higher
189.	5801 26 00	12.5% or Rs. 180 per sq. metre, whichever is higher
190.	5801 31 00	12.5% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher
191.	5801 32 00	12.5% or Rs. 180 per sq. metre, whichever is higher
192.	5801 33 00	12.5% or Rs. 150 per sq. metre, whichever is higher
193.	5801 34	12.5% or Rs. 140 per sq. metre, whichever is higher
194.	5801 35 00	12.5% or Rs. 68 per sq. metre, whichever is higher
195.	5801 36	12.5% or Rs. 130 per sq. metre, whichever is higher
196.	5801 90	12.5% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher
197.	5802 11 00	12.5%
198.	5802 19	12.5% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher
199.	5802 20 00	12.5%
200.	5802 30 00	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
201.	5803	12.5%
202.	5804	12.5% or Rs. 200 per kg., whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
203.	5805, 5806, 5807, 5808 and 5809	12.5%
204.	5810 10 00	12.5% or Rs. 200 per kg., whichever is higher
205.	5810 91 00, 5810 92, 5810 99 00 and 5811	12.5%
206.	59	12.5%
207.	60 (except 6001 92 00)	12.5%
208.	6001 92 00	12.5% or Rs. 100 per kg., whichever is higher
209.	6101 10	12.5% or Rs. 700 per piece, whichever is higher
210.	6101 20 00	12.5% or Rs. 540 per piece, whichever is higher
211.	6101 30	12.5% or Rs. 530 per piece, whichever is higher
212.	6101 90	12.5%
213.	6102 10 00	12.5% or Rs. 595 per piece, whichever is higher
214.	6102 20 00	12.5% or Rs. 425 per piece, whichever is higher
215.	6102 30	12.5% or Rs. 475 per piece, whichever is higher
216.	6102 90, 6103, 6104 11 00, 6104 12 00 and 6104 13 00	12.5%
217.	6104 19	12.5% or Rs. 460 per piece, whichever is higher
218.	6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00 and 6104 39	12.5%
219.	6104 41 00	12.5% or Rs. 255 per piece, whichever is higher
220.	6104 42 00	12.5%
221.	6104 43 00 and 6104 44 00	12.5% or Rs. 255 per piece, whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
222.	6104 49	12.5% or Rs. 220 per piece, whichever is higher
223.	6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00 and 6104 59	12.5% or Rs. 110 per piece, whichever is higher
224.	6104 61 00	12.5%
225.	6104 62 00 and 6104 63 00	12.5% or Rs. 98 per piece, whichever is higher
226.	6104 69	12.5%
227.	6105 10 and 6105 20	12.5% or Rs. 83 per piece, whichever is higher
228.	6105 90	12.5% or Rs. 90 per piece, whichever is higher
229.	6106 10 00	12.5% or Rs. 90 per piece, whichever is higher
230.	6106 20	12.5% or Rs. 25 per piece, whichever is higher
231.	6106 90	12.5% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
232.	6107 11 00	12.5% or Rs. 24 per piece, whichever is higher
233.	6107 12	12.5% or Rs. 30 per piece, whichever is higher
234.	6107 19, 6107 21 00, 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 92, 6107 99, 6108 11 and 6108 19	12.5%
235.	6108 21 00 and 6108 22	12.5% or Rs. 25 per piece, whichever is higher
236.	6108 29, 6108 31 00, 6108 32 and 6108 39	12.5%
237.	6108 91 00	12.5% or Rs. 65 per piece, whichever is higher
238.	6108 92	12.5% or Rs. 60 per piece, whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
239.	6108 99	12.5%
240.	6109 10 00	12.5% or Rs. 45 per piece, whichever is higher
241.	6109 90	12.5% or Rs. 50 per piece, whichever is higher
242.	6110 11, 6110 12 00 and 6110 19 00	12.5% or Rs. 275 per piece, whichever is higher
243.	6110 20 00	12.5% or Rs. 85 per piece, whichever is higher
244.	6110 30	12.5% or Rs. 110 per piece, whichever is higher
245.	6110 90 00	12.5% or Rs. 105 per piece, whichever is higher
246.	6111, 6112, 6113 00 00, 6114, 6115, 6116 and 6117	12.5%
247.	6201 11 00 and 6201 12	12.5% or Rs. 385 per piece, whichever is higher
248.	6201 13	12.5% or Rs. 320 per piece, whichever is higher
249.	6201 19	12.5%
250.	6201 91 00	12.5% or Rs. 220 per piece, whichever is higher
251.	6201 92 00	12.5% or Rs. 210 per piece, whichever is higher
252.	6201 93 00	12.5% or Rs. 180 per piece, whichever is higher
253.	6201 99	12.5%
254.	6202 11	12.5% or Rs. 385 per piece, whichever is higher
255.	6202 12 00	12.5% or Rs. 210 per piece, whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
256.	6202 13 00	12.5% or Rs. 385 per piece, whichever is higher
257.	6202 19	12.5%
258.	6202 91	12.5% or Rs. 220 per piece, whichever is higher
259.	6202 92	12.5% or Rs. 160 per piece, whichever is higher
260.	6202 93	12.5% or Rs. 220 per piece, whichever is higher
261.	6202 99	12.5%
262.	6203 11 00	12.5% or Rs. 1100 per piece, whichever is higher
263.	6203 12 00	12.5% or Rs. 720 per piece, whichever is higher
264.	6203 19	12.5% or Rs. 1110 per piece, whichever is higher
265.	6203 21 00, 6203 22 00, 6203 23 00 and 6203 29 00	12.5% or Rs. 145 per piece, whichever is higher
266.	6203 31 00	12.5% or Rs. 815 per piece, whichever is higher
267.	6203 32 00	12.5% or Rs. 440 per piece, whichever is higher
268.	6203 33 00	12.5% or Rs. 320 per piece, whichever is higher
269.	6203 39	12.5% or Rs. 755 per piece, whichever is higher
270.	6203 41 00	12.5% or Rs. 285 per piece, whichever is higher
271.	6203 42 00	12.5% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
272.	6203 43 00 and 6203 49	12.5% or Rs. 110 per piece, whichever is

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
		higher
273.	6204 11 00	12.5% or Rs. 550 per piece, whichever is higher
274.	6204 12 00	12.5%
275.	6204 13 00	12.5% or Rs. 550 per piece, whichever is higher
276.	6204 19	12.5% or Rs. 500 per piece, whichever is higher
277.	6204 21 00, 6204 22, 6204 23 00 and 6204 29	12.5%
278.	6204 31 00	12.5% or Rs. 370 per piece, whichever is higher
279.	6204 32 00	12.5% or Rs. 650 per piece, whichever is higher
280.	6204 33 00	12.5% or Rs. 390 per piece, whichever is higher
281.	6204 39	12.5% or Rs. 350 per piece, whichever is higher
282.	6204 41	12.5% or Rs. 145 per piece, whichever is higher
283.	6204 42	12.5% or Rs. 116 per piece, whichever is higher
284.	6204 43, 6204 44 00 and 6204 49	12.5% or Rs. 145 per piece, whichever is higher
285.	6204 51 00	12.5% or Rs. 485 per piece, whichever is higher
286.	6204 52 00, 6204 53 00 and 6204 59	12.5%
287.	6204 61	12.5% or Rs. 285 per piece, whichever is higher
288.	6204 62 00	12.5% or Rs. 135 per piece, whichever is higher



S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
289.	6204 63 00	12.5%
290.	6204 69	12.5% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
291.	6205 10 00	12.5% or Rs. 200 per piece, whichever is higher
292.	6205 20 00	12.5% or Rs. 85 per piece, whichever is higher
293.	6205 30 00	12.5% or Rs. 120 per piece, whichever is higher
294.	6205 90	12.5% or Rs. 95 per piece, whichever is higher
295.	6206 10	12.5%
296.	6206 20 00	12.5% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
297.	6206 30 00	12.5% or Rs. 95 per piece, whichever is higher
298.	6206 40 00	12.5% or Rs. 120 per piece, whichever is higher
299.	6206 90 00	12.5%
300.	6207 11 00	12.5% or Rs. 28 per piece, whichever is higher
301.	6207 19	12.5% or Rs. 30 per piece, whichever is higher
302.	6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 and 6207 92 00	12.5%
303.	6207 99	12.5% or Rs. 70 per piece, whichever is higher
304.	6208 11 00	12.5% or Rs. 80 per piece, whichever is higher
305.	6208 19	12.5% or Rs. 60 per piece, whichever is higher
306.	6208 21 00, 6208 22 00 and 6208 29	12.5%

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
307.	6208 91	12.5% or Rs. 95 per piece, whichever is higher
308.	6208 92	12.5% or Rs. 65 per piece, whichever is higher
309.	6208 99, 6209 and 6210 10 00	12.5%
310.	6210 20	12.5% or Rs. 365 per piece, whichever is higher
311.	6210 30	12.5% or Rs. 305 per piece, whichever is higher
312.	6210 40 and 6210 50 00	12.5% or Rs. 65 per piece, whichever is higher
313.	6211 11 00, 6211 12 00, 6211 20 00 and 6211 31 00	12.5%
314.	6211 32 00 and 6211 33 00	12.5% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
315.	6211 39 00 and 6211 41 00	12.5%
316.	6211 42 and 6211 43 00	12.5% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
317.	6211 49 00	12.5%
318.	6212	12.5% or Rs. 30 per piece, whichever is higher
319.	6213	12.5%
320.	6214 10	12.5% or Rs. 390 per piece, whichever is higher
321.	6214 20	12.5% or Rs. 180 per piece, whichever is higher
322.	6214 30 00 and 6214 40 00	12.5%
323.	6214 90	12.5% or Rs. 75 per piece, whichever is higher
324.	6215	12.5% or Rs. 55 per piece, whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
325.	6216 and 6217	12.5%
326.	63 (except 6301 20 00, 6302 21 00 and 6302 31 00)	12.5%
327.	6301 20 00	12.5% or Rs. 275 per piece, whichever is higher
328.	6302 21 00	12.5% or Rs. 108 per kg., whichever is higher
329.	6302 31 00	12.5% or Rs. 96 per kg., whichever is higher
330.	64	12.5%
331.	65	12.5%
332.	66	12.5%
333.	67	12.5%
334.	68	12.5%
335.	69	12.5%
336.	70	12.5%
337.	71	12.5%
338.	73	12.5%
339.	74	12.5%
340.	75	12.5%
341.	76	12.5%
342.	78	12.5%
343.	79	12.5%
344.	80	12.5%
345.	81	12.5%
346.	82	12.5%
347.	83	12.5%
348.	84 (except 8407 21 00, 8456 91 00, 8469 11 00, 8470, 8471, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30 and 8473 50 00)	12.5%
349.	85 (except 8517, 8520 20 00, 8523 11, 8523 12, 8523 13, 8523 20, 8523 90, 8524 31, 8524 40, 8524 91, 8525 20, 8531 20 00, 8532,	12.5%

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
	8533, 8534 00 00, 8540 40 00, 8541, 8542, 8543 11 00, 8543 81 00 and 8544 70)	
350.	86	12.5%
351.	87(except 8703, 8710 00 00 and 8711)	12.5%
352.	88 (except 8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 and 8803 30 00)	12.5%
353.	89	12.5%
354.	9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009 12 00, 9009 22 00, 9009 30 00, 9010 10 00, 9010 50 00, 9010 60 00, 9010 90 00, 9011, 9012, 9013 10, 9013 20 00, 9013 80 90, 9013 90 90, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020 00 00, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9027 10 00, 9027 40 00, 9027 90, 9028, 9029, 9030 10 00, 9030 20 00, 9030 31 00, 9030 39, 9030 83 00, 9030 89, 9030 90, 9031 10 00, 9031 20 00, 9031 30 00, 9031 49 00, 9031 80 00, 9031 90 00, 9032 and 9033 00 00	12.5%
355.	91	12.5%
356.	92	12.5%
357.	93	12.5%
358.	94	12.5%
359.	95	12.5%
360.	96	12.5%
361.	97(except 9704)	12.5%
362.	98 (except 9803 00 00)	12.5%

[F. No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं014/2006-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 86(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 14/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 का, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 112(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, अधिक्रमण करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जब वह भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, जो पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है, अर्थात् :-

## सारणी

क्रम सं.	पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5208 39	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
2.	5208 39	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत
3.	5208 42	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 37रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
4.	5208 42	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 22रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
5.	5208 49	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 143रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
6.	5208 52	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 23रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
7.	5208 52	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 14रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
8.	5208 53	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 35रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
9.	5208 53	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 21रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
10.	5208 59	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 50रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
11.	5208 59	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
12.	5209 31, 5209 32 या 5209 39	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
13.	5209 31, 5209 32 या 5209 39	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत
14.	5209 41	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 32रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
15.	5209 41	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
16.	5209 43	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
17.	5209 43	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 28रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो

18.	5209 49	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
19.	5209 49	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत
20.	5209 51 या 5209 52	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
21.	5209 51 या 5209 52	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 24रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
22.	5209 59	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 38रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
23.	5209 59	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
24.	5210 39	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
25.	5210 39	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत
26.	5210 49	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 132रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
27.	5210 51	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 15रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
28.	5210 51	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 12रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
29.	5210 59	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 15रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
30.	5210 59	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 12रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
31.	5211 31, 5211 32 या 5211 39	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
32.	5211 31, 5211 32 या 5211 39	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत
33.	5211 41	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 44रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
34.	5211 41	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 35रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
35.	5211 43	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 40रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
36.	5211 43	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 32रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
37.	5211 49	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो



[illegible]



[illegible]

99.	5515 21	कमरे के साज सामान के फ़ैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 55रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
100.	5515 91	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 57रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
101.	5515 91	कमरे के साज सामान के फ़ैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 40रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
102.	5516 22 00 या 5516 23 00	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
103.	5516 22 00 या 5516 23 00	कमरे के साज सामान के फ़ैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत
104.	5801 10	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 210रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
105.	5801 22	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 75रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
106.	5801 22	कमरे के साज सामान के फ़ैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत या 70रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
107.	5801 23 00	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 80रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
108.	5801 25 00	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 120रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
109.	5801 26 00	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 180रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
110.	5801 31 00	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 75रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
111.	5801 33 00	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 150रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
112.	5801 36	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 130रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
113.	5801 90	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 35रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
114.	5802 30 00	कमरे के साज सामान का फ़ैब्रिक	12.5 प्रतिशत या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
115.	5802 30 00	कमरे के साज सामान के फ़ैब्रिक से भिन्न	12.5 प्रतिशत

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए -

(1) “कमरे के साज सामान के फ़ैब्रिक” से फर्निचरों पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री या पर्दों या वाल हैंगिंग के रूप में कवर वाल्स के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल्स, वायुयानों या रेल यात्री कारों में फ़ैब्रिक कवरिंग और निरूपण भी है।

(2) रुपर सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर मूल्यानुसार दर है जब तक कि उसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

Notification  
No. 14 /2006-Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2006  
Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 86(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2005-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005, which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 112 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2005, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

Table

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5208 39	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
2.	5208 39	Other than upholstery fabrics	12.5%
3.	5208 42	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 37 per sq. mtr., whichever is higher
4.	5208 42	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 22 per sq. mtr., whichever is higher
5.	5208 49	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 143 per kg., whichever is higher
6.	5208 52	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher
7.	5208 52	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 14 per sq. mtr., whichever is higher
8.	5208 53	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 35 per sq. mtr., whichever is higher
9.	5208 53	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 21 per sq. mtr., whichever is higher
10.	5208 59	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 50 per sq. mtr., whichever is higher
11.	5208 59	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
12.	5209 31, 5209 32 or 5209 39	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
13.	5209 31, 5209 32 or 5209 39	Other than upholstery fabrics	12.5%
14.	5209 41	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 32 per sq. mtr., whichever is higher
15.	5209 41	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
16.	5209 43	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
17.	5209 43	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 28 per sq. mtr., whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	5209 49	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
19.	5209 49	Other than upholstery fabrics	12.5%
20.	5209 51 or 5209 52	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
21.	5209 51 or 5209 52	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 24 per sq. mtr., whichever is higher
22.	5209 59	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 38 per sq. mtr., whichever is higher
23.	5209 59	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
24.	5210 39	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
25.	5210 39	Other than upholstery fabrics	12.5%
26.	5210 49	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 132 per kg., whichever is higher
27.	5210 51	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 15 per sq. mtr., whichever is higher
28.	5210 51	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 12 per sq. mtr., whichever is higher
29.	5210 59	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 15 per sq. mtr., whichever is higher
30.	5210 59	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 12 per sq. mtr., whichever is higher
31.	5211 31, 5211 32 or 5211 39	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
32.	5211 31, 5211 32 or 5211 39	Other than upholstery fabrics	12.5%
33.	5211 41	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 44 per sq. mtr., whichever is higher
34.	5211 41	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 35 per sq. mtr., whichever is higher
35.	5211 43	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
36.	5211 43	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 32 per sq. mtr., whichever is higher
37.	5211 49	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
38.	5211 49	Other than upholstery fabrics	12.5%
39.	5211 51, 5211 52 or 5211 59	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 18 per sq. mtr., whichever is higher
40.	5211 51, 5211 52 or 5211 59	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 12 per sq. mtr., whichever is higher
41.	5407 42 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 60 per sq. mtr., whichever is higher
42.	5407 42 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 36 per sq. mtr., whichever is higher
43.	5407 43 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 67 per sq. mtr., whichever is higher
44.	5407 43 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
45.	5407 44 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 58 per sq. mtr., whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
46.	5407 44 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 35 per sq. mtr., whichever is higher.
47.	5407 52	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 38 per sq. mtr., whichever is higher
48.	5407 52	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher
49.	5407 53 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 50 per sq. mtr., whichever is higher
50.	5407 53 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
51.	5407 61	Other than upholstery fabrics	12.5%
52.	5407 69 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 60 per sq. mtr., whichever is higher
53.	5407 69 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 36 per sq. mtr., whichever is higher
54.	5407 73 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 60 per sq. mtr., whichever is higher
55.	5407 73 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 36 per sq. mtr., whichever is higher
56.	5407 74 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 38 per sq. mtr., whichever is higher
57.	5407 74 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher
58.	5407 82	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 42 per sq. mtr., whichever is higher
59.	5407 82	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is higher
60.	5407 83 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 67 per sq. mtr., whichever is higher
61.	5407 83 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
62.	5407 84	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 38 per sq. mtr., whichever is higher
63.	5407 84	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher
64.	5407 92 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 67 per sq. mtr., whichever is higher
65.	5407 92 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
66.	5407 93 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 45 per sq. mtr., whichever is higher
67.	5407 93 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 27 per sq. mtr., whichever is higher
68.	5407 94 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 67 per sq. mtr., whichever is higher
69.	5407 94 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
70.	5408 22	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 45 per sq. mtr., whichever is higher
71.	5408 22	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 27 per sq. mtr., whichever is higher
72.	5408 23 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 47 per sq. mtr., whichever is higher
73.	5408 23 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 28 per sq. mtr., whichever is higher
74.	5408 24	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 87 per sq. mtr., whichever is higher

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
75.	5408 24	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 52 per sq. mtr., whichever is higher
76.	5512 19	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 42 per sq. mtr., whichever is higher
77.	5512 19	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is higher
78.	5512 29	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 47 per sq. mtr., whichever is higher
79.	5512 29	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 28 per sq. mtr., whichever is higher
80.	5512 99	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 54 per kg., whichever is higher
81.	5513 21 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 107 per kg., whichever is higher
82.	5513 23 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 125 per kg., whichever is higher
83.	5513 23 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is higher
84.	5513 39 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 125 per kg., whichever is higher
85.	5513 39 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
86.	5513 41 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is higher
87.	5513 41 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 15 per sq. mtr., whichever is higher
88.	5514 21 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 100 per kg., whichever is higher
89.	5514 21 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
90.	5514 22 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 100 per kg., whichever is higher
91.	5514 23 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 114 per kg., whichever is higher
92.	5514 29 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 121 per kg., whichever is higher
93.	5514 31 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 64 per sq. mtr., whichever is higher
94.	5514 31 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 45 per sq. mtr., whichever is higher
95.	5514 32 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 43 per sq. mtr., whichever is higher
96.	5514 32 00	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 26 per sq. mtr., whichever is higher
97.	5514 49 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 114 per kg., whichever is higher
98.	5515 21	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 79 per sq. mtr., whichever is higher
99.	5515 21	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 55 per sq. mtr., whichever is higher
100.	5515 91	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 57 per sq. mtr., whichever is higher
101.	5515 91	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
102.	5516 22 00 or 5516 23 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
103.	5516 22 00 or 5516 23 00	Other than upholstery fabrics	12.5%

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
104.	5801 10	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 210 per sq. mtr., whichever is higher
105.	5801 22	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 75 per sq. mtr., whichever is higher
106.	5801 22	Other than upholstery fabrics	12.5% or Rs. 70 per sq. mtr., whichever is higher
107.	5801 23 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 80 per sq. mtr., whichever is higher
108.	5801 25 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 120 per sq. mtr., whichever is higher
109.	5801 26 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 180 per sq. mtr., whichever is higher
110.	5801 31 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 75 per sq. mtr., whichever is higher
111.	5801 33 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 150 per sq. mtr., whichever is higher
112.	5801 36	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 130 per sq. mtr., whichever is higher
113.	5801 90	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 35 per sq. mtr., whichever is higher
114.	5802 30 00	Upholstery fabrics	12.5% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
115.	5802 30 00	Other than upholstery fabrics	12.5%

**Explanation.** - For the purposes of this notification, -

(1) "Upholstery fabrics" means material used on furniture or used to cover walls, as curtains or wall hangings and includes fabric coverings and treatments in automobiles, airplanes or railroad passenger cars.

(2) The rate specified in column (4) of the Table above is *ad valorem* rate unless otherwise specified therein.

[F.No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 15/ 2006-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन 1927 (शक)

**सा.का.नि. 87(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 15/2005 - सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 113(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

“सारणी

क्रम सं.	पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	मानक दर	अधिमानी दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0806 20	100%	90%
2.	0907	35%	35%

3.	2504	12.5%	5%
4.	2917 37 00 और 2933 71 00	12.5%	10%
5.	2936	12.5%	12.5%
6.	2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 और 2939 59 00	12.5%	10%
7.	2941	12.5%	12.5%
8.	30 (3005 और 3006 के सिवाय)	12.5%	10%
9.	3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00	12.5%	10%
10.	3801 10 00, 3802 10 00 और 3812 10 00	12.5%	10%
11.	3815 11 00 और 3815 12	12.5%	5%

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

**टिप्पण** :—मूल अधिसूचना सं० 15/2005 - सीमा शुल्क तारीख 1 मार्च, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 113(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**Notification**  
No.15/2006-Customs

New Delhi, the 1<sup>st</sup> March, 2006  
10 Phalguna, 1927 (Saka)

**(G.S.R. 87(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.15/2005-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 113(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2005, namely:-

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely: -

Table

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Standard rate	Preferential rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0806 20	100%	90%
2.	0907	35%	35%
3.	2504	12.5%	5%
4.	2917 37 00 and 2933 71 00	12.5%	10%
5.	2936	12.5%	12.5%
6.	2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 and 2939 59 00	12.5%	10%



7.	2941	12.5%	12.5%
8.	30 (except 3005 and 3006)	12.5%	10%
9.	3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 and 3402 19 00	12.5%	10%
10.	3801-10 00, 3802 10 00 and 3812 10 00	12.5%	10%
11.	3815 11 00 and 3815 12	12.5%	5%".

[F.No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

**Note :—** The principal notification No.15/2005-Customs dated the 1<sup>st</sup> March, 2005, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 113(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

अधिसूचना

सं016/2006- सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 88(अ).—** केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और धारा 94 के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 69/2004 - सीमा-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं0 411(अ) तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

(i) क्रम सं0 1 के सामने, --

(क) स्तम्भ (2) की प्रविष्टि में "5105, 5106, 5107, 5108" अंकों के स्थान पर, "5105 29 10" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) स्तम्भ (2) की प्रविष्टि में "5204, 5205, 5206, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405 00 00, 5406, 5501, 5502 00, 5503, 5504, 5506, 5507 00, 5508, 5509, 5510, 5604, 5605, 5606, 5607" अंकों का लोप किया जाएगा ।

(ii) क्रम सं0 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 334/3/2006--टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

**टिप्पण :—** मूल अधिसूचना 69/2004 - सीमा-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं0 411 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 18/2005- सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. सं0 116(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**Notification**

No. 16/ 2006-Customs

New Delhi, the 1st March, 2006

10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 88(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 91 and section 94 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 69/2004-Customs dated the 9<sup>th</sup> July 2004, published in the Gazette of India vide number G.S.R.411 (E), dated the 9<sup>th</sup> July 2004, namely:-  
In the said notification, in the Table,-

- (i) against S. No. 1,-
  - (a) in the entry in column (2), for the figures "5105, 5106, 5107, 5108", the figures "5105 29 10" shall be substituted;
  - (b) in the entry in column (2), the figures "5204, 5205, 5206, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405 00 00, 5406, 5501, 5502, 5503, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5604, 5605, 5606, 5607" shall be omitted;
- (ii) S.No. 14 and the entries relating thereto shall be omitted;

[F. No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

**Note:**— The principal notification 69/2004-Customs, dated the 9<sup>th</sup> July 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.411 (E), dated the 9<sup>th</sup> July 2004, and was last amended by notification No.18/2005-Customs dated 1<sup>st</sup> March 2005 and published vide number G.S.R. 116(E) dated the 1<sup>st</sup> March 2005.

**अधिसूचना**

सं० 17/ 2006-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन 1927 (शक)

**सा.का.नि. 89(अ).**— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परियोजना आयात विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2006 है ।  
(2) ये 1 मार्च, 2006 को प्रवृत्त होंगे ।
2. परियोजना आयात विनियम, 1986 की सारणी में क्रम सं० 3ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

**सारणी**

क्र० सं०	संयंत्र या परियोजना का नाम	प्रायोजित प्राधिकारी
"3घ	अपरिष्कृत तेल, पेट्रोलियम उत्पादों या प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन परियोजनाएं	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय" ।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

**टिप्पण :**— मूल अधिसूचना सं० 230/1986 - सीमा शुल्क तारीख 3 अप्रैल, 1986 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 580(अ) तारीख 3 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 16/2004 - सीमा शुल्क तारीख 8 जनवरी, 2004 [सा.का.नि. सं० 29 (अ) तारीख 8 जनवरी, 2004] द्वारा किया गया था ।

**Notification**  
No. 17/2006-Customs

New Delhi, the 1st March, 2006  
10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 89(E).**— In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Project Imports Regulations, 1986, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Project Imports (Amendment) Regulations, 2006.
- (2) They shall come into force on the 1st day of March, 2006.
2. In the Project Import Regulations, 1986, in the Table, after Sr. No. 3C and the entries relating thereto, the following Sr. No. and entries shall be inserted, namely: -

**TABLE**

Sr. No.	Name of the plant or project	Sponsoring Authority
"3D.	Pipeline projects for the transportation of crude oil, petroleum products or natural gas	Ministry of Petroleum and Natural Gas."

[F.No.334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

**Note:—**The principal notification No. 230/1986-Customs, dated the 3rd April, 1986 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number 580(E), dated the 3rd April, 1986 and was last amended by notification No. 16/2004-Customs, dated the 8th January, 2004 [vide number G.S.R. 29 (E), dated the 8th January, 2004.]

अधिसूचना

सं० 18/2006-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन 1927 (शक)

**सा.का.नि. 90(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 9801 की उपमद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, उक्त शीर्ष के अधीन निर्धारण के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं के रूप में अपरिष्कृत तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन परियोजनाओं को अधिसूचित करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 42/96 - सीमा शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 [सा.का.नि. सं० 294(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996] में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

" 33. अपरिष्कृत तेल, पेट्रोलियम उत्पादों या प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइप लाइन परियोजनाएं ।"

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

**टिप्पण :—**मूल अधिसूचना सं० 42/96 - सीमा शुल्क तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 294(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 15/2004 - सीमा शुल्क तारीख 8 जनवरी, 2004 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 8 जनवरी, 2004 में सा.का.नि. सं० 28 (अ) तारीख 8 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Notification  
No. 18/ 2006-Customs

New Delhi, the 1st March, 2006  
10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 90(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-item (6) of heading 9801 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby notifies pipeline projects for the transportation of crude oil, petroleum products and natural gas as projects for the purpose of assessment under the said heading and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.42/96- Customs, dated the 23rd July, 1996 [G.S.R. 294(E), dated the 23rd July, 1996], namely:-

In the said notification, after serial number 32 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be added, namely:-

(1)	(2)
"33.	Pipeline projects for transportation of crude oil, petroleum products or natural gas."

[F. No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

**Note:**— The principal notification No.42/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 294(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended vide notification No. 15/2004-Customs, dated the 8th January, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 8th January, 2004 vide number G.S.R. 28(E), dated the 8th January, 2004.

अधिसूचना

// सं० 19/2006-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927(शक)

**सा.का.नि. 91(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 19/2005-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 [सा०का०नि० 117 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005] को अधिक्रान्त करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन विनिर्दिष्ट सभी माल, जब वह भारत में आयात किया जाए, भारत में ऐसे या इसी प्रकार के माल के विक्रय या क्रय या परिवहन पर उद्ग्रहणीय विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय कर और अन्य करों या प्रभारों को ध्यान में रखते हुए, 4 प्रतिशत मूल्यानुसार दर पर अतिरिक्त सीमा शुल्क का दायी होगा।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

Notification  
No. 19/ 2006-Customs

New Delhi, the 1st March, 2006  
10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 91(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 19/2005-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005 [number G.S.R. 117(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2005], hereby directs that all goods specified under the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the said Act, having regard to the sales tax, value added tax, local tax and other taxes or charges leviable on sale or purchase or transportation of like goods in India, when imported into India, shall be liable to an additional duty of customs at the rate of four percent. *ad valorem*.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 20/ 2006-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 92(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, जब वह भारत में आयात किया जाए, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त सीमाशुल्क से, जो पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं०.	पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	मानक दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोई अध्याय	सभी माल जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है या उस दशा में, जिसमें वह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन स्तंभ (4) में सीमा शुल्क की दर "निःशुल्क" या "कुछ नहीं" विनिर्दिष्ट है और जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से छूट भी प्राप्त है या जिस पर उक्त अतिरिक्त सीमा शुल्क की कोई रकम किसी कारण से संदेय नहीं है।	कुछ नहीं
2.	27	सार्वजनिक वितरण स्कीम के लिए पेट्रोलियम अपरिष्कृत, कैरोसिन, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला, कोक और पेट्रोलियम गैस तथा ईंधन	कुछ नहीं
3.	9803 00 00	सभी माल	कुछ नहीं

4.	31 या कोई अन्य अध्याय	उर्वरक और उर्वरक के विनिर्माण के लिए सभी माल	कुछ नहीं
5.	4701 से 4706	न्यूजप्रिंट के विनिर्माण के लिए सभी माल	कुछ नहीं
6.	4801	सभी माल	कुछ नहीं
7.	कोई अध्याय	किसी विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) यूनिट में उत्पादित या विनिर्मित और घरेलू उपभोग के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में निकासी किया गया सभी माल, परन्तु ऐसा माल विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर से छूट प्राप्त नहीं हैं	कुछ नहीं
8.	2616	सोना सांद्र	कुछ नहीं
9.	71 (7113 के सिवाय)	जेवरात की वस्तुओं से भिन्न सभी माल	कुछ नहीं
10.	8908 00 00	सभी माल	कुछ नहीं
11.	9801	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002] से उपाबद्ध सारणी की क्र० सं० 399 के सामने मद (iv) और मद (vi) में विनिर्दिष्ट माल	कुछ नहीं
12.	84 या कोई अन्य अध्याय	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002] से संलग्न सूची 44 में विनिर्दिष्ट माल	कुछ नहीं
13.	8201	मानव प्रचालित या पशु चालित कृषि उपकरण, उनके पुर्जे, संघटक और साधित्र	कुछ नहीं
14.	कोई अध्याय	विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त सहायक और उपकरण	कुछ नहीं
15.	23	जलचर भोजन, कुक्कुट भोजन और पशु भोजन जिसके अंतर्गत घास, सूखी घास और भूसा भी है, दलहन की पूरक और भूसी, सांद्र और योज्यक, गेहूँ का चोकर और खली	कुछ नहीं
16.	1404 90 40	पान के पत्ते	कुछ नहीं
17.	4901, 4902, 4903 या 4904	पुस्तकें, पत्रिकाएँ और जर्नल जिनके अंतर्गत नक्शे, चार्ट और ग्लोब भी हैं	कुछ नहीं
18.	27 या 4402	चारकोल	कुछ नहीं
19.	10	धान, चावल और गेहूँ से भिन्न स्थूल अन्न	कुछ नहीं
20.	4014 10 3006 60	कंडोम और गर्भ निरोधक	कुछ नहीं
21.	5004, 5005, 5006	अट्टी और शंकु में सूती या रेशमी सूत	कुछ नहीं
22.	0403, 0406 10 00	दही, लस्सी, मखनी दूध, पृथकीकृत दूध	कुछ नहीं
23.	68	मिट्टी के बर्तन	कुछ नहीं
24.	4401 10	कैसुरिना और यूकेलिप्टस लकड़ी के सिवाय जलाने की लकड़ी	कुछ नहीं
25.	5608 11, 54, 55	मत्स्य पकड़ने का जाल, मत्स्य जाल फैब्रिक और मत्स्य बीज, प्रोन या श्रिम्प बीज	कुछ नहीं

26.	0401	ताजा दूध और पाश्चुरीकृत दूध	कुछ नहीं
27.	0602, 0603	ताजे पौधे, सैप्लिंग्स और ताजे पुष्प	कुछ नहीं
28.	7, 8	ताजी सब्जियाँ और फल	कुछ नहीं
29.	0703 20 00, 0910 10	लहसुन और अदरक	कुछ नहीं
30.	3926 40 11, 3926 40 19, 7018 10 00	बहुमूल्य धातुओं से बनी चूड़ियों के सिवाय सभी प्रकार की चूड़ियाँ	कुछ नहीं
31.	3002 90 10, 3002 10	मानव रक्त और रक्त प्लाज्मा	कुछ नहीं
32.	33	कुमकुम, बिन्दी, आल्टा और सिन्दूर	कुछ नहीं
33.	2, 3, 0407 या 5	मांस, मछली, प्रोन और अन्य जलचर उत्पाद जब वे उपचारित या जमे हुए न हों ; कुक्कुट, अंडे और पशु तथा पशु बाल	कुछ नहीं
34.	63	राष्ट्रीय ध्वज	कुछ नहीं
35.	3101	कार्बनिक खाद	कुछ नहीं
36.	5101	अपरिष्कृत ऊन	कुछ नहीं
37.	0511	सीमन जिसमें जमा हुआ सीमन भी है	कुछ नहीं
38.	5001 00 00, 5002	सिल्क वार्म लेइंग ; ककून और अपरिष्कृत रेशम	कुछ नहीं
39.	6815	स्लेट और स्लेट पेंसिल	कुछ नहीं
40.	0801 19 10	कच्चा हरा नारियल	कुछ नहीं
41.	1905	ब्रेड (ब्रांड नाम वाली और बिना ब्रांड वाली)	कुछ नहीं
42.	25 01 0010	साधारण नमक (प्रसंस्कृत या अप्रसंस्कृत)	कुछ नहीं
43.	2201 90 90, 2202 90 90	(i) वातित, खनिज, आसवित, मेडिसिनल, आयोनिक, बैटरी, विखनिजित जल और (ii) बंद आधानों में विक्रीत जल से भिन्न जल	कुछ नहीं
44.	27	परिवहन सेक्टर में उपयोग के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी)	कुछ नहीं
45.	6913 90 00	मिट्टी से बनी मूर्तियाँ	कुछ नहीं
46.	6914 90 00	क्ले लैप	कुछ नहीं
47.	0801 10	नारियल और कोकोनट से पृथक की गई गिरी	कुछ नहीं
48.	4911	धार्मिक तस्वीरें जो कलेण्डरों के रूप में प्रयोग के लिए नहीं हैं	कुछ नहीं
49.	0713, 1001, 1006	धान, चावल, गेहूँ और दलहन	कुछ नहीं

50.	कोई अध्याय	सभी माल जो (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है	कुछ नहीं
51.	1101 00 00, 1102 00 00	फ्लोर आटा, मैदा, बेसन और सूजी	कुछ नहीं
52.	1209	तिलहनों से भिन्न सभी बीज	कुछ नहीं
53.	1701 11 10	गुड़ और जैगरी	कुछ नहीं
54.	27	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाली सभी मदें (कैरोसिन के सिवाय)	कुछ नहीं
55.	2106 90 99	पापड़ और वड़ी	कुछ नहीं
56.	1301 10	लाख	कुछ नहीं
57.	3915	प्लास्टिक अपशिष्ट	कुछ नहीं
58.	7001 00 10	स्क्रेप ग्लास या स्क्रेप ग्लास बोतल	कुछ नहीं
59.	4707	कागज अपशिष्ट	कुछ नहीं
60.	8524 31 11, 8524 40 11, 8524 91 12, 8524 91 13	सभी माल	कुछ नहीं
61.	7113	जेवरात की वस्तुएं	1 प्रतिशत मूल्यानुसार

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

Notification

No. 20/ 2006-Customs

New Delhi, the 1st March, 2006

10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 92(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the additional duty of customs leviable thereon under sub-section (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the Table aforesaid:-



Table

S. No.	Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods	Standard rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Any Chapter	All goods which are exempt from the whole of the duty of customs leviable thereon or in case of which "Free" or "Nil" rates of duty of Customs are specified in column (4) under the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and which are also exempt from the whole of additional duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Act, or on which no amount of the said additional duties of customs is payable for any reason.	Nil
2.	27	Petroleum crude, kerosene for Public distribution scheme, liquefied petroleum gas for domestic household consumers, petrol, diesel, coal, coke and petroleum gases and fuels	Nil
3.	9803 00 00	All goods	Nil
4.	31 or any other Chapter	Fertilizers and all goods for manufacture of fertilizers	Nil
5.	4701 to 4706	All goods for manufacture of Newsprint	Nil
6.	4801	All goods	Nil
7.	Any Chapter	All goods produced or manufactured in a Special Economic Zone (SEZ) unit and cleared in the Domestic Tariff Area (DTA) for home consumption, provided such goods are not exempted from sales tax or value added tax (VAT)	Nil
8.	2616	Gold concentrate	Nil
9.	71 (except 7113)	All goods other than Articles of jewellery	Nil
10.	8908 00 00	All goods	Nil
11.	9801	Goods specified in item (iv) and item (vi) against S.No. 399 of the Table annexed to notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002 [G.S.R. 118 (E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002]	Nil
12.	84 or any other Chapter	Goods specified in List 44 appended to notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002 [G.S.R. 118 (E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002]	Nil
13.	8201	Manually operated or animal driven agricultural implements, their spare parts, components and accessories	Nil
14.	Any Chapter	Aid and implements used by handicapped persons	Nil
15.	23	Aquatic feed, poultry feed and cattle feed including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake	Nil
16.	1404 90 40	Betel leaves	Nil

S. No.	Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods	Standard rate
17.	4901, 4902, 4903 or 4904	Books, Periodicals and journals including maps, charts and globes	Nil
18.	27 or 4402	Charcoal	Nil
19.	10	Coarse grains other than paddy, rice and wheat	Nil
20.	4014 10, 3006 60	Condoms and Contraceptives	Nil
21.	5004, 5005, 5006	Cotton and silk yarn in hank and cone	Nil
22.	0403, 0406 10 00	Curd, Lassi, butter mil and separated milk	Nil
23.	68	Earthen pot	Nil
24.	4401 10	Firewood except casurina and eucalyptus timber	Nil
25.	5608 11, 54, 55	Fishnet, fishnet fabrics and fish seeds, prawn or shrimp seeds	Nil
26.	0401	Fresh milk and pasteurized milk	Nil
27.	0602, 0603	Fresh plants, saplings and fresh flowers	Nil
28.	7, 8	Fresh vegetables and fruits	Nil
29.	0703 20 00, 0910 10	Garlic and ginger	Nil
30.	3926 40 11, 3926 40 19, 7018 10 00	All bangles except those made of precious metals	Nil
31.	3002 90 10, 3002 10	Human blood and blood plasma	Nil
32.	33	Kumkum, bindi alta and sindur	Nil
33.	2, 3, 0407, 5	Meat, fish, prawn and other aquatic products when not cured or frozen; poultry, eggs and livestock and animal hair	Nil
34.	63	National Flag	Nil
35.	3101	Organic manure	Nil
36.	5101	Raw wool	Nil
37.	0511	Semen including frozen semen	Nil
38.	5001 00 00, 5002	Silk worm laying; conchoon and raw silk	Nil
39.	6815	Slate and slate pencils.	Nil
40.	080119 10	Tender green coconut	Nil
41.	1905	Bread (branded and unbranded)	Nil
42.	25 01 0010	Common salt (Processed or un-processed)	Nil
43.	2201 90 90, 2202 90 90	Water other than (i) aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized water, and (ii) water sold in sealed container	Nil
44.	27	Compressed Natural Gas (CNG) for use in the Transport sector.	Nil

S. No.	Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods	Standard rate
45.	6913 90 00	Idols made of clay	Nil
46.	6914 90 00	Clay lamps	Nil
47.	0801 10	Coconut in shell and separated kernel of coconut	Nil
48.	4911	Religious Pictures not for use as calendars	Nil
49.	0713, 1001, 1006	Paddy, rice, wheat and pulses	Nil
50.	Any Chapter	All goods specified in the First Schedule to the Additional Duty of Excise (Goods Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957)	Nil
51.	1101 00 00, 1102 00 00	Flour Atta, Maida, Besan and Suji	Nil
52.	1209	All seeds other than oil seeds	Nil
53.	1701 11 10	Gur and Jaggeri	Nil
54.	27	Items covered under Public Distribution System, (except kerosene)	Nil
55.	2106 90 99	Papad and Vadi	Nil
56.	1301 10	Lac	Nil
57.	3915	Plastic waste	Nil
58.	7001 00 10	Scrap glass or scrap glass bottles	Nil
59.	4707	Paper waste	Nil
60.	8524 31 11, 8524 40 11, 8524 91 12, 8524 91 13	All goods	Nil
61.	7113	Articles of jewellery	1% <i>ad valorem</i>

[F.No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 3/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 93(अ).—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई हैं, के अंतर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क माल को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उस पर विनिर्दिष्ट उतने उत्पाद-शुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए छूट देती है।

स्पष्टीकरण — इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दरें मूल्यानुसार दरें हैं जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाएं।

सारणी

क्रम सं०	पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	उत्पाद-शुल्क्य माल का वर्णन	दर	शर्त सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0402 91 10 0402 99 20	संघनित दूध	कुछ नहीं	-
2.	0902	चाय, जिसके अंतर्गत चाय अवशिष्ट भी है	कुछ नहीं	-
3.	1108 12 00, 1108 14 00, या 1108 19	टेपिओका स्टार्च, मैज स्टार्च	कुछ नहीं	-
4.	1301 10	लाक	कुछ नहीं	-
5.	1301 90 13	मिश्रित आशाफोएटिडा जिसे सामान्यतः 'हींग' के नाम से जाना जाता है	कुछ नहीं	-
6.	1302 19 20, 1302 19 30	केश्यू शैल लिक्विड (सीएनएसएल)	कुछ नहीं	-
7.	1302 20 00	सभी माल	कुछ नहीं	-
8.	1302	वनस्पति रस और सार जो औषध के विनिर्माण के लिए उनके उत्पादन के कारखाने के भीतर प्रयुक्त किया जाता है जो अनन्यतः आयुर्वेदिक, यूनानी या सिद्ध प्रणाली में उपयोग में लाई जाती हैं	कुछ नहीं	-
9.	1507 से 1515	सभी माल	कुछ नहीं	-
10.	1516	सभी माल	कुछ नहीं	-
11.	1517 90 या 1518	सभी माल (मारगरीन और ऐसी ही खाद्य निर्मितियों से भिन्न)	कुछ नहीं	-
12.	1517 10	मारगरीन	कुछ नहीं	-
13.	16	सभी माल	कुछ नहीं	-
14.	1703	एरकोहल से भिन्न माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए सीरा (वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी के विनिर्माण में उत्पादित सीरा से भिन्न)	कुछ नहीं	-
15.	1703	सभी माल	750 रु० प्रति मी टन	-

16.	1704 90	चनी की कन्फेक्शनरी (सफेद चाकलेट के सिवाय) जिसमें कोको नहीं है	8%	-
17.	1902 (उपशीर्ष 1902 40 के सिवाय)	सभी माल	कुछ नहीं	-
18.	1905 31 00 या 1905 90 20	बिस्कुट	8%	-
19.	1905 32 19 या 1905 32 90	वैफर बिस्कुट	8%	-
20.	1905 90 10	पेस्ट्री और केक	8%	-
21.	18, 19, 20, 21 या 22	आइसक्रीम और गैर अल्कोहोलीय जो वेंडिंग मशीनों द्वारा तैयार और अलग की जाती है	कुछ नहीं	-
22.	20	सभी माल	कुछ नहीं	-
23.	2102	यीस्ट	कुछ नहीं	-
24.	2103	साँस, कैचप और उसी प्रकार की निर्मितियाँ तथा उनके लिए निर्मितियाँ	कुछ नहीं	-
25.	2104	सूप और ब्रोथ तथा उनके लिए निर्मितियाँ	कुछ नहीं	-
26.	2105 00 00	सभी माल	कुछ नहीं	-
27.	2106 90 30	सुगन्धयुक्त सुपारी, जहाँ फुटकर विक्रय कीमत पैकेज पर घोषित है और ऐसी फुटकर विक्रय कीमत एक रूपए प्रति पैक से अधिक नहीं है  स्पष्टीकरण — “फुटकर विक्रय कीमत” से ऐसी अधिकतम कीमत अभिप्रेत है जिसपर पैक रूप में उत्पाद शुल्क्य माल अंतिम उपभोक्ता को बेचा जा सकेगा और उसके अंतर्गत सभी कर, स्थानीय या अन्यथा, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्योहारियों को संदेय कमीशन और यथास्थिति, विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण और वैसे ही मद्दे सभी प्रभार तथा कीमत ऐसे विक्रय के लिए एक मात्र प्रतिफल है	8%	-
28.	2106	टैक्सचराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन्स (सोया वड़ी) और इंस्टांट फूड मिक्स जैसे कि पोंगल मिक्स, वड़ई मिक्स, पकोड़ा मिक्स, प्यासम मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स, रवा डोसा मिक्स, इडली मिक्स, डोसाई मिक्स, मुरकुकु मिक्स और केसरी मिक्स	8%	-
29.	2106 90	स्वीट मीट (जिसे “मिष्ठान” या “मिठाई” या किसी अन्य नाम से जाना जाता है), नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी प्रकार की उपभोग योग्य तैयार खाद्य निर्मितियाँ, पापड़ और जलजीरा	कुछ नहीं	-

30.	2106 90 99	पैक रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य (तत्क्षण खाद्य)	8%	-
31.	2201 10 20 या 2202 10 10	वैडिंग मशीनों द्वारा तैयार और निकाला गया वातित जल	कुछ नहीं	-
32.	2202 90 20	सभी माल	कुछ नहीं	-
33.	2403 10 10	'हुक्का' या 'चिलम' द्वारा पीने के लिए प्रयुक्त तंबाकू जिसे सामान्यतः 'हुक्का तम्बाकू' या 'गुडाकू' के नाम से जाना जाता है	16%	-
34.	2403 10 10	हुक्का या गुडाकू तम्बाकू जिसका कोई ब्रांड नाम न हो	कुछ नहीं	-
35.	2403 10 90	अन्य पीने वाले तम्बाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम न हो	16%	-
36.	2403 10 31	ऐसे विनिर्माता द्वारा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से कोई बीड़ी ब्रांड नाम के अधीन नहीं बेची जाती है, मशीनों की सहायता के बिना विनिर्मित बीड़ियाँ, पेपर रोल्ड बीड़ियों से भिन्न, ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए बीड़ियों की पहली निकासी किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् 20 लाख से अनधिक मात्रा तक की जाती है	कुछ नहीं	-
37.	2403 10 31	सभी माल	6 ₹ प्रति हजार	-
38.	2403 10 39	सभी माल	15 ₹ प्रति हजार	-
39.	2403 91 00	सभी माल, जिनका कोई ब्रांड नाम नहीं है	कुछ नहीं	-
40.	2403 99 90	अन्य विनिर्मित तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू स्थानापन्न, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है	16%	-

स्पष्टीकरण -- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 'ब्रांड नाम' से ब्रांड नाम अभिप्रेत है चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिन्ह जैसे कि कोई प्रतीक, मानोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या गढ़न्त शब्द या कोई लेख जो उत्पाद और ऐसे व्यक्ति के बीच, जो उस व्यक्ति की पहचान के उपदर्शन के साथ या उसके बिना ऐसे नाम या चिन्ह का प्रयोग कर रहा है, व्यापार के दौरान संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिससे कि वह उपदर्शित किया जा सके, उत्पाद के संबंध में प्रयोग किया जाता है।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**Notification**

No. 3/2006-Central Excise

New Delhi, the 1st March 2006.

10 Phalgun, 1927 (Saka)

९३

**G.S.R. 93(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the Central Excise Tariff Act), as are given in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise specified thereon under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table and subject to the relevant conditions, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, the rates specified in column (4) of the said Table are *ad valorem* rates, unless otherwise specified.

Table

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of excisable goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0402 91 10 0402 99 20	Condensed milk	Nil	—
2.	0902	Tea, including tea waste	Nil	—
3.	1108 12 00, 1108 14 00, or 1108 19	Tapioca Starch, Maize Starch	Nil	—
4.	1301 10	Lac	Nil	—
5.	1301 90 13	Compounded Asafoe-tida, commonly known as 'heeng'	Nil	—
6.	1302 19 20 1302 19 30	Cashew shell liquid (CNSL)	Nil	—
7.	1302 20 00	All goods	Nil	—
8.	1302	Vegetable saps and extracts, used within the factory of their production for the manufacture of medicaments which are exclusively used in Ayurvedic, Unani or Siddha systems	Nil	—
9.	1507 to 1515	All goods	Nil	—
10.	1516	All goods	Nil	—
11.	1517 90 or 1518	All goods (other than margarine and similar edible preparations).	Nil	—
12.	1517 10	Margarine	Nil	—
13.	16	All goods	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	2202 90 20	All goods	Nil	—
33.	2403 10 10	Tobacco, used for smoking through 'hookah' or 'chilam', commonly known as 'hookah' tobacco or 'gudaku'.	16%	—
34.	2403 10 10	Hookah or gudaku tobacco, not bearing a brand name	Nil	—
35.	2403 10 90	Other smoking tobacco, not bearing a brand name	16%	—
36.	2403 10 31	Biris, other than paper rolled biris, manufactured without the aid of machines, by a manufacturer by whom or on whose behalf no biris are sold under a brand name, in respect of first clearances of such biris for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories upto a quantity not exceeding 20 lakhs cleared on or after the 1st day of April in any financial year.	Nil	—
37.	2403 10 31	All goods	Rs.6 per thousand	—
38.	2403 10 39	All goods	Rs.15 per thousand	—
39.	2403 91 00	All goods, not bearing a brand name	Nil	—
40.	2403 99 90	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes, not bearing a brand name	16%	—

**Explanation.** - For the purposes of this notification, 'brand name' means a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to a product, for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the product and a person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	1703	Molasses (Other than produced in the manufacture of sugar by the vacuum pan process), for use in the manufacture of goods other than alcohol.	Nil	—
15.	1703	All goods	Rs750 per MT	—
16.	1704 90	Sugar confectionery (excluding white chocolate), not containing cocoa	8%	—
17.	1902 (except sub-heading 1902 40)	All goods	Nil	—
18.	1905 31 00 or 1905 90 20	Biscuits	8%	—
19.	1905 32 19 or 1905 32 90	Wafer biscuits	8%	—
20.	1905 90 10	Pastries and cakes	8%	—
21.	18, 19, 20, 21 or 22	Ice-cream and non-alcoholic beverages, prepared and dispensed by vending machines	Nil	—
22.	20	All goods	Nil	—
23.	2102	Yeast	Nil	—
24.	2103	Sauces, ketchup and the like and preparations therefor	Nil	—
25.	2104	Soups and broths and preparations therefor	Nil	—
26.	2105 00 00	All goods	Nil	—
27.	2106 90 30	Scented supari, where the retail sale price is declared on the package and such retail sale price does not exceed Re.1 per package. <i>Explanation.</i> -“Retail sale price” means the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like, as the case may be, and the price is the sole consideration for such sale	8%	—
28.	2106	Texturised Vegetable Proteins (Soya bari), and instant food mixes such as Pongal mix, Vadai mix, Pacoda mix, Payasam mix, Gulab jamun mix, Rava Dosa mix, Idli mix, dosai mix, Murruku mix, and Kesari mix.	8%	—
29.	2106 90	Sweetmeats (known as ‘mishthans’ or ‘mithai’ or by any other name), namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, papad and jaljeera	Nil	—
30.	2106 90 99	Ready to eat packaged food	8%	—
31.	2201 10 20 or 2202 10 10	Aerated waters prepared and dispensed by vending machines	Nil	—

अधिसूचना

सं० 4/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006,

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 94(अ).—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सुसंगत सूची के साथ पठित नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई हैं, के अंतर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क माल को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उस पर विनिर्दिष्ट उतने उत्पाद-शुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए छूट देती है।

**स्पष्टीकरण —** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दरें मूल्यानुसार दरें हैं, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाएं।

## सारणी

क्रम सं०	पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	उत्पाद-शुल्क माल का वर्णन	दर	शर्त सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2523 29	निम्नलिखित में विनिर्मित सभी माल, - (i) कारखाना, जिसमें उर्ध्वाधर शाफ्ट भट्टे का उपयोग किया जाता है, जिसकी संस्थापित क्षमता 300 टन प्रतिदिन या 99,000 टन प्रतिवर्ष से अनधिक है और कारखाने द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में, उत्पादित सीमेंट की कुल निकासी 1,09,500 टन से अधिक नहीं होगी।  (ii) कारखाना जिसमें रोटरी भट्टे का उपयोग किया जाता है, जिसकी संस्थापित क्षमता 900 टन प्रतिदिन या 2,97,000 टन प्रतिवर्ष से अनधिक है और कारखाने द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सीमेंट की कुल निकासी 3,00,000 टन से अधिक नहीं होगी।	250 रु०	1
2.	2515 12 20 या 2515 12 90 या 6802 21 10	संगमरमर की स्लेब और टाइलें	30 रु० प्रति वर्गमीटर	—
3.	2503 00 10	उर्वरकों के विनिर्माण के लिए सभी माल	कुछ नहीं	2
4.	2601 से 2617	अयस्क	कुछ नहीं	—

5.	2616 90 10	शोधन करने के लिए सोना सांद्र	कुछ नहीं	—
6.	2619	लौह और इस्पात के विनिर्माण से उद्भूत स्लेग	कुछ नहीं	—
7.	27	नेप्था और प्राकृतिक गैसोलीन द्रव, उर्वरक या अमोनिया के विनिर्माण में उपयोग के लिए	कुछ नहीं	2 और 3
8.	27	नेप्था, जिसका बंद रहने और आरंभ रहने की अवधियों के दौरान किसी उर्वरक संयंत्र में उपयोग किया जाता है।	कुछ नहीं	2 और 3
9.	27	निम्नलिखित के उपयोग के लिए आशयित नेप्था और प्राकृतिक गैसोलीन द्रव - (i) दडोदश या तूतीकोरिन या हजीरा या थाल स्थित भारी जल संयंत्र के भीतर संश्लिष्ट गैस या अमोनिया या वाष्प के विनिर्माण के लिए जिनका ऐसे संयंत्रों में भारी जल के विनिर्माण में उपयोग किया जाना है। (ii) मैसर्स गुजरात राज्य फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड दडोदश या मैसर्स सदरन पेट्रो कैमिकल्स इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, तूतीकोरिन या मैसर्स कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) हजीरा या मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) थाल द्वारा संश्लिष्ट गैस या अमोनिया या वाष्प के विनिर्माण के लिए और यदि इस प्रकार विनिर्मित संश्लिष्ट गैस या अमोनिया या वाष्प का ऐसे संयंत्र में भारी जल के विनिर्माण के लिए क्रमशः दडोदश या तूतीकोरिन या हजीरा या थाल स्थित भारी जल के संयंत्रों को प्रदाय किया जाता है।	कुछ नहीं	2 और 3
10.	27	उर्वरकों के विनिर्माण में फीड स्टॉक के रूप में उपयोग के लिए आशयित भट्टी तेल	कुछ नहीं	2 और 3
11.	27	बायो गैस	कुछ नहीं	—
12.	27	प्राकृतिक गैस से प्राप्त लीन गैस	कुछ नहीं	—
13.	27	बिटुमेनी खनिजों से अभिप्राप्त पेट्रोलियम तेलों के या तेलों के अवशिष्ट, जिसके अन्तर्गत पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 2713 के अन्तर्गत आने वाले हैवी पेट्रोलियम स्टाक, लो सल्फर हैवी स्टाक और अन्य अवशिष्ट ईंधन तेल हैं, जो उर्वरकों के विनिर्माण में फीड स्टाक के रूप में प्रयोग के लिए आशयित हैं।	कुछ नहीं	2 और 3
14.	27 या 28	संश्लिष्ट गैस, यदि उसका भारी जल के विनिर्माण में	कुछ नहीं	—

उपयोग किया जाता है

15.	2710	रिफाइनरी से लीनियर अल्काईल बेन्जीन या हैवी एल्काइलेट के विनिर्माण में उपयोग के आशय के लिए कारखाने द्वारा प्राप्त मिट्टी का तेल और उस कारखाने द्वारा उस रिफाइनरी या उस रिफाइनरी के भाण्डागार को वापस, जहां से ऐसा मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ है। स्पष्टीकरण: : छूट के प्रयोजन के लिए,- (क) लीनियर एल्काइल बेन्जीन या हैवी एल्काइलेट के विनिर्माण में खपत हुए मिट्टी के तेल की मात्रा की संगणना, लीनियर एल्काईल बेन्जीन या हैवी एल्कीलाईट का विनिर्माण करने वाले, यथास्थिति, कारखाने या भाण्डागार द्वारा, मिट्टी के तेल की मात्रा से ऐसे विनिर्माण में उत्पादित उक्त अनुसूची के शीर्ष सं० 2710 के अन्तर्गत आने वाले खनिज तेल की मात्रा ; (ख) 'भाण्डागार' से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 20 के अधीन अनुमोदित वेयरहाउस अभिप्रेत है। (ग) 'रिफाइनरी' से कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल या प्राकृतिक गैस से कैंरोसीन बनाती है।	कुछ नहीं	4
16.	2710	अवगैस	कुछ नहीं	
17.	2710 11	सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रिट	8 प्रतिशत घन 5.00 रु० प्रति लीटर	
18.	2710 11	सभी माल (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रिट से भिन्न)	32 प्रतिशत	—
19.	2710 19 30	उच्च गति डीजल ( एच एस डी )	8 प्रतिशत घन 1.25 रु० प्रति लीटर	—
20.	2710	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अन्तिम विक्रय के लिए मिट्टी का तेल	कुछ नहीं	—
21.	2710 19 40	हल्का डीजल तेल	16 प्रतिशत	—

			धन 2.50 रु० प्रति लीटर	
22.	2710 19 20	विमानन टर्बाइन फ्यूल ईंधन	8 प्रतिशत	—
23.	2710	खाद्य श्रेणी हेक्सेन	16 प्रतिशत	—
24.	2710	5 प्रतिशत एथनोल मिश्रित पेट्रोल जो निम्नलिखित से मिश्रित की गई है - (क) परिमाण में मोटर स्पिरिट का 95 प्रतिशत (जो सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात है) जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क का संदाय कर दिया गया है और पांच प्रतिशत के एथनल का जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क का संदाय कर दिया गया है ; और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 2796 के अनुरूप है । स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजनों के लिए “समुचित उत्पाद-शुल्क” से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क, वित्त (सं०2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) के धारा 111 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत हैं ।	कुछ नहीं	—
25.	2711 11 00	द्रवीकृत प्राकृतिक गैस	कुछ नहीं	—
26.	2711 12 00 2711 13 00 2711 19 00	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं० पी 20029/18/2001 पीपी -तारीख 28 जनवरी, 2003 द्वारा यथा अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैरोसीन और घरेलू एलपीजी साहायिकी स्कीम, 2002 के अधीन साहायिकी कीमत पर गृहउपयोगी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिए द्रवीकृत प्रोपेन और बूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत बूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	कुछ नहीं	—
27.	2711 12 00 2711 13 00 2711 19 00	द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस ( एलपीजी )	8 प्रतिशत	—

28. 2711 प्रोपाइलीन या डीबूटिल पैरा क्रेसोल (डीबीपीसी) के कुछ नहीं —  
विनिर्माण में उपयोग के आशय के लिए रिफाइनरी से कारखाने द्वारा प्राप्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और कारखाने द्वारा उस रिफाइनरी को वापस लौटाना जहां से ऐसी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) प्राप्त हुई थी ।  
स्पष्टीकरण - छूट के प्रयोजनों के लिए, प्रोपाइलीन के विनिर्माण में खपत हुई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों की मात्रा की संगणना, प्रोपाइलीन का विनिर्माण करने वाले कारखाने द्वारा प्राप्त की गई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों की मात्रा से, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 20 के अधीन यथा घोषित कारखाने द्वारा रिफाइनरी को वापस की गई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों की मात्रा से घटा कर की जाएगी ।
29. 2711 पालिआइसोबुटीलीन या मिथाइल इथिल कीटोन (एम ई के) के विनिर्माण में प्रयोग के आशय के लिए कुछ नहीं —  
रिफाइनरी से कारखाने द्वारा प्राप्त पेट्रोलियम गैस और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन और उस रिफाइनरी को कारखाने द्वारा वापस जहां से ऐसी पेट्रोलियम गैस और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन प्राप्त की गई हैं ।  
स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजनों के लिए, पालिआइसोबुटीलीन का विनिर्माण करने वाले कारखाने में प्रयुक्त पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैस वाले हाइड्रोकार्बन की मात्रा की गणना कारखाने द्वारा प्राप्त उक्त गैसों की मात्रा से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 20 के अधीन यथा घोषित कारखाने द्वारा रिफाइनरी को जिसने उक्त गैसों का प्रदाय किया था, वापस की गई गैसों की मात्रा घटा कर की जाएगी ।
30. 2711 21 00 प्राकृतिक गैस ( संपीडित प्राकृतिक गैस से भिन्न ) कुछ नहीं —
31. 28 वाष्प कुछ नहीं —
32. 28 उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल, ओलियम, आक्सीजन और अमोनिया कुछ नहीं 2
33. 28 जल के अखनिजीकरण के लिए उर्वरक संयंत्र में प्रयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ नहीं —
34. 28 प्रशीतन और शुद्धिकरण प्रक्रिया में किसी उर्वरक संयंत्र में प्रयुक्त अमोनिया कुछ नहीं —

35. 28 निम्नलिखित में उपयोग के लिए आशयित अमोनियम कुछ नहीं —  
क्लोराइड और मैगनीज सल्फेट -
- (क) उर्वरक के रूप में ; या
- (ख) उर्वरकों के विनिर्माण में, चाहे सीधे ही या किसी मध्यवर्ती उत्पाद के प्रक्रम के माध्यम से प्रयुक्त किया गया हो ।
- स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजनों के लिए “उर्वरक” का वही अर्थ होगा जो उर्वरक (नियंत्रण)आदेश, 1985 में है ।
36. 25 स्वर्ण से विनिर्मित और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त ऐसे स्वर्ण —  
स्वर्ण पोटेशियम साइनाइड । पोटेशियम साइनाइड का मूल्य का 16 प्रतिशत जिसमें ऐसे माल के विनिर्माण में उपयोग किए गए स्वर्ण का मूल्य सम्मिलित नहीं है
37. 28 पोटेशियम आयोडेट कुछ नहीं —
38. 28 जरी के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने में प्रयुक्त स्वर्ण पोटेशियम साइनाइड घोल कुछ नहीं —
39. 28 स्वर्ण आभूषण के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने में प्रयुक्त स्वर्ण पोटेशियम सायनाइड कुछ नहीं —
40. 28 अध्याय 71 के अधीन आने वाले माल के विनिर्माण के लिए उत्पादन कारखाने के भीतर प्रयुक्त सभी माल कुछ नहीं —
41. 28 थोरियम आक्सलेट कुछ नहीं —
42. 28 या 29 सेंटक्रोमन के विनिर्माण में प्रयुक्त सभी रसायन कुछ नहीं —
43. 28 या 29 सूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रयुज औषधियां प्रयुज औषधियों से कोई भेषज, रसायन, जैविक या पादप उत्पाद अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत इनके तवण, कुछ नहीं —
- स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रयुज औषधियों से कोई भेषज, रसायन, जैविक या पादप उत्पाद अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत इनके तवण,

ईस्टर, स्टेरिओ-आइसोमर्स और व्युत्पन्न है जो ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ( 1940 का 23 ) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भेषजीय या अन्य मानकों के अनुरूप हैं, और जिनका उसी रूप में या किसी विनिर्मिति में संघटक के रूप में उपयोग किया जाता है ।

- |     |                  |  |   |    |
|-----|------------------|--|---|----|
| 44. | 28 या 29         | सूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रपुंज ओषधियों के विनिर्माण में प्रयुक्त सूची 2 में विनिर्दिष्ट माल  | कुछ नहीं  | 2  |
| 45. | 28, 29 या 30     | एनेस्थेटिक्स   | कुछ नहीं  | -- |
| 46. | 28 या 38         | निम्नलिखित माल -<br>(क) निम्नलिखित धातुओं में से किसी के समर्थित उत्प्रेरक, अर्थात् :-<br>(i) स्वर्ण<br>(ii) रजत<br>(iii) प्लेटिनम<br>(iv) प्लाडियम<br>(v) रोडियम<br>(vi) इरीडियम<br>(vii) ओसमियम<br>(viii) रूथिनियम;<br>(ख) ऐसे उत्प्रेरकों के बनाने के लिए और ऐसी धातुओं में प्रयुक्त या भुक्तशेष उत्प्रेरकों या पुरानी या प्रयुक्त वस्तुओं से प्राप्त की गई धातुओं से या दोनों से विनिर्मित, अर्थात् :-<br>(i) स्वर्ण<br>(ii) रजत<br>(iii) प्लेटिनम<br>(iv) प्लाडियम<br>(v) रोडियम<br>(vi) इरीडियम<br>(vii) ओसमियम<br>(viii) रूथिनियम | यदि कोई है, के मूल्य का 16 प्रतिशत ऐसे विनिर्माण के लिए जोड़ी गई और प्रभाषित राशि |    |
| 47. | 28, 29, 30 या 38 | निम्नलिखित माल अर्थात् :-<br>(क) भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/ 2002-सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2002, (सा.का.नि.118(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 )से संलग्न सूची 3 या सूची 4 में विनिर्दिष्ट ओषधि या औषधियाँ जिनके अन्तर्गत उनके लवण और ईस्टर तथा नैदानिक परीक्षण किट भी हैं,<br>(ख) ऊपर (क) पर ओषधि या औषधियों के विनिर्माण में   | कुछ नहीं  | -- |



	प्रयुक्त प्रपुंज ओषधियां	कुछ नहीं	2
48. 28, 29 या 30	ओषधि या औषधियों के विनिर्माण के लिए उत्पादन कारखाने में प्रयुक्त सभी माल जो पूर्णतः उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।	कुछ नहीं	—
49. 28 या 38	सिलीकान, सभी रूपों में	कुछ नहीं	—
50. 2805 11	न्यूक्लीयर श्रेणी सोडियम	कुछ नहीं	5
51. 2808 00 10 2809 10 00 2809 20 10 या 2809 20 20	उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयुक्त सभी माल	कुछ नहीं	2
52. 29	2-साइनोपाइरेजिन	कुछ नहीं	—
53. 28 या 31	जिब्रैलिक अम्ल	कुछ नहीं	—
54. 28, 29 या 30	सूची 3 में विनिर्दिष्ट प्रपुंज ओषधियां या निर्मितियां	कुछ नहीं	—
55. 30	सभी प्रकार के हैपेटाइट का पता लगाने के लिए नैदानिक किटें	कुछ नहीं	—
56. 30	सभी प्रकार के प्रजननरोधी	कुछ नहीं	—
57. 30	डैसफैरीआक्सामाइन इंजेक्शन या डैप्रोप्रोन	कुछ नहीं	—
58. 30	अन्तः शिरा द्रव, जो शुगर, इलेक्ट्रोलाइट या द्रव भराई के लिए उपयोग किए जाते हैं	कुछ नहीं	—
59. 30	सूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रपुंज ओषधियों से विनिर्मित निर्मितियां स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "विनिर्मित" से अभिप्रेत है ओषधि, जो किसी भेषजिक सहाय्यरूप (जैसे डील्यूवेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, मोएस्अनिंग एजेंट, लुब्रीकेंट, बफरिंग एंड स्टैबलाइजर या प्रिजरवर ) का उपयोग करके या उपयोग बिना किसी एक या अधिक प्रपुंज औषधियों से प्रसंस्कृत है या उसमें अंतर्विष्ट हैं और जो आंतरिक या बाह्य प्रयोग के लिए या मानव या पशुओं के रोगों के निदान, उपचार न्यूनकरण निवारण के लिए औषधियों के चिकित्सीय या रोगनिरोधी क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करेगी किन्तु उसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा जिसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23 ) के	कुछ नहीं	—

उपबंध लागू नहीं होते ।

60.	30	साइक्लोस्पोरिन	कुछ नहीं	—
61.	30 या कोई अध्याय	निकोटिन पोलाक्राइलैक्स गम	कुछ नहीं	—
62.	30 या कोई अध्याय	ओषधि और सामग्रियां	कुछ नहीं	6
63.	31	सभी माल, उनसे भिन्न जो स्पष्ट रूप से निम्नलिखित रूप में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं - (क) उर्वरकों के रूप में, या (ख) अन्य उर्वरकों के विनिर्माण में चाहे प्रत्यक्ष रूप से या किसी मध्यवर्ती उत्पाद के प्रक्रम के बीच में	कुछ नहीं	—
64.	32	वाटल एक्सट्रैक्ट	कुछ नहीं	—
65.	32	केन्द्रीय सरकार के आयुध कारखाने में उत्पादित नाइट्रोसेलूलोस लैकर्स और रक्षा प्रयोजनों के उपयोग के लिए या केन्द्रीय सरकार के विभागों को प्रदाय के आशयित के लिए ।	कुछ नहीं	—
66.	33	मेंहदी पाउडर जिसमें कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ नहीं है	8%	—
67.	3204 या 3809	किसी प्रकार के परिसज्जा कर्मक, रंगाई के त्वरण या रंजक पदार्थों के स्थरण के लिए रंजक वाहक, मुद्रण पेस्ट और अन्य उत्पाद तथा निर्मितियां जिनका उपयोग टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उसी कारखाने में किया जाता है ।	कुछ नहीं	—
68.	3215 90 40	ड्राइंग स्याही	कुछ नहीं	—
69.	3306	दंत मंजन	कुछ नहीं	—
70.	3504 00 91	पृथक सोया प्रोटीन	8 प्रतिशत	—
71.	3605	दियासलाई (मैडिकल बंगाल लाइट से भिन्न )	12 प्रतिशत	—
72.	3605 00 10 या 3605 00 90	दियासलाई, जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में निम्नलिखित यांत्रिक प्रक्रियाओं में से कोई एक प्रक्रिया या अधिक प्रक्रियाएं साधारणतया शक्ति की सहायता से नहीं की जाती हैं, अर्थात् :- निम्नलिखित देने की प्रक्रिया,- (क) कार्ड बोर्ड फलक या पट्टियां, दियासलाई बाक्स की आकृति, जिसके अंतर्गत बाह्य स्लाइड या आंतरिक स्लाइड भी हैं, या	कुछ नहीं	—

(ख) पृष्ठावृत्त फलक या पट्टियाँ, दियासलाई बाक्स की आकृति, जिसके अंतर्गत दियासलाई कागज के उपयोग सहित बाह्य स्लाइड या आंतरिक स्लाइड भी हैं,

(ii) फ्रेम भरण,

(iii) दियासलाई शीशों के लिए मिश्रण में तीलियों का डुबोया जाना ;

(iv) दियासलाईयों के बक्सों का भरा जाना,

(v) दियासलाईयों बक्सों के पृष्ठाकृत या कार्ड बोर्डों पर लेबल चिपकाना,

(vi) पैकेजिंग

73.	3507 90 40	खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में प्रयुक्त विशुद्ध पैकिंग कुछ नहीं एस्टरेस	-
74.	38	ऐसे स्थलों पर संनिर्माण कार्यों में उपयोग के लिए कुछ नहीं संनिर्माण स्थलों में विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण.	-
75.	3822	रासायनिक अभिकर्मक	8 प्रतिशत 7
76.	39	पुलट्रुशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित जूट और फिनलिक रेजिन के उत्पाद जिनमें कम से कम जूट भार के अनुसार चालीस प्रतिशत हो	कुछ नहीं -
77.	39 या 40	दूध पिलाने की बोतल के लिए निप्पल	कुछ नहीं
78.	3901 से 3914	अध्याय 39, 54, 56, 59, 64, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 के अंतर्गत आने वाले माल के स्क्रेप या अपशिष्ट में से भारत में पुनः प्रसंस्कृत प्लास्टिक सामग्री स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी मुक्त व्यापार जोन, विशेष आर्थिक जोन या शत प्रतिशत निर्यातानुमुख उपकरण में पुनः प्रसंस्कृत और भारत में किसी जगह को लाई जाने वाली प्लास्टिक सामग्री पर इस छूट की कोई बात लागू नहीं होगी ।	कुछ नहीं -
79.	3903	मलेरिया अनुसंधान केन्द्र द्वारा क्रय किए गए बिना फैले पालिस्टाइरीन बीड्स,	कुछ नहीं 8
80.	3904	ऐसे माल के जो उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूटप्राप्त है या शुल्क की "कुछ नहीं" दर	कुछ नहीं -

		से प्रभार्य है, विनिर्माण के लिए उसके उत्पादन के कारखाने में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री, जो सामान्य रूप से पोलिविनायल क्लोराइड कंपाउंड के नाम से जानी जाती है (पीवीसी यौगिक)		
81.	40	शल्य चिकित्सीय रबड़ दस्ताने या चिकित्सीय जांच रबड़ दस्ताने	कुछ नहीं	—
82.	4007 00 10	ऊष्मरोधी लेटेक्स रबड़ धागे	8 प्रतिशत	—
83.	4011 या 4012 या 4013	निम्नलिखित के विनिर्माण में प्रयुक्त टायर, फ्लैप और ट्यूब - (क) पहली अनुसूची के शीर्ष 8432 के पावर टिलर्स, (ख) विकलांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित दुपहिया या तिपहिया मोटर यान	कुछ नहीं	2
84.	4011 50, 4011 69 00, 4011 99 00, 4013 20 00 या 4013 90 50	रबड़ के न्यूमैटिक टायर और आन्तरिक ट्यूब जो बाइसाइकिल, साइकिल रिक्शा और शक्तिचालित तिपहिया साइकिल रिक्शा में उपयोग में लाई जाती हैं।	कुछ नहीं	—
85.	4016	धान की भूसी हटाने के लिए चावल रबर रोल	कुछ नहीं	—
86.	4301 या 4302	अपरिष्कृत, टेन्ड या ड्रेस्ड फरस्किन	8%	—
87.	4410 या 4411	गन्ने की भूसी या अन्य कृषि अपशेष से बने 100% लकड़ी से मुक्त सादा या पूर्वविलेपित चीजें या फाइबर बोर्ड	8%	—
88.	45, 48, 68, 73, 85 या 87	मुख्य युद्धक टैंक के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित पुर्जे	कुछ नहीं	2 और 9
89.	48	दियासलाइयों के लिए कागज की तीलियां चाहे उन पर मोम लगा हो या न लगा हो, एसफाल्टिक छत की शीटें	कुछ नहीं	—
90.	48	किसी कारखाने में लुगदी के प्रक्रम से ही विनिर्मित कागज और पेपर बोर्ड या उनसे बनी हुई वस्तुएं और ऐसी लुगदी में बांस, दृढ़ काष्ठ, कोमल काष्ठ, रीड (सरकंडा से भिन्न) या चिथड़े की सामग्री से बनी लुगदी जो भार के आधार पर 75 प्रतिशत से अन्यून हो	8 %	10
91.	48	किसी कारखाने में लुगदी के प्रक्रम से ही विनिर्मित कागज और पेपर बोर्ड या उनसे बनी हुई वस्तुएं और ऐसी लुगदी में बांस, दृढ़ काष्ठ, कोमल काष्ठ, रीड (सरकंडा से भिन्न या चिथड़े से भिन्न) सामग्री से बनी लुगदी जो भार के आधार पर 75 प्रतिशत से अन्यून हो	12 %	11
92.	4801 00	न्यूज प्रिंट रील में	कुछ नहीं	—

93.	4802, 4804, 4805, 4807, 4808 या 4810	सभी माल	12%	--
94.	4802	(क) सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद द्वारा विनिर्मित और बैंक नोटप्रेस देवास, दि करेंसी नोट प्रेस नासिक, दि इंडियन प्रेस सिक्योरिटी प्रेस नासिक, दि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड मैसूर, या भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड सालबोनी को प्रदाय किया गया सिक्योरिटी पेपर (सिलेंडर माउल्ड वैट मेड)	कुछ नहीं	--
		(ख) सिक्योरिटी पेपर के विनिर्माण के दौरान उद्भूत और लुगदी तैयार करने के लिए इसके उत्पादन के लिए इसके कारखाने के भीतर उपयोग किए गए मध्यवर्ती उत्पाद ।		
95.	4802	बैंक नोटप्रेस देवास, दि करेंसी नोट प्रेस नासिक, दि इंडियन प्रेस सिक्योरिटी प्रेस नासिक, दि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड मैसूर, या भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड सालबोनी द्वारा उपाप्त मोल्ड वैट मेड बैंक नोट पेपर	कुछ नहीं	--
96.	4810	पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा उपाप्त किए गए 70 ग्राम/वर्गमीटर तक के भार के हल्के भार विलेपित वाटरमार्कड कागज ।	कुछ नहीं	--
97.	4820	नोटबुक और अभ्यास पुस्तिकाएं	कुछ नहीं	--

### उपाबंध

- शर्त सं०
- शर्त
1. (i) यदि सीमेंट का कोई विनिर्माता इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने से पहले कारखाने की स्थापित क्षमता के संबंध में, या जब कभी उक्त क्षमता में कोई परिवर्तन होता है अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, उप उत्पाद-शुल्क आयुक्त या सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त को घोषणा करता है और ऐसी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करता है यदि कोई हों, जो इस संबंध में उसके समाधान के लिए, यथास्थिति, उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा अपेक्षित हों ।
  - (ii) छूट किसी वित्तीय वर्ष में निम्नानवे हजार टनों की अधिकतम मात्रा तक लागू होगी । किसी वित्तीय वर्ष में निम्नानवे हजार टनों की मात्रा की संगणना करने के लिए किसी अन्य अधिसूचना के अधीन की गई सीमेंट की निकासी सम्मिलित की जाएगी । तथापि, 400 रु० प्रति टन की दर से शुल्क के संदाय पर की गई सीमेंट की निकासी निम्नानवे हजार टनों की ऊपर वर्णित मात्रा की संगणना करने के लिए लेखों में नहीं ली जाएगी ।
  - (iii) इस अधिसूचना के अधीन यह छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,-
    - (क) ऐसे किलंकर से विनिर्मित सीमेंट जिसका विनिर्माण कारखाने में नहीं किया गया है ; और
    - (ख) ऐसा सीमेंट जिसका कोई ब्रांड नाम है या उस पर किसी अन्य व्यक्ति का व्यापार नाम है (चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) ।

स्पष्टीकरण- शर्त (ii) के प्रयोजनों के लिए “ब्रांड नाम” या “व्यापार नाम” से अभिप्रेत है वह ब्रांड नाम या व्यापार नाम चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं अर्थात् चाहे वह एक नाम या एक चिह्न जैसे एक प्रतीक, मोनोग्राम, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लेखन, जिसका उपयोग किसी उत्पाद के संबंध में ऐसे उत्पाद और ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले व्यक्ति के बीच, उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन के साथ या उसके बिना, व्यापार के अनुक्रम में संबंध उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है या उसका ऐसे उपयोग किया जाता है जिससे कि वह उसे उपदर्शित करे।

2. जहां ऐसा उपयोग उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र है, वहां केन्द्रीय उत्पाद (उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाया जाना) नियम, 2001 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
3. छूट किसी अधिकारी के, जो अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, समाधानप्रद रूप में यह साबित करने के अधीन रहते हुए होगी कि ऐसे माल की निकासी सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आशयित उपयोग के लिए है।
4. रिफाइनरी पर अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इस छूट के प्रयोजन के लिए उक्त मांडागार को निकास, किए जाने के लिए मिट्टी का तेल, ऐसी शर्तों पर जो वह रिफाइनरी से निकासी की गई मिट्टी के तेल के उचित लेखा और उस पर शुल्क का संदाय के लिए ठीक समझे, अनुज्ञात करता है।
5. यदि भारी जल बोर्ड (एचडब्ल्यूबी), जो परमाणु ऊर्जा विभाग की एक संघटक इकाई है, द्वारा भारतीय मायिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (बीएचएवीआईएनआई) को, जो तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित 500एमडब्ल्यूई प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उद्यम है, प्रदाय किया गया है।
6. यदि माल की निकासी से पूर्व विनिर्माता ने, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को अनुज्ञापन प्राधिकारी से इस आशय का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है कि ऐसी औषधि या सामग्री की विनिर्दिष्ट मात्रा क्लीनिकल परीक्षण में उपयोग के लिए अपेक्षित हैं जिसके लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञा दी है।
7. यदि मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, पिंपरी द्वारा विनिर्माण किया जाता है और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के परीक्षण के लिए किटों के विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने में उपयोग किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस शर्त के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “स्वापक औषधि” और “मनःप्रभावी पदार्थ” का वही अर्थ है जो उनका स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (xiv) और खंड (xxiii) में है।

(ख) “स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के परीक्षण के लिए किट” से मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, पिंपरी द्वारा विनिर्मित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के परीक्षण के लिए छोटी बोतलों में रासायनिक अभिकर्मकों से बने किट अभिप्रेत हैं और जिसमें ऐसे किटों के साथ प्रदत्त परीक्षण ट्यूब, ड्रापर्स, परीक्षण प्लेट और उस प्रकार के अन्य उपसाधन भी आते हैं।

8. यदि बिना फैले पोलिएस्टरीन बिड का क्रय भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा मलेरिया नियंत्रण क्रियाकलापों में उपयोग के लिए किया जाता है और उक्त मलेरिया अनुसंधान केन्द्र,—

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का संबंध देता है कि उक्त बिना फैले पोलिएस्टरीन का उपयोग मलेरिया अनुसंधान क्रियाकलापों में ऐसे क्रय की तारीख से एक मास के भीतर या बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो उचित अधिकारी अनुज्ञात करे, किया जाएगा ; और

(ख) इस आशय का एक वचनबंध देता है कि बिना फैले पोलिएस्टरीन बिड का इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है तो वह ऐसे शुल्क का जो उस पर उद्ग्रहीत होती, यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती, संदाय करेगा :

परन्तु उक्त मलेरिया अनुसंधान केन्द्र इस प्रकार क्रय किए गए बिना फैले पोलिएस्टरीन का इस शर्त के अधीन रहते हुए विक्रय या अन्यथा व्ययन कर सकेगा कि वह ऐसे विक्रय या व्ययन के एक मास के भीतर—

(i) उचित अधिकारी को उन परिस्थितियों के बारे में संसूचित करेगा जिनके कारण ऐसा विक्रय व्ययन हुआ है ;

(ii) उक्त शुल्क का संदाय करेगा जो उस पर उद्ग्रहणीय होता यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती :

परन्तु यह और कि उचित अधिकारी उक्त संसूचना को एक मास के विनिर्दिष्ट समय के समाप्त होने के पश्चात् स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त मलेरिया अनुसंधान केन्द्र विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी सूचना देने से या उक्त उत्पाद शुल्क के संदाय से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हो गया था ।

9. यदि अधिकारिता रखने वाला, यथास्थिति, उप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि उक्त पहली अनुसूची की टैरिफ मद 8710 00 के अंतर्गत आने वाले मुख्य युद्ध टैंक के विनिर्माण में मूल उपस्कर पुर्जों के रूप में उपयोग किए जाने लिए आशयित है ।

10. (1) यह छूट केवल पेपर और पेपर बोर्ड या उससे निर्मित वस्तुओं पर घरेलू खपत के लिए किसी वित्तीय वर्ष में कारखाने से पहली निकासी के समय कुल 3500 मीट्रिक टन से अनधिक पर लागू होती ।

(2) यह छूट उक्त माल के किसी ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जिसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 या 9/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 के अधीन छूट प्राप्त की है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं का निवारण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 3500 मीट्रिक टन की मात्रा से अनधिक की किसी प्रथम निकासी में किसी पेपर और पेपर बोर्ड या उससे निर्मित वस्तुएं सम्मिलित नहीं होंगी, जिनके लिए शुल्क की कुछ नहीं दर या उन्हें किसी अन्य अधिसूचना के अधीन संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है ।

11. (1) छूट लागू नहीं होगी, यदि उस कारखाने में, जिसमें उक्त माल विनिर्मित किया गया है बांस या काष्ठ लुगदी बनाने के लिए कोई संलग्न संयंत्र है ।

(2) यह छूट उक्त माल के किसी ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जिसने भारत सरकार के तत्कालीन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 या 9/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 के अधीन छूट प्राप्त की है ।

#### सूची 1

(सारणी का क्रम सं० 43, 44 और 59 देखिए)

- (1) स्ट्रेप्टोमाइसिन
- (2) आइसोनियाजिड
- (3) थियासिटाजोन
- (4) इथाम्बुटोल
- (5) सोडियम पीएएस

- (6) पाइराजिनामाइड
- (7) डेपसोन
- (8) क्लोफेजामाइन
- (9) टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड
- (10) पिलोकारपाइन
- (11) हाइड्रोकार्टिसोन
- (12) आइडोक्सुराइडीन
- (13) एसेटाजोलाइमाइड
- (14) एट्रोपाइन
- (15) होमाट्रो
- (16) क्लोशेक्वीन
- (17) अमोडियाक्वीन
- (18) कुनाइन
- (19) पाइरिमेथामाइन
- (20) सल्फामेथोपाइरेजिन
- (21) डाइइथाइल कार्बामाइन
- (22) आर्टिमीजीनाइन का आर्टीथर या फार्मूलेशन ।

सूची 2

(सारणी का क्रम सं० 44 देखिए)

- (1) मेटा एमिनोफेनोल
- (2) पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन (पीएनसीबी)
- (3) पाइकोलाइन्स
- (4) नोवडियामाइन
- (5) इथोक्सी मेथिलीन डाइइथाइल-मालोनेट
- (6) हाइड्राजिन हाइड्रेट
- (7) डीएल-2 अमीनो-1 बूटानोल
- (8) गुनानीडाइन नाइट्रेट
- (9) सीट्रिक एसिड
- (10) 4, 7-डीसीक्यू (डाइक्लोरोक्वूनोलाइन)
- (11) एन-मिथाइल पिपेराजाइन
- (12) डी-2-अमीनोबूटानोल (ओ- अमीनोबूटानोल)
- (13) डाइइथाइल कार्बामाइन क्लोराइड
- (14) 4-साइनोपायरीडीन
- (15) आइसोनिको-टिनिक एसिड



- (16) थियोसेमीकार्बाजाइड
- (17) 1-नाइट्रोप्रोपेन
- (18) 4-अमीनो-4 नाइट्रोडाइफिनाइल सल्फाइड
- (19) एन-(4-क्लोरोफिनाइल)-ओ-फिनिलीन डाइएमाइन
- (20) 5-आयोडोरासिल
- (21) 1-एसिटिल-5-आयोडोरासिल
- (22) 2-एमीनो-5-मर्कैप्टो-1, 2, 4-थियाडियाजोल
- (23) 2-एमीनो-5-एमीनो-सल्फोमाइल-1,3, 4-थियाडियाजोल
- (24) 2-एसिटिलएमीनो-5-मर्कैप्टो-1, 2, 4-थियाडियाजोल
- (25) टेद्रा यूरिया काम्प्लेक्स ।

### सूची 3

(सारणी का क्रम सं० 54 देखिए)

- (1) डाइडानोसिन
- (2) इफाविरेन्ज
- (3) इंडिनावीर
- (4) इन्सुलिन
- (5) लेमिव्यूडाइन
- (6) नेल्फिनावीर
- (7) नेवीरेपाइन
- (8) रिटोनावीर
- (9) सेक्विनावीर
- (10) स्टेव्यूडाइन
- (11) जिडोव्यूडाइन ।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

Notification

No. 4/2006-Central Excise

New Delhi, the 1st March 2006.

10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 94(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below read with the relevant List appended hereto, as the case may be, and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the Central Excise Tariff Act), as are given in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise specified thereon under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table and subject to the relevant conditions specified in the Annexure to this notification, and the Condition number of which is referred to in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, the rates specified in column (4) of the said Table are *ad valorem* rates, unless otherwise specified.

Table

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of excisable goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2523 29	All goods manufactured in,— (I) factory using vertical shaft kiln, with installed capacity not exceeding 300 tonnes per day or 99,000 tonnes per annum and the total clearances of cement produced by the factory, in a financial year, shall not exceed 1,09,500 tonnes; (II) factory using rotary kiln, with installed capacity not exceeding 900 tonnes per day or 2,97,000 tonnes per annum and the total clearances of the cement produced by the factory, in a financial year, shall not exceed 3,00,000 tonnes.	Rs. 250 per tonne	1
2.	2515 12 20, 2515 12 90 or 6802 21 10	Marble slabs and tiles	Rs. 30 per square metre	—
3.	2503 00 10	All goods for manufacture of fertilizers	Nil	2
4.	2601 to 2617	Ores	Nil	—
5.	2616 90 10	Gold concentrates for refining	Nil	—
6.	2619	Slag arising in the manufacture of iron and steel	Nil	—
7.	27	Naphtha and Natural Gasoline Liquid for use in the manufacture of fertiliser or ammonia	Nil	2 and 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	27	Naphtha used in a fertiliser plant during shut-down and start-up periods	Nil	2 and 3
9.	27	Naphtha and Natural Gasoline Liquid intended for use- (i) within the Heavy Water Plant at Vadodara or Tuticorin or Hazira or Thal for the manufacture of Synthesis gas or ammonia or steam, which are to be utilised in the manufacture of Heavy Water in such plants; (ii) by M/s Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd., Vadodara or M/s Southern Petro Chemicals Industrial Corporation, Tuticorin, or M/s Krishak Bharati Co-operatives Ltd. (KRIBHCO), Hazira or M/s Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. (RCF), Thal for the manufacture of synthesis gas or ammonia or steam and if the synthesis gas or ammonia or steam so manufactured is supplied respectively to the Heavy Water Plants at Vadodara or Tuticorin or Hazira or Thal for the manufacture of Heavy Water in such Plants.	Nil	2 and 3
10.	27	Furnace oil intended for use as feedstock in the manufacture of fertilisers	Nil	2 and 3
11.	27	Bio-gas	Nil	—
12.	27	Lean gas obtained from natural gas.	Nil	—
13.	27	Residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, including heavy petroleum stock, low sulphur heavy stock and other residual fuel oils falling under heading 2713 of the First Schedule, intended for use as feedstock in the manufacture of fertilisers	Nil	2 and 3
14.	27 or 28	Synthesis gas, if used in the manufacture of Heavy Water	Nil	—
15.	2710	Kerosene received by the factory from the refinery intended for use in the manufacture of linear alkyl benzene or heavy alkylate and returned by the factory to the refinery from where such kerosene is received, or to a warehouse of such refinery	Nil	4

*Explanation.*—For the purposes of the exemption,—

- the quantity of kerosene consumed in the manufacture of linear alkyl benzene or heavy alkylate shall be calculated by subtracting from the quantity of kerosene received by the factory manufacturing linear alkyl benzene or heavy alkylate, the quantity of mineral oil, falling under heading 2710 of the said Schedule, generated in such manufacture and returned by the factory to a refinery, or a warehouse, as the case may be;
- “warehouse” means a warehouse approved under rule 20 of the Central Excise Rules, 2002;
- “refinery” means a unit which makes kerosene either from crude petroleum oil or natural gas.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	2710	Avgas	Nil	—
17.	2710 11	Motor spirit commonly known as petrol	8% plus Rs.5.00 per litre	—
18.	2710 11	All goods (other than motor spirit commonly known as petrol)	32%	—
19.	2710 19 30	High Speed Diesel (HSD)	8% plus Rs.1.25 per litre	—
20.	2710	Kerosene for ultimate sale through Public Distribution System	Nil	—
21.	2710 19 40	Light Diesel Oil	16% plus Rs.2.50 per litre	—
22.	2710 19 20	Aviation turbine fuel	8%	—
23.	2710	Food grade hexane	16%	—
24.	2710	5% ethanol blended petrol that is a blend ,— (a) consisting, by volume, of 95% Motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and ,of 5% ethanol on which the appropriate duties of excise have been paid; and (b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 2796. <i>Explanation.</i> —For the purposes of this exemption “appropriate duties of excise” shall mean the duties of excise leviable under the First Schedule and Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (1 of 1986), the additional duty of excise leviable under section 111 of the Finance (No.2) Act, 1998 (21 of 1998) and the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), read with any relevant exemption notification for the time being in force.	Nil	—
25.	2711 11 00	Liquefied natural gas	Nil	—
26.	2711 12 00 2711 13 00 2711 19 00	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers at subsidized prices under the Public Distribution System (PDS) Kerosene and Domestic LPG Subsidy Scheme, 2002 as notified by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, vide notification No.P-20029/18/2001-PP, dated 28 <sup>th</sup> January, 2003	Nil	—
27.	2711 12 00 2711 13 00 2711 19 00	Liquefied Petroleum Gases (LPG)	8%	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.	2711	Liquified Petroleum Gases (LPG) received by the factory from the refinery intended for use in the manufacture of Propylene or Di-butyl Para Cresol (DBPC) and returned by the factory to the refinery from where such Liquified Petroleum Gases (LPG) were received. <i>Explanation.</i> -For the purposes of the exemption, the amount of Liquified Petroleum Gases consumed in the manufacture of propylene shall be calculated by subtracting from the quantity of Liquified Petroleum Gases received by the factory manufacturing propylene the quantity of Liquified Petroleum Gases returned by the factory to the refinery, declared as such under rule 20 of the Central Excise Rules, 2002, from which such Liquified Petroleum Gases were received.	Nil	—
29.	2711	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons received by the factory from the refinery intended for use in the manufacture of Polyisobutylene or Methyl Ethyl Ketone (MEK) and returned by the factory to the refinery from where such Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons are received. <i>Explanation.</i> -For the purposes of the exemption the quantity of the petroleum gases and other gaseous hydrocarbons consumed in the manufacture of polyisobutylene shall be calculated by subtracting from the quantity of the said gases received by the factory manufacturing polyisobutylene the quantity of the said gases returned by the factory to the refinery, declared as such under rule 20 of the Central Excise Rules, 2002, which supplied the said gases.	Nil	—
30.	2711 21 00	Natural Gas (other than Compressed Natural Gas)	Nil	—
31.	28	Steam	Nil	—
32.	28	Sulphuric acid, oleum, oxygen and ammonia used in the manufacture of fertilizers	Nil	2
33.	28	Sulphuric acid used in a fertiliser plant for demineralisation of water	Nil	—
34.	28	Ammonia used in a fertiliser plant in refrigeration and purification process	Nil	—
35.	28	Ammonium chloride and manganese sulphate intended for use— (a) as fertilisers; or (b) in the manufacture of fertilisers, whether directly or through the stage of an intermediate product <i>Explanation.</i> -For the purposes of this exemption, "fertilisers" shall have the meaning assigned to it under the Fertiliser (Control) Order, 1985.	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.	28	Gold potassium cyanide manufactured from gold and used in the electronics industry.	16% of the value of such gold potassium cyanide excluding the value of gold used in the manufacture of such goods	—
37.	28	Potassium iodate	Nil	—
38.	28	Gold potassium cyanide solution used within the factory of production for manufacture of zari	Nil	—
39.	28	Gold potassium cyanide used within the factory of production for the manufacture of gold jewellery	Nil	—
40.	28	All goods used within the factory of production for the manufacture of goods falling under Chapter 71	Nil	—
41.	28	Thorium oxalate	Nil	—
42.	28 or 29	All chemicals used in the manufacture of centchroman	Nil	—
43.	28 or 29	The bulk drugs specified in List 1 <i>Explanation.</i> —For the purposes of this notification, the expression “bulk drugs”, means any pharmaceutical, chemical, biological or plant product including its salts, esters, stereo-isomers and derivatives, conforming to pharmacopoeial or other standards specified in the Second Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), and which is used as such or as an ingredient in any formulation.	Nil	—
44.	28 or 29	The goods specified in List 2, used for the manufacture of bulk drugs specified in List 1	Nil	2
45.	28, 29 or 30	Anaesthetics	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	28 or 38	<p>The following goods—</p> <p>(a) Supported catalysts of any of the following metals, namely:</p> <p>(i) Gold</p> <p>(ii) Silver</p> <p>(iii) Platinum</p> <p>(iv) Palladium</p> <p>(v) Rhodium</p> <p>(vi) Iridium</p> <p>(vii) Osmium</p> <p>(viii) Ruthenium;</p> <p>(b) compounds of the following metals, for making such catalysts and manufactured out of used or spent catalysts of such metals or metals recovered from old or used articles; or both, namely:</p> <p>(i) Gold</p> <p>(ii) Silver</p> <p>(iii) Platinum</p> <p>(iv) Palladium</p> <p>(v) Rhodium</p> <p>(vi) Iridium</p> <p>(vii) Osmium</p> <p>(viii) Ruthenium.</p>	16% of the value of material, if any, added and the amount charged for such manufacture	—
47.	28, 29, 30 or 38	<p>The following goods, namely:</p> <p>(A) Drugs or medicines including their salts and esters and diagnostic test kits, specified in List 3 or List 4 appended to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No.21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, (G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002)</p> <p>(B) Bulk drugs used in the manufacture of the drugs or medicines at (A) above</p>	Nil	—
48.	28, 29 or 30	All goods used within the factory of production for the manufacture of drugs or medicines which are fully exempted from excise duty	Nil	—
49.	28 or 38	Silicon in all forms	Nil	—
50.	2805 11	Nuclear grade sodium	Nil	5
51.	2808 00 10 2809 10 00 2809 20 10 or 2809 20 20	All goods used in the manufacture of fertilisers	Nil	2
52.	29	2-Cyanopyrazine	Nil	—
53.	28 or 31	Gibberellic acid	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
54.	28, 29 or 30	The bulk drugs or formulations specified in List 3	Nil	—
55.	30	Diagnostic kits for detection of all types of hepatitis	Nil	—
56.	30	All types of contraceptives	Nil	—
57.	30	Desferrioxamine injection or Deferiprone	Nil	—
58.	30	Intravenous fluids, which are used for sugar, electrolyte or fluid replenishment	Nil	—
59.	30	Formulations manufactured from the bulk drugs specified in List 1.	Nil	—
<p><i>Explanation.</i>—For the purposes of this notification, the expression “formulation” means medicaments processed out of or containing one or more bulk drugs, with or without the use of any pharmaceuticals aids (such as diluent, disintegrating agents, moistening agent, lubricant, buffering agent, stabiliser or preserver) which are therapeutically inert and do not interfere with therapeutical or prophylactic activity of the drugs, for internal or external use, or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease in human beings or animals, but shall not include any substance to which the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) do not apply.</p>				
60.	30	Cyclosporin	Nil	—
61.	30 or any Chapter	Nicotine polacrilex gum	Nil	—
62.	30 or any Chapter	Drugs and materials	Nil	6
63.	31	All goods, other than those which are clearly not to be used— (a) as fertilisers; or (b) in the manufacture of other fertilisers, whether directly or through the stage of an intermediate product.	Nil	—
64.	32	Wattle extract, Quebracho extract, Chestnut extract	Nil	—
65.	32	Nitrocellulose lacquers produced in Ordnance factories belonging to the Central Government and intended for consumption for defence purposes or for supply to Central Government Departments.	Nil	—
66.	33	Henna powder, not mixed with any other ingredient	8%	—
67.	3204 or 3809	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dye-stuffs, printing paste and other products and preparations of any kind used in the same factory for the manufacture of textiles and textile articles.	Nil	—
68.	3215 90 40	Drawing ink	Nil	—



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69.	3306	Tooth Powder	Nil	—
70.	3504 00 91	Isolated soya protein	8%	—
71.	3605	Matches (other than Bengal lights)	12%	—
72.	3605 00 10 or 3605 00 90	Matches, in or in relation to the manufacture of which none of the following processes is ordinarily carried on with the aid of power, namely: (i) the process of giving the veneer flats or strips, the configuration of a match box including the outer slide or the inner slide with the use of match paper; (ii) frame filling; (iii) dipping of splints in the composition for match heads; (iv) filling of boxes with matches; (v) pasting of labels on match boxes or veneers or cardboards; (vi) packaging	Nil	—
73.	3507 90 40	Pectin esterase pure used in food processing sector	Nil	—
74.	38	Concrete mix manufactured at the site of construction for use in construction work at such site	Nil	—
75.	3822	Chemical reagents	8%	7
76.	39	Products of jute and phenolic resins manufactured by pultrusion process, containing at least forty per cent. by weight of jute	Nil	—
77.	39 or 40	Nipples for feeding bottles	Nil	—
78.	3901 to 3914	Plastic materials reprocessed in India out of the scrap or the waste of goods falling within Chapter 39, 54, 56, 59, 64, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96 <i>Explanation.</i> —For the removal of doubts, it is hereby clarified that nothing contained in this exemption shall apply to plastic materials reprocessed in a free trade zone, a special economic zone or a hundred per cent export-oriented undertaking and brought to any other place in India.	Nil	—
79.	3903	Unexpanded polystyrene beads purchased by the Malaria Research Centre	Nil	8
80.	3904	Plastic material commonly known as polyvinyl chloride compounds (PVC compounds), used in the factory of its production for the manufacture of goods which are exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon or are chargeable to "Nil" rate of duty	Nil	—
81.	40	Surgical rubber gloves or medical examination rubber gloves	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
82.	4007 00 10	Heat resistant latex rubber thread	8%	—
83.	4011 or 4012 or 4013	Tyres, flaps and tubes used in the manufacture of- (a) power tillers of heading 8432 of the First Schedule; (b) two-wheeled or three-wheeled motor vehicles specially designed for use by handicapped persons	Nil	2
84.	4011 50, 4011 69 00, 4011 99 00, 4013 20 00 or 4013 90 50	Pneumatic tyres and inner tubes, of rubber, of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws	Nil	—
85.	4016	Rice rubber rolls for paddy de-husking machine	Nil	—
86.	4301 or 4302	Raw, tanned or dressed fur skins	8%	—
87.	4410 or 4411	100% wood free plain or pre-laminated particle or fibreboard, made from sugarcane bagasse or other agro-waste	8%	—
88.	45, 48, 68, 73, 85 or 87	Parts of main battle tanks intended to be used in the manufacture of such tanks	Nil	2 and 9
89.	48	Paper splints for matches, whether or not waxed, Asphaltic roofing sheets.	Nil	—
90.	48	Paper and paperboard or articles made therefrom manufactured, starting from the stage of pulp, in a factory, and such pulp contains not less than 75% by weight of pulp made from materials other than bamboo, hard woods, soft woods, reeds (other than sarkanda) or rags.	8%	10
91.	48	Paper and paperboard or articles made therefrom manufactured, starting from the stage of pulp, in a factory, and such pulp contains not less than 75% by weight of pulp made from materials other than bamboo, hard woods, soft woods, reeds (other than sarkanda) or rags.	12%	11
92.	4801 00	Newsprint, in reels	Nil	—
93.	4802, 4804, 4805, 4807, 4808 or 4810	All goods	12%	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94.	4802	(a) Security paper (cylinder mould vat made), manufactured by the Security Paper Mill, Hoshangabad, and supplied to the Bank Note Press, Dewas, the Currency Note Press, Nashik, the India Security Press, Nashik, the Security Printing Press, Hyderabad, Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Mysore, or the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Salbony;	Nil	—
		(b) Intermediate products arising during the course of manufacture of the security paper, and used within the factory of its production for pulping	Nil	—
95.	4802	Mould vat made watermarked bank note paper, procured by the Bank Note Press, Dewas, the Currency Note Press, Nasik, the India Security Press, Nasik, the Security Printing Press, Hyderabad, the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Mysore, or the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Salbony	Nil	—
96.	4810	Light weight coated paper weighing upto 70 g/m2, procured by actual users for printing of magazines	Nil	—
97.	4820	Notebooks and exercise books	Nil	—

**ANNEXURE**

Condition No.	Conditions
1.	<p>(i) If the cement manufacturer makes a declaration to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction regarding the installed capacity of the factory before availing of exemption under this notification or wherever there is a change in the said capacity, and furnishes such information or documents, if any, as may be required by the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner, as the case may be, for his satisfaction in this regard.</p> <p>(ii) The exemption shall be applicable up to a maximum quantity of ninety-nine thousand tonnes in a financial year. For computing the quantity of ninety-nine thousand tonnes in a financial year, the clearances of cement effected under any other notification shall be included. However, the clearances of cement effected on payment of duty at the rate of Rs. 400 per tonne shall not be taken into account for computing the above mentioned quantity of ninety-nine thousand tonnes.</p> <p>(iii) The exemption under this notification shall not be applicable to,-</p> <p>(a) cement manufactured from such clinker which is not manufactured within the same factory; and</p> <p>(b) cement bearing a brand name or trade name (whether registered or not) of another person.</p> <p><i>Explanation.</i>-For the purposes of condition (iii), "brand name" or "trade name" means a brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, signature, or invented words or any writing which is used in relation to a product for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the product and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.</p>

2. Where such use is elsewhere than in the factory of production, the exemption shall be allowed if the procedure laid down in the Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 2001, is followed.
3. The exemption shall be allowed if it has been proved to the satisfaction of an officer not below the rank of the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction that such goods are cleared for the intended use specified in column (3) of the Table.
4. The Commissioner of Central Excise, having jurisdiction over the refinery, permits the kerosene to be cleared to the said warehouse for the purpose of this exemption on such conditions as he deems fit for the proper account for kerosene cleared from the refinery and the payment of duty thereon.
5. If supplied by the Heavy Water Board (HWB), a constituent unit of Department of Atomic Energy (DAE) to Bhartiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (BHAVINI), a Public Sector Enterprise under the administrative control of DAE for the 500MWe Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR), at Kalpakkam, Tamil Nadu.
6. If before the clearance of the goods, the manufacturer produces to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over his factory a certificate from the Licensing Authority to the effect that specified quantity of such drugs or materials are required for being used in a clinical trial for which permission has been granted by the Licensing Authority under the provisions of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.
7. If manufactured by M/s. Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri and used in the factory of production in the manufacture of kits for testing narcotic drugs and psychotropic substances.

*Explanation.*—For the purposes of this condition,—

- (a) “narcotic drugs” and “psychotropic substances” shall have the meanings respectively assigned to them in clause (xiv) and clause (xxiii) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;
  - (b) “kits for testing narcotic drugs and psychotropic substances” means kits consisting of chemical reagents in small bottles for testing narcotic drugs and psychotropic substances manufactured by M/s. Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, including test tubes droppers, test plates and similar other accessories supplied with such kits.
8. If the unexpanded polystyrene beads are purchased by the Malaria Research Centre, New Delhi on behalf of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, for use in malaria control activities and the said Malaria Research Centre gives an undertaking—
    - (a) to produce a certificate from the Ministry of Health and Family Welfare to the effect that the said unexpanded polystyrene beads shall be used in malaria research activities within one month from the date of such purchase or within such extended period as the proper officer may allow; and
    - (b) to the effect that in case the unexpanded polystyrene beads are not so used, it shall pay duty which would have been levied thereon but for the exemption contained herein:  
 Provided that the said Malaria Research Centre may sell or otherwise dispose of the unexpanded polystyrene beads so purchased, subject to the condition that it shall, within a month of such sale or disposal,—
      - (i) intimate to the Central Excise Officer the circumstances leading to such sale or disposal; and
      - (ii) pay the duty which would have been levied thereon but for the exemption contained in this notification:

Provided further that the proper officer may accept the said intimation after the expiry of the specified time of one month, if he is satisfied that the said Malaria Research Centre was prevented by sufficient cause from furnishing such information or from payment of the said duty of excise within the specified time.

9. If it is proved to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction that the parts are intended to be used as original equipment parts in the manufacture of main battle tanks falling under tariff item 8710 00 00 of the First Schedule.
10. (1) This exemption shall apply only to the paper and paperboard or articles made therefrom cleared for home consumption from a factory, in any financial year, up to first clearances of an aggregate quantity not exceeding 3500 Metric Tonnes.  
(2) The exemption shall not be applicable to a manufacturer of the said goods who avails of the exemption under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue) No. 8/2003-Central Excise, dated the 1st March, 2003.

*Explanation.*—For removal of doubts, it is hereby clarified that the first clearances of an aggregate quantity not exceeding 3500 metric tonnes shall not include clearances of any paper and paperboard or articles made therefrom which attract nil rate of duty or are exempt from the whole of excise duty under any other notification.

11. (1) The exemption shall not be applicable if the factory in which the said goods are manufactured has a plant attached thereto for making bamboo or wood pulp.  
(2) The exemption shall not be applicable to a manufacturer of the said goods who avails of the exemption under the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue) No. 8/2003-Central Excise, dated the 1st March 2003.

#### LIST 1

(See S. Nos.43, 44 and 59 of the Table)

- (1) Streptomycin
- (2) Isoniazid
- (3) Thiacetazone
- (4) Ethambutol
- (5) Sodium PAS
- (6) Pyrazinamide
- (7) Dapsone
- (8) Clofazamine
- (9) Tetracycline Hydrochloride
- (10) Pilocarpine
- (11) Hydrocortisone
- (12) Idoxuridine
- (13) Acetazolamide
- (14) Atropine
- (15) Homatropin
- (16) Chloroquine
- (17) Amodiaquine
- (18) Quinine
- (19) Pyrimethamine

- (20) Sulfamethopyrezine
- (21) Diethyl Carbamazine
- (22) Arteether or formulation of artemisinin.

**LIST 2**

(See S.No. 44 of the Table)

- (1) Meta Aminophenol
- (2) Para Nitrochlorobenzene (PNCB)
- (3) Picolines
- (4) Novaldiamine
- (5) Ethoxy methylene diethyl-malonate
- (6) Hydrazine Hydrate
- (7) DL-2 Amino-1 butanol
- (8) Guanidine Nitrate
- (9) Citric Acid
- (10) 4,7-DCQ (Dichloroquinoline)
- (11) N-methyl Piperazine
- (12) D-2-Aminobutanol (O-Aminobutanol)
- (13) Diethyl Carbamyl Chloride
- (14) 4-Cyanopyridine
- (15) Isonico-tinic acid
- (16) Thiosemicarbazide
- (17) 1-Nitropropane
- (18) 4-Amino-4 Nitrodiphenyl sulphide
- (19) N-(4-Chlorophenyl)-O-Phenylene diamine
- (20) 5-Iodouracil
- (21) 1-Acetyl-5-Iodouracil
- (22) 2-Amino-5-Mercapto-1,2,4-Thiadiazole
- (23) 2-Amino-5-Amino-Sulfomyl-1,3,4-Thiadiazole
- (24) 2-Acetylamino-5-Mercapto-1,3,4-Thiadiazole
- (25) Tetra Urea Complex.

**LIST 3**

(See S.No.54 of the Table)

- (1) Insulin
- (2) Lamivudine
- (3) Ritonavir
- (4) Saquinavir
- (5) Zidovudine.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 5/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 95(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई हैं, के अंतर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क्य माल को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उस पर विनिर्दिष्ट उतने उत्पाद-शुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए जिनकी शर्त संख्याक पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है अधीन रहते हुए, छूट देती है।

स्पष्टीकरण — इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दरें मूल्यानुसार दरें हैं, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाएं।

## सारणी

क्रम सं०	पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	उत्पाद-शुल्क्य माल का वर्णन	दर	शर्त सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5402, 5403 या 5406	सभी माल	8%	-
2.	5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 या 5507	सभी माल	8%	-
3.	63	कीटनाशकों से संसेचित मच्छरदानी	कुछ नहीं	-
4.	64	जूतादि, जिन्हें निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं के अधीन निकाला गया हो, अर्थात् :-	कुछ नहीं	1

		<p>(i) पैकिंग या पुनः पैकिंग ; या</p> <p>(ii) आधानों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना ; या</p> <p>(iii) जूतादि को उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अंगीकृत करना ।</p> <p>स्पष्टीकरण -- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट तब लागू नहीं होगी यदि ऊपर वर्णित प्रक्रियाओं में से किसी के परिणामस्वरूप जूतादि पर पहले ही घोषित फुटकर विक्रय कीमत में परिवर्तन हो जाता है ।</p>		
5.	64	<p>निम्नलिखित माल, अर्थात् :-</p> <p>(क) प्रति जोड़े 250 रु० से अनधिक की फुटकर विक्रय कीमत के जूतादि</p> <p>(ख) प्रति जोड़े 250 रु० से अधिक और 750 रु० से अनधिक की फुटकर विक्रय कीमत के जूतादि</p> <p>स्पष्टीकरण -- “फुटकर विक्रय कीमत” से ऐसी अधिकतम कीमत अभिप्रेत है जिसपर पैक रूप में उत्पाद शुल्क्य माल अंतिम उपभोक्ता को बेचा जा सकेगा और उसके अंतर्गत सभी कर, स्थानीय या अन्यथा, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यौहारियों को संदेय कमीशन और यथास्थिति, विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण और वैसे ही मद्दे सभी प्रभार तथा कीमत ऐसे विक्रय के लिए एक मात्र प्रतिफल है</p>	कुछ नहीं	2
			8%	2
6.	6603	वाकिंग स्टिक, सीट स्टिक, व्हिप, राइडिंग क्राप्स और उसी प्रकार की वस्तुएं	8%	-
7.	68 या 69	स्टोनवेयर, जो केवल नमक से कांचित हैं	8%	-
8.	68 या 69	चूना मिट्टी ईट	कुछ नहीं	-
9.	68	माल जिसमें भार के आधार पर 25%	कुछ नहीं	3



		से अन्यून फ्लाई एश या फोस्फो-जिपसम या दोनों का उपयोग किया गया है		
10.	68(6804, 6805, 6811, 6812 और 6813 के सिवाय)	माल जिसमें सन्निर्माण केन्द्रों और सन्निर्माण संकर्म द्वारा विनिर्मित भार के अनुसार 25% से अधिक लाल मिट्टी, गूथी हुई मिट्टी या ब्लास्टफरनेश स्लैग या इन सामग्रियों में से एक या अधिक का उपयोग किया गया है	कुछ नहीं	-
11.	68(6804, 6805, 6811, 6812 और 6813 के सिवाय)	माल जिसमें निर्माण केन्द्रों और निर्मिति केन्द्रों द्वारा विनिर्मित भार के अनुसार 25% से अधिक लाल मिट्टी, गूथी हुई मिट्टी या ब्लास्टफरनेश स्लैग या इन सामग्रियों में से एक या अधिक का उपयोग किया गया है	कुछ नहीं	4
12.	69	ऐसे कारखाने में जिसमें सेरेमिक टाइलों का उत्पादन करने की (संयंत्र और उपस्कर सहित) सुविधाएं नहीं हैं, छपाई, सजावट और आभूषणीकृत करने की प्रक्रिया द्वारा निर्मित सिरेमिक टाइलें	कुछ नहीं	5 और 6
13.	69	ऐसे कारखाने में विनिर्मित सेरामिक टाइलें जिसमें भट्टे में आग जलाने के लिए विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है।	8%	7
14.	6905 10 00	रूफिंग टाइलें	8%	-
15.	6908, 6909, 6911, 6912 या 6914	ऐसे विनिर्माता द्वारा जो अनन्य रूप से उक्त माल की छपाई, सजावट या आभूषणीकरण की प्रक्रिया में लगा है, विनिर्मित, कांचित टाइलों और टूटे कांचित टाइलों से भिन्न सभी माल स्पष्टीकरण -- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्य उक्त माल की छपाई, सजावट या आभूषणीकरण के लिए प्रभारित मूल्य होगा।	16%	5

16.	70	मुंह से फूंककर प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कांच के बर्तन	कुछ नहीं	-
17.	70	केन्द्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता द्वारा विनिर्मित और केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग द्वारा उपयोग के लिए आशयित आप्टिकल ग्लास	कुछ नहीं	-
18.	7009, 7010, 7011, 7020 00 19, 7020 00 29 7018 10 90, 7018 20 00	ऐसे विनिर्माता द्वारा विनिर्मित सभी माल जो अनन्य रूप से उक्त माल की छपाई, सजावट या आभूषणीकरण की प्रक्रिया में लगा हुआ है।  स्पष्टीकरण -- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्य उक्त माल की छपाई, सजावट या आभूषणीकरण के लिए प्रभारित मूल्य होगा।	16%	5
19.	7013	ऐसे विनिर्माता द्वारा विनिर्मित (कांच के मेज और किचन के बर्तनों से भिन्न) सभी माल जो अनन्य रूप से उक्त माल की छपाई, सजावट या आभूषणीकरण की प्रक्रिया में लगा हुआ है।  स्पष्टीकरण -- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्य उक्त माल की छपाई, सजावट या आभूषणीकरण के लिए प्रभारित मूल्य होगा।	16%	5
20.	7015 10 10	ऑप्टिकल लेंसों के विनिर्माण अपरिष्कृत आपथालमिक ब्लैंक	8%	-
21.	71	किसी भी प्रकार के सोने से विद्युत की सहायता से परिवर्तित प्राथमिक सोना स्पष्टीकरण -- छूट के प्रयोजनों के लिए "प्राथमिक सोना" से किसी अपरिष्कृत या अर्धपरिष्कृत रूप में सोना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सिलियां, छड़ें, ब्लॉक, स्लैब, बिलेट, शाट, पैलेट, राड, शीटें, फायल और तार भी हैं।	कुछ नहीं	-
22.	7105 या 7112	अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले माल	कुछ नहीं	-



		<p>में कोई ऐसी चीज अभिप्रेत है जो अपने को आभूषित करने या किसी मूर्ति, देवी या धार्मिक पूजा की किसी अन्य वस्तु को आभूषित करने के लिए है और जो सोना या चांदी या प्लेटीनम या उनमें से किसी एक या अधिक से बनाई गई या विनिर्मित की गई है चाहे उसमें पत्थर या रत्न (असली या नकली) या मोती (असली, कल्पवृक्ष या अनुकृत) या उनमें से सभी या कोई जड़ा हो अथवा नहीं और उसके अंतर्गत आभूषण के भाग, पेन्डेन्ट्स या टूटे टुकड़े भी हैं।</p> <p>(ii) “धातु” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं, -</p> <p>(क) कोई मिश्रातु जिसमें ऊपर मद संख्याक (I) पर इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कोई धातु भार के अनुसार ऐसी मद में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अन्य धातुओं से अधिकता में है या ऐसी मिश्रातु में कोई अन्य धातु ;</p> <p>(ख) कोई मिश्रातु जिसमें सोने के तत्व भार के अनुसार 37.5 प्रतिशत से कम नहीं हैं ;</p> <p>(iii) सोने के संबंध में “चीजों” से परिष्कृत रूप में (आभूषणों से भिन्न) कोई चीज अभिप्रेत है जो सोने से बनाई गई या विनिर्मित की गई है या जिसमें सोना अंतर्विष्ट है और इसके अंतर्गत सोने की चेन और सोने की किसी चीज के टुकड़े भी हैं किन्तु इसमें प्राथमिक सोना अर्थात् किसी अपरिष्कृत या अर्धपरिष्कृत रूप में सोना जिसमें सिलियां, छड़ें, ब्लाक, स्लैब, बिलेट, शाट, पैलेट, राड, शीट, फायल और तारें हैं, नहीं है।</p>		
25.	71	प्राथमिक रूप में अर्थात् अपरिष्कृत या अर्ध परिष्कृत रूप में चांदी, प्लेटीनम,	कुछ नहीं	-

		पेलेडीन, रोडियम, इरीडियम, आसमियम और रूथेनियम जिसके अंतर्गत सिलियां, छड़े, ब्लाक, स्लैब, बिलेट, शाट, पैलेट, राड, शीट, फायल और तारें हैं ।		
26.	7113	जेवरात की ऐसी वस्तुएं जिन पर स्वयं ब्रांड नाम या व्यापार नाम अमिट रूप से चिपका हुआ या उत्कीर्णित हैं	2%	-
27.	7117	सभी माल	8%	-
28.	72	हाट रोल्ड या कोल्ड रोल्ड शीटें और जाब वर्क पर कटी या छंटी प्रतियां	कुछ नहीं	5 और 9
29.	73	सिलाई मशीनों या पशु चारा काटने के लिए प्रयुक्त चैफ कटर (जिसे टोका मशीन के नाम से या किसी अन्य नाम से जाना जाता है) के विनिर्माण के लिए निकासी हेतु ढलाई और गढ़ाई	कुछ नहीं	10
30.	7302 या 8530	लौह और इस्पात की रेलवे या ट्राम वे ट्रैक सन्निर्माण की सामग्री स्पष्टीकरण — इस छूट के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्य रेलों के मूल्य को छोड़कर माल का मूल्य होगा ।	16%	11
31.	7310 या 7326	गणितीय बक्से, जॉमेट्री बक्से और रंग के बक्से	कुछ नहीं	-
32.	7315	शीर्ष 8712 के यानों की चेनें	कुछ नहीं	-
33.	7317 00 11	पशुओं की नाले	कुछ नहीं	-
34.	7321 या 7417	लौह या इस्पात, ताम्र या ताम्र मिश्रातु के केरोसीन बर्नर, केरोसीन स्टोव और बुड बर्निंग स्टोव	कुछ नहीं	-
35.	7321 या 9405	बायो गैस लाइट, बायो गैस स्टोव और लौह या इस्पात की बायो गैस के उपयोग के संचालन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई गर्म प्लेटें	कुछ नहीं	-
36.	7321 11	एलपीजी गैस स्टोव (केवल बर्नर सहित, किसी अन्य कृत्य जैसे ग्रिल या ओवन के बिना)	8%	-
37.	7326 19 90	अध्याय 40, 73, 83, 85, 87 या 95 के अधीन आने वाली साइकिल और साइकिल रिक्शों के पुर्जों और साधित्रों	कुछ नहीं	-

		के विनिर्माण में प्रयुक्त लौह या इस्पात के ढले गए उत्पाद		
38.	7326 20 10	साइकिलों और साइकिल रिक्शों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित टायर बीड वायर रिंग	कुछ नहीं	-
39.	7323 या 7615 19 10	प्रेसर कुकर	8%	-
40.	7402 या 7403	बर्तनों या हस्तशिल्प के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित अपरिशोधित ताम्र और अनगढ़ ताम्र	कुछ नहीं	12
41.	7409	हस्तशिल्प या बर्तनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित ताम्र की परिकर्तित या अपरिकर्तित शीटें या छल्ले से भिन्न सभी माल	कुछ नहीं	12
42.	7409	हस्तशिल्प या बर्तनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित ताम्र की परिकर्तित या अपरिकर्तित शीटें या छल्ले	3500 ₹ प्रति मी टन	2 और 13
43.	7409 या 7410	अनुकृत “जरी” के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित ताम्र पत्तियां या फायल	कुछ नहीं	-
44.	7601	बर्तनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित अनगढ़ एल्युमिनियम चाहे वह मिश्रित हो अथवा नहीं	कुछ नहीं	14
45.	7604 या 7608 या 7609 00 00	निम्नलिखित के विनिर्माण में प्रयुक्त एल्युमिनियम एक्सट्रूजन, चौकोर ट्यूबें और एल्युमिनियम की गोल ट्यूबें, - (1) कृत्रिम अंग ; या (2) निम्नलिखित में से कोई पुनर्वास सहायक, अर्थात् :- (i) सोमी ब्रेस (ii) आश ब्रेस (iii) टेलर ब्रेस (iv) फोर पोस्ट कालर	कुछ नहीं	15

		(v) थंब स्पलिट (vi) फिंगर स्पलिट (vii) एक्सिला क्रचेज (viii) एलबो क्रचेज (ix) वाकिंग फ्रेम (x) व्हील चेयर या ट्राई साइकिल संघटक (xi) ब्रेल शार्टहैंड मशीन (xii) दृष्टिहीनों के लिए फोटोलिथोग्रफी केन		
46.	7606	बर्तनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित एल्यूमीनियम ब्लैंट और शीटें (छल्लों से भिन्न)	कुछ नहीं	5 और 14
47.	7606	एल्यूमीनियम के छल्ले	2500 रु० प्रति मी टन	5 और 14
48.	82	पेंसिल शार्पनर और उनके ब्लैड	कुछ नहीं	-
49.	8201	प्रूरुस के सिवाय सभी माल	कुछ नहीं	-
50.	82	शीर्ष 8202 से 8205 तक दो या अधिक के सेटों में रखे औजार	कुछ नहीं	16

#### उपाबंध

शर्त शर्त  
सं०

- यदि इस प्रकार के जूतादि से विनिर्मित हैं-
  - जिस पर किसी व्यक्ति का ब्रांड नाम या व्यापार नाम है ;
  - जिसकी बाबत खुदरा विक्रय कीमत घोषित की गई है ; और
  - जिस पर, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अधीन समुचित उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क का पहले ही संदाय कर दिया गया है ।
- यह छूट केवल ऐसे जूतादि को लागू होगी जिन पर स्वयं जूतादि पर ही खुदरा विक्रय कीमत स्पष्टतः अंकित या उत्कीर्णित हैं ।
- यदि विनिर्माता इस निमित्त अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और रीति में पहली अनुसूची के अध्याय 68 के अधीन आने वाले सभी माल के विनिर्माण में फ्लाई एश या फोस्फोजिपसम या दोनों की प्राप्ति और उपयोग के लिए समुचित लेखा रखता है और ऐसे प्रारूप तथा रीति में जो यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए मासिक विवरणी प्रस्तुत करता है ।
- यदि निर्माण केन्द्र या निर्मिति केन्द्र भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के उप सचिव या अन्यून पंक्ति के अधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि-

(क) ऐसा निर्माण केन्द्र या निर्मिति केन्द्र भारत सरकार द्वारा उस रूप में मान्यताप्राप्त है ; और

(ख) ऐसे निर्माण केन्द्र या निर्मिति केन्द्र द्वारा विनिर्मित माल कम लागत वाले गृह निर्माण के लिए आशयित है ।

5. यदि केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन कोई प्रत्यय इन मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त निवेश या पूंजीगत माल के संबंध में नहीं किया गया है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रम सं० 122 के सामने सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत इस शर्त का यह आशय है कि उसका समाधान हो गया है यदि निम्नलिखित पर संदत्त किसी शुल्क का प्रत्यय नहीं किया गया है—

(i) निवेश ; और

(ii) मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 6 के उपनियम (4) के अनुसार इन मालों के विनिर्माण में अनन्य रूप से प्रयुक्त पूंजीगत माल पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन फायदा प्राप्त कर लिया है ।

6. यदि पहली अनुसूची के अध्याय 69 के अधीन आने वाले सरेमिक टाइलों से विनिर्मित है जिस पर, यथास्थिति, पहली अनुसूची के अधीन समुचित उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क का पहले ही संदाय कर दिया गया है ।

7. यदि ऐसे सरेमिक टाइलों के विनिर्माण में या उसके संबंध में निवेशों पर संदत्त शुल्क का कोई प्रत्यय केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन नहीं किया गया है ।

8. यह छूट शीर्ष 7113 की जवाहरात की वस्तुओं को लागू नहीं होगी जिन पर ब्रांड नाम या व्यापार नाम स्वयं जवाहरात की वस्तुओं पर ही स्पष्ट रूप से चिपका हुआ है या उत्कीर्णित है ।

9. ऐसा माल ऐसे विनिर्माता द्वारा उत्पादित या विनिर्मित नहीं है जो लौह अयस्क या लौह सांद्रण से स्टील का उत्पादन या विनिर्माण करता है ।

10. यदि—

(क) किसी कारखाने में उत्पादित कास्टिंग और फोरजिंग का उस कारखाने में सिलाई मशीन या चाफ कटर के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है ; या

(ख) कास्टिंग या फारेजिंग का विनिर्माण के कारखाने से सीधे सिलाई की मशीन या चाफ कटर के विनिर्माता के कारखाने को प्रदत्त किया जाता है और अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, उस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि कास्टिंग या फोरजिंग सिलाई मशीन या चाफ कटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित था ।

11. यदि उन रेलों से विनिर्मित है जिन पर उत्पाद शुल्क का संदाय कर दिया गया है और केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन ऐसी रेलों पर संदत्त शुल्क प्रत्यय नहीं किया गया है ।



12. यदि ऐसा माल ऐसे विनिर्माता द्वारा उत्पादित या विनिर्मित नहीं किया गया है जो तांबा अयस्क या तांबा सांद्रण से तांबे का उत्पादन या विनिर्माण करता है ।
13. यदि—  
 (क) निवेश पर संदत्त शुल्क का कोई प्रत्यय केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन नहीं किया गया है ;  
 (ख) शुल्क की संपूर्ण रकम का संदाय नकद या चालू खाते के माध्यम से किया गया है :  
 परन्तु ऐसे विनिर्माता द्वारा जो शुल्क संदत्त असुसज्जित शीटों या छल्लों से सुसज्जित शीट या छल्ले उत्पादित या विनिर्मित करता है, शुल्क संदेय नहीं होगा ।
14. यदि ऐसा माल ऐसे विनिर्माता द्वारा उत्पादित या विनिर्मित नहीं किया गया है जो एल्युमिनियम अयस्क या एल्युमिनियम सांद्रण से एल्युमिनियम का उत्पादन या विनिर्माण करता है ।
15. जहां उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र ऐसा उपयोग किया जाता है । वहां यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाया जाना) नियम, 2001 में उपवर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो छूट अनुज्ञात की जाएगी ।
16. यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के शीर्ष 8202 से 8205 के अंतर्गत आने वाले मालों से विनिर्मित है, जिस पर, यथास्थिति, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन उद्ग्रहण या अतिरिक्त शुल्क का पहले ही संदाय कर दिया गया है ।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**Notification**

No. 5 /2006-Central Excise

**New Delhi, the 1st March 2006.**

10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 95(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the Central Excise Tariff Act), as are given in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise specified thereon under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table subject to the relevant conditions specified in the Annexure to this notification, and the Condition number of which is referred to in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, the rates specified in column (4) of the said Table are *ad valorem* rates, unless otherwise specified.

Table

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of excisable goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5402, 5403 or 5406	All goods	8%	-
2.	5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 or 5507	All goods	8%	-
3.	63	Mosquito nets impregnated with insecticide	Nil	—
4.	64	Footwear subjected to any one or more of the following processes, namely: (i) packing or repacking; or (ii) labelling or relabelling of containers; or (iii) adoption of any other treatment to render the footwear marketable to the consumer. Explanation—For removal of doubts, it is clarified that this exemption shall not apply if any of the processes mentioned above results in alteration in the retail sale price already declared on the footwear.	Nil	1
5.	64	The following goods, namely:- (a) Footwear of retail sale price not exceeding Rs.250 per pair  (b) Footwear of Retail Sale Price exceeding Rs.250 and not exceeding Rs.750 per pair <i>Explanation.</i> - "Retail Sale Price means the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like, as the case may be, and the price is the sole consideration for the sale.	Nil  8%	2  2
6.	6603	Parts of walking sticks, seat sticks, whips, riding-crops and the like	8%	—
7.	68 or 69	Stoneware, which are only salt glazed	Nil	—
8.	68 or 69	Sand lime bricks	Nil	—
9.	68	Goods in which not less than 25% by weight of fly ash or phospho-gypsum or both have been used	8%	3
10.	68 (except 6804, 6805, 6811, 6812 and 6813)	Goods, in which more than 25% by weight of red mud, press mud or blast furnace slag or one or more of these materials, have been used, manufactured at the site of construction for use in construction work at such site	Nil	—

11.	68 (except 6804, 6805, 6811, 6812 and 6813)	Goods, in which more than 25% by weight of red mud, press mud or blast furnace slag or one or more of these materials, have been used, manufactured by Nirman Kendras and Nirmithi Kendras	Nil	4
12.	69	Ceramic tiles subjected to the process of printing, decorating or ornamenting in a factory which does not have the facilities (including plant and equipment) of producing ceramic tiles	Nil	5 and 6
13.	69	Ceramic tiles, manufactured in a factory not using electricity for firing the kiln.	8%	7
14.	6905 10 00	Roofing tiles	8%	—
15.	6908 6909 6911 6912 or 6914	All goods other than glazed tiles and broken glazed tiles, manufactured by a manufacturer exclusively engaged in the process of printing, decorating or ornamenting of the said goods. <i>Explanation.</i> —For the purposes of this entry, the value of goods shall be the value charged for printing, decorating or ornamenting of the said goods.	16%	5
16.	70	Glassware produced by mouth-blown process	Nil	—
17.	70	Optical glass manufactured by the Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata and intended for use by any Department of the Central Government.	Nil	—
18.	7009, 7010, 7011, 7020 00 19 7020 00 29  7018 10 90 7018 20 00	All goods manufactured by a manufacturer exclusively engaged in the process of printing, decorating or ornamenting of the said goods. <i>Explanation.</i> —For the purposes of this entry, the value of goods shall be the value charged for printing, decorating or ornamenting of the said goods.	16%	5
19.	7013	All goods (other than Table and kitchenware of Glass) manufactured by a manufacturer exclusively engaged in the process of printing, decorating or ornamenting of the said goods. <i>Explanation.</i> —For the purposes of this entry, the value of goods shall be the value charged for printing, decorating or ornamenting of the said goods.	16%	5
20.	7015 10 10	Rough ophthalmic blanks, for manufacture of optical lenses	8%	—
21.	71	Primary gold converted with the aid of power from any form of gold <i>Explanation.</i> —For the purposes of the exemption, “primary gold” means gold in any unfinished or semi-finished form and includes ingots, bars, blocks, slabs, billets, shots, pellets, rods, sheets, foils and wires.	Nil	—
22.	7105 or 7112	Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones; waste and scrap of precious metals or metals clad with precious metals, arising in course of manufacture of goods falling in Chapter 71	Nil	—

23.	7108	Gold arising in the course of manufacture of copper or zinc by smelting	Nil	—
24.	71	(I) Articles of— (a) gold, (b) silver, (c) platinum, (d) palladium, (e) rhodium, (f) iridium, (g) osmium, or (h) ruthenium;	Nil	8
		(II) Ornaments and the like articles made of gold or silver or platinum or any one or more of them, whether or not set— (a) with stones or gems (real or artificial), or with pearls (real, cultured or imitation); or (b) with stones, gems and pearls of the kind mentioned at (a) or any combination thereof;	Nil	8
		(III) Strips, wires, sheets, plates and foils of gold, used in the manufacture of articles of jewellery and parts thereof;	Nil	—
		(IV) Precious and semi-precious stones, synthetic stones and pearls	Nil	—

**Explanation.**—For the purposes of entries (I), (II) and (III), as the case may be,—

(i) “ornament” means a thing, in any finished form, meant for personal adornment or for the adornment of any idol, deity or any other object of religious worship, made of, or manufactured from, gold or silver or platinum or any one or more of them, whether or not set with stones or gems (real or artificial) or with pearls (real, cultured or imitation), or with all or any of them and includes parts, pendants or broken pieces of ornaments;

(ii) “metal” shall include,—

(a) any alloy in which any of the metals specified in this entry at item No.(I) above predominates by weight over each of the other metals specified in such item or any other metal in such alloy;

(b) any alloy in which the gold content is not less than 37.5 per cent by weight;

(iii) “articles” in relation to gold shall mean any thing (other than ornaments), in a finished form, made of, or manufactured from or containing, gold and includes any gold coin and broken pieces of an article of gold but does not include primary gold, that is to say, gold in any unfinished or semi-finished form including ingots, bars, blocks, slabs, billets, shots, pellets, rods, sheets, foils and wires.

25.	71	Silver, platinum, palladium, rhodium, iridium, osmium and ruthenium in their primary forms, that is to say, any unfinished or semi-finished form including ingots, bars, blocks, slabs, billets, shots, pellets, rods, sheets, foils and wires.	Nil	—
26.	7113	Article of jewellery on which brand name or trade name is indelibly affixed or embossed on the articles of jewellery itself	2%	—
27.	7117	All goods	8%	—
28.	72	Hot rolled or cold rolled sheets and strips cut or slit on job work	Nil	5 and 9
29.	73	Castings and forgings, cleared for manufacture of sewing machines or chaff cutters (whether known as toka machine or by any other name) used for cutting animal fodder	Nil	10
30.	7302 or 8530	Railway or tramway track construction material of iron and steel <i>Explanation.</i> —For the purposes of this exemption, the value of goods shall be the value of goods excluding the value of rails.	16%	11
31.	7310 or 7326	Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes	Nil	—
32.	7315	Chains of vehicles of heading 8712.	Nil	—
33.	7317 00 11	Animal shoe nails	Nil	—
34.	7321 or 7417	Kerosene burners, kerosene stoves and wood burning stoves of iron or steel, copper or copper alloy	Nil	—
35.	7321 or 9405	Bio-gas lights, bio-gas stoves and hot plates of iron or steel, specially designed to operate using bio-gas	Nil	—
36.	7321 11	LPG Gas stoves (with burners only, without other functions such as grills or oven)	8%	—
37.	7326 19 90	Forgings and forged products of iron or steel used in the manufacture of parts and accessories of cycle and cycle rickshaws falling under Chapter 40, 73, 83, 85, 87 or 95	Nil	—
38.	7326 20 10	Tyre bead wire rings intended for use in manufacture of tyres for cycles and cycle-rickshaws	Nil	—
39.	7323 or 7615 19 10	Pressure cookers	8%	—
40.	7402 or 7403	Unrefined copper and unwrought copper, intended for use in the manufacture of utensils or handicrafts.	Nil	12
41.	7409	All goods other than trimmed or untrimmed sheets or circles of copper, intended for use in the manufacture of utensils or handicrafts	Nil	12
42.	7409	Trimmed or untrimmed sheets or circles of copper, intended for use in the manufacture of handicrafts or utensils	Rs. 3500 per metric tonne	12 and 13
43.	7409 or 7410	Copper strip and foil, intended to be used for manufacture of imitation "Zari"	Nil	—
44.	7601	Unwrought aluminium, whether or not alloyed, intended for use in manufacture of utensils	Nil	14

45.	7604 or 7608 or 7609 00 00	Aluminium extrusions, square tubes and round tubes of aluminium used in the manufacture of— (1) artificial limbs; or (2) any of the following rehabilitation aids, namely:- (i) Somi brace (ii) Ash brace (iii) Taylor brace (iv) Four post collars (v) Thumb splint (vi) Finger splint (vii) Axilla crutches (viii) Elbow crutches (ix) Walking frames (x) Wheel chair or Tricycle components (xi) Braille shorthand machine (xii) Folding cane for blind	Nil	15
46.	7606	Aluminium plates and sheets (other than circles), intended for use in manufacture of utensils	Nil	5 and 14
47.	7606	Aluminium circles	Rs. 2500 per metric tonne	5 and 14
48.	82	Pencil sharpeners and blades thereof	Nil	—
49.	8201	All goods except pruners	Nil	—
50.	82	Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets	Nil	16

**ANNEXURE**

Condition No.	Conditions
1.	If <del>manufactured</del> out of footwear- (i) <del>bearing a brand</del> name or trade name of any person; (ii) in <del>respect of</del> which the retail sale price has been declared; and (iii) in <del>which the</del> appropriate duty of excise under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) or as the case may be, the additional customs duty under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) has already been paid.
2.	This exemption shall apply only to such footwear on which the retail sale price is indelibly marked or <del>embossed on</del> the footwear itself.
3.	If the manufacturer maintains proper account in such form and in such manner as the Commissioner of Central Excise having jurisdiction may specify in this behalf, for receipt and use of fly-ash or phosphogypsum or both, in the manufacture of all goods falling under Chapter 68 of the First Schedule and files a monthly return in the form and manner, as may be specified by such Commissioner of Central Excise, with the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction.
4.	If the Nirman Kendra or the Nirmithi Kendra produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Urban Development, to the effect that- (a) the said Nirman Kendra or the said Nirmithi Kendra is recognised as such by the Government of India; and

- (b) the goods manufactured by such Nirman Kendra or Nirmithi Kendra are intended for construction of low cost houses.
5. If no credit under rule 3 or rule 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002, has been taken in respect of the inputs or capital goods used in the manufacture of these goods.  
*Explanation.-* For the removal of doubts, it is hereby clarified that in respect of the goods specified in column (3) of the Table occurring against S. No.122, this condition is intended to have been satisfied if no credit of duty paid on,-  
 (i) the inputs; and  
 (ii) the capital goods used exclusively in the manufacture of these goods, in accordance with sub-rule (4) of rule 6 of the CENVAT Credit Rules, 2002, has been availed under rule 3 or rule 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002.
6. If, manufactured out of ceramic tiles, falling under Chapter 69 of the First Schedule, on which the appropriate duty of excise under the First Schedule, or as the case may be, the additional duty leviable under the Customs Tariff Act, 1975 has already been paid.
7. If no credit of the duty paid on the inputs used in or in relation to the manufacture of such ceramic tiles has been taken under rule 3 or rule 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002.
8. This exemption shall not be applicable to articles of jewellery of heading 7113 on which brand name or trade name is indelibly affixed or embossed on the articles of jewellery itself.
9. If such goods are not produced or manufactured by a manufacturer who produces or manufactures steel from iron ore or concentrate.
10. If, -  
 (a) the castings and forgings produced in a factory are used in that factory for the production of sewing machines or chaff cutters; or  
 (b) the castings or forgings are supplied directly from the factory of manufacture, to the factory of a manufacturer of sewing machines or chaff cutters and the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction is satisfied that the castings or forgings are intended for use in the manufacture of sewing machines or chaff cutters.
11. If manufactured out of rails on which duty of excise has been paid and no credit of duty paid on such rails has been taken under rule 3 or rule 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002.
12. If such goods are not produced or manufactured by a manufacturer who produces or manufactures copper from copper ore or copper concentrate.
13. If,-  
 (a) no credit of duty paid on inputs under rule 3 or rule 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002 has been taken;  
 (b) the entire amount of duty is paid in cash or through account current:  
 Provided that the duty shall not be payable by a manufacturer who produces or manufactures trimmed sheets or circles from duty paid untrimmed sheets or circles.
14. If such goods are not produced or manufactured by a manufacturer who produces or manufactures aluminium from aluminium ore or aluminium concentrate.
15. Where such use is elsewhere than in the factory of production, the exemption shall be allowed if the procedure laid down in the Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 2001, is followed.
16. If manufactured from goods falling within heading 8202 to 8205 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985, on which duty of excise specified in the First Schedule or the additional duty leviable under the Customs Tariff Act, 1975, as the case may be, has already been paid.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006,

सं० 6/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 96(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी से उपाबद्ध सुसंगत सूची के साथ पठित सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई हैं, के अंतर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क माल को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उस पर विनिर्दिष्ट उतने उत्पाद-शुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए जिनकी शर्त संख्याक पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात उक्त सारणी के क्रम सं० 10 के सामने विनिर्दिष्ट माल को 1 मई, 2007 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी ।

**स्पष्टीकरण** — इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट दरें मूल्यानुसार दरें हैं, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाएं ।

## सारणी

क्र. सं.	पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	उत्पाद-शुल्क माल का वर्णन	दर	शर्त सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	84	समेकित कयर विकास परियोजना, जो केरल सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, के अधीन प्रदाय की गई सूची 1 में विनिर्दिष्ट कयर इंजन मशीनरी	कुछ नहीं	-
2.	84	स्वर्ण, प्लेटिनम और रोडियम या इन धातुओं में से किसी एक या अधिक के साथ-साथ बने स्पिनरेटर्स, जब उन्हें भारत से बाहर निर्यात किए गए घिसे-पिटे या क्षतिग्रस्त स्पिनरेटों के बदले में आयात किया जाए	16%	1
3.	84, 85, 90 या कोई अन्य अध्याय	सूची 2 में विनिर्दिष्ट मशीनरी या उपस्कर	कुछ नहीं	-
4.	84 या कोई अन्य अध्याय	सूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट रेशम टैक्सटाइल उद्योग में उपयोग के लिए मशीनरी या उपस्कर	कुछ नहीं	--
5.	84 या कोई अन्य अध्याय	कृषि उपज के परिरक्षण, भंडारण या परिवहन के लिए किसी शीत भंडार, शीत कक्ष या प्रशीतित यान को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित सूची 4 में विनिर्दिष्ट माल	कुछ नहीं	2 और 3



6.	8413 91 40 या 8414 90	हैंड पंप के पुर्जे	कुछ नहीं	—
7.	84 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित वर्णन के माल, अर्थात् :- (1) मशीनरी की सभी मर्दें, जिनके अंतर्गत जल उपचार संयंत्रों की स्थापना करने के लिए यंत्र, साधित्र और साधन, सहायक उपस्कर और उनके संघटक/ पुर्जे; (2) जल के उसके श्रोत से संयंत्र तक और वहां से भंडारण सुविधा तक परिदान के लिए आवश्यक पाइप।  स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजनों के लिए जल उपचार संयंत्र के अंतर्गत विलवणीकरण, अखनिजीकरण या जल के शुद्धिकरण या ऐसी किसी प्रक्रिया को करने के लिए या मानव या पशु उपभोग के लिए जल को उपयुक्त बनाने के लिए आशयित प्रक्रियाओं के लिए कोई संयंत्र भी है किन्तु इसके अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय करने वाला संयंत्र नहीं है।	कुछ नहीं	4
8.	8414 90 12	डाइसाइकिल पम्प के पुर्जे।	कुछ नहीं	—
9.	8430 या 8705	(i) शीर्ष सं० 8430 के अंतर्गत आने वाली वेधन रिग, जिनका विनिर्माण ऐसी चैसिस और कम्प्रेसर्स को मोटरयान चैसिस पर आरोपण करके किया गया है, जिन पर पहली अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय पहले ही कर दिया गया है ;  (ii) वेधन रिग, जिनका आरोपण शीर्ष संख्या 8705 के अन्तर्गत आने वाले मोटरयान चैसिस पर ऐसे चैसिस और कम्प्रेसर्स से विनिर्माण किया जाता है जिन पर पहली अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय पहले ही कर दिया गया है।  स्पष्टीकरण - प्रविष्टि (i) और (ii) के प्रयोजनों के लिए वेधन रिग का मूल्य उसका वह मूल्य होगा जिसमें ऐसी वेधन रिग में प्रयोग की जाने वाली चैसिस और कम्प्रेसर्स का मूल्य अपवर्जित कर दिया गया हो।	16 %	5
10.	84 या 85	मशीनरी या उपस्कर, वृक्षारोपण सेक्टर में उपयोग के लिए जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2002 [सा.का.नि. 118(अ) तारीख 1 मार्च, 2002] से संलग्न सूची 32क में विनिर्दिष्ट।	कुछ नहीं	—
11.	8434	सभी माल	कुछ नहीं	—
12.	8443	70,000 प्रतिघंटा प्रति घंटा की न्यूनतम गति से दोहरी चौड़ाई का चार प्लेट चौड़ी मुद्रण मशीनें हाई स्पीड कोल्ड सेट वैब आफसेट रोटरी	कुछ नहीं	—
13.	8445, 8448, 8483 (8483 10 10 के सिवाय) 8484 8485 90 00	जूट टेक्सटाइल बनाने के लिए जूट मिल के लिए अपेक्षित माल	कुछ नहीं	2

14.	8446	स्वचालित शटल या शटलरहित कर्ष	कुछ नहीं	—
15.	8452	सिलाई की मशीनें, उनसे भिन्न जिसमें अंत-निर्मित मोटरें हैं	कुछ नहीं	—
16.	8471	कम्प्यूटर	12%	—
		स्पष्टीकरण—इस छूट के प्रयोजनों के लिए “कम्प्यूटर” के अंतर्गत पृथक रूप से निकासी की गई सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) ; या सेट के साथ निकासी किए गए मानीटर के साथ सीपीयू ; माउस और की बोर्ड ; किन्तु इनके अंतर्गत इनपुट या आउटपुट युक्तियां या साधित्र, जैसे मानीटर, की बोर्ड, माउस, मोडेम, निर्बाध विद्युत प्रदाय प्रणाली या पृथक से निकासी किया गया वेब कैमरा		
17.	8471 70 या 8473 30	निम्नलिखित माल अर्थात् :- (क) मदर बोर्ड से भिन्न कंप्यूटर के लिए माइक्रोप्रोसेसर; (ख) फ्लोपी डिस्क ड्राइव ; (ग) हार्ड डिस्क ड्राइव ; (घ) सीडी रोम-ड्राइव ; (ङ) डीवीडी ड्राइव ; (च) यूएसबी फ्लैश मेमोरी ; (छ) काम्बो ड्राइव	कुछ नहीं	—
18.	8481 80 41 या 8481 90 10	सभी माल	कुछ नहीं	—
19.	84 या 90	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध वसा टेस्टर ; और (ii) इलेक्ट्रॉनिक सालिड नान फैट (एसएनएफ) टेस्टर	8 %	—
20.	8512	शीर्ष 8712 के यानों के डाइनामास, शीर्ष लैपस, साइड लैप, टेल लैप	कुछ नहीं	—
21.	8519 99 40, 8520 90 90 या 8521 90 90	एमपी 3 प्लेयर या एमपीईजी 4 प्लेयर	8 %	—
22.	8524	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) रिकार्डिड आडियो काम्पैक्ट डिस्क (सीडी) (ख) रिकार्डिड वीडियो काम्पैक्ट डिस्क (वीसीडी) (ग) रिकार्डिड डिजिटल काम्पैक्ट डिस्क (डीवीडी)	कुछ नहीं	—
23.	8524	टेलीविजन ब्राडकास्टिंग के लिए आशयित और फार्मेट जैसे कि यूमेटिक, बीटाकेम या उसी प्रकार के किसी फार्मेट में प्रदत्त रिकार्डिड वीडियो कैसेट	कुछ नहीं	—
24.	8524	आडियो कैसेट	कुछ नहीं	—

25.	8524	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) 8.5 मिलीमीटर से अनधिक की चौड़ाई के ध्वनि रिकार्डित मैग्नेटिक टेप, चाहे वे स्पूल या रील में हों या पैकिंग के किसी अन्य रूप में हो, (ख) टेलीविजन और ध्वनि रिकार्डिंग मीडिया जैसे वीडियो टेप्स और वीडियो डिस्क	कुछ नहीं	6
26.	8524	शैक्षणिक प्रकृति, जनरल, पत्रिकाएं (मैगजीन) या समाचारपत्र को अन्तर्विष्ट करने वाले सीडीरोम	कुछ नहीं	—
27.	8524	पैकेज्ड साफ्टवेयर या केन्ड साफ्टवेयर से भिन्न कोई कस्टमाइज्ड साफ्टवेयर (किसी विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ता या ग्राहक के लिए विकसित कोई कस्टम डिजाइन्ड साफ्टवेयर)  स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "पैकेज्ड साफ्टवेयर या केन्ड साफ्टवेयर" से विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकसित साफ्टवेयर अभिप्रेत है जो आफ शेल्फ विक्रय के लिए आशयित है या विक्रय किए जाने के लिए सक्षम है	कुछ नहीं	—
28.	8525 20	सैलूलर फोन और रेडियो ट्रैकिंग टर्मिनल्स	कुछ नहीं	—
29.	8527 90 11	पेजर	8%	—
30.	8528	सभी माल	16%	—
31.	8529, 90 90	सैलूलर फोन सहित मोबाइल हैंड सहित के पुर्जे, संघटक और उपसाधन	कुछ नहीं	3
32.	8539 31 10	कम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप (सीएफएल)	8%	—
33.	8601 से 8606	सभी माल (टैरिफ मद 8604 00 00 के अधीन आने वाली रेलवे ट्रैक मशीनों के सिवाय)	कुछ नहीं	7
34.	87	मोटरयान जो,- (i) उपशीर्ष सं० 8702 या 8703 के अन्तर्गत आते हैं जो निकासी के पश्चात् एकमात्र एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं ; (ii) उपशीर्ष सं० 8703 के अंतर्गत आते हैं, जो निकासी के पश्चात् एकमात्र टैक्सी के रूप में प्रयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं ।	16% 16%	8 8

35.	87	विद्युत प्रचालित यान अर्थात् ट्राली, बसे, प्लेटफार्म ट्रक, संकर्म ट्रक, टो ट्रैक्टर, दो या तीन पहियों वाली मोटरयान और बैट्री चालित सड़क यान ।  स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजनों के लिए विद्युत प्रचालित ट्राली बसों से अभिप्रेत है ऐसी ट्राली बसें, जो केवल बाह्य स्रोत से ली गई विद्युत ऊर्जा से चलती है, और विद्युत प्रचालित प्लेटफार्म ट्रक, विद्युत प्रचालित संकर्म ट्रक, संकर्म ट्रक और प्रचालित टो ट्रैक्टर से क्रमशः ऐसे प्लेटफार्म ट्रक संकर्म ट्रक या टो ट्रैक्टर अभिप्रेत है, जो केवल ऐसी एक या अधिक विद्युत बैटरी से चलते हैं जो ऐसे यान पर लगी है और बैटरी चालित सड़क यान से अभिप्रेत है ऐसा सड़क यान, जो केवल ऐसा एक या अधिक विद्युत बैटरी से व्युत्पन्न विद्युत ऊर्जा से चलता है, जो ऐसे सड़क यान में लगी गई है ।	8%	-
36.	8706 00 21 या 8706 00 39	बैटरी शक्ति से युक्त सड़क यानों के विनिर्माण में उपयोग के लिए बैसिस	16%	3
37.	8706 00 43 या 8706 00 49	बैटरी शक्ति से युक्त सड़क यानों के विनिर्माण में उपयोग के लिए बैसिस	16%+ 10, 000 रु० प्रति बैसिस	3
38.	87	मोटरयान, जिनके साथ डीजल जेनरेटिंग सेट लगाया जाता है और जो सरकारी प्रयोजनों के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रदाय किए जाने के लिए आशयित है ।  स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजनों के लिए मोटरयान का मूल्य ऐसे यान के साथ लगाए गए जेनरेटिंग सेट के मूल्य के बराबर होगा ।	मोटरयान पर फिट किए गए डीजल जनित्र सेट पर लागू शुल्क की दर	--
39.	87	(i) ऐसे मोटरयान जो मूलतः चालक को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं जिनके अंतर्गत स्टेशन वैगन भी हैं ।  (ii) शीर्ष 8704 के अंतर्गत आने वाले के माल के लिए मोटरयान (उनसे भिन्न जो संपीडित या द्रवित गैसों के परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं) ; और  (iii) तीन पहिये वाले मोटरयान	कुछ नहीं	9
40.	8701	सभी माल (1800 सीसी की क्षमता वाले इंजन के अर्ध ट्रैलर के लिए सड़क ट्रैक्टरों से भिन्न)	कुछ नहीं	--
41.	8702, 8703, 8704 या 8716	(1) मोटरयान, जिनका विनिर्माण बैसिस के विनिर्माता से भिन्न किसी विनिर्माता द्वारा निम्नलिखित के लिए किया गया है,-  (i) छह से अधिक किन्तु बारह से अनधिक के परिवहन के लिए, ड्राइवर को अपवर्जित करके, स्टेशन वैगन सहित ;	--	10
			24%	--

	को अपवर्जित करके, स्टेशन वैगन सहित ;		
	(ii) बारह से अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए, ड्राइवर को अपवर्जित करके ;	16%	—
	(iii) छह से अनधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए, स्टेशन वैगन सहित ;	24%	—
	(iv) माल के परिवहन के लिए, पेट्रोल चालित से भिन्न,	16%	—
	(v) माल के परिवहन के लिए पर (iv) से भिन्न	24%	—
	(2) शीर्ष सं० 8716 के यान जिनका विनिर्माण चैसिस के विनिर्माता से भिन्न विनिर्माता द्वारा किया जाता है ।	16%	10
	स्पष्टीकरण- प्रविष्टि (1) और प्रविष्टि (2) के प्रयोजनों के लिए यान का मूल्य. यान का वह मूल्य होगा जिसमें से ऐसे यान में प्रयोग की जाने वाली चैसिस के मूल्य को छोड़कर ।		
42. 8702, 8703	4000 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई के निम्नलिखित मोटरयान अर्थात् -	16%	—
	(i) 1200 सीसी से अनधिक क्षमता वाले इंजन के पेट्रोल चालित यान ; और		
	(ii) 1500 सीसी से अनधिक क्षमता वाले इंजन के डीजल चालित यान ;		
	स्पष्टीकरण इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए मोटर यान के विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1989 ( 1989 का 59 ) और तद्घीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे ।		
43. 8703	चालक सहित सात से अनधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए तिपहिया यान	16%	—
44. 8704	निम्नलिखित माल अर्थात् :-	16%	—
	(i) तिपहिया मोटर यान		
	(ii) पेट्रोल चालित से भिन्न मोटरयान		
	(iii) निम्नलिखित के लिए अभिकल्पित किए गए डम्पर्स,-		
	(क) राजमार्ग के उपयोग के लिए ;		
	(ख) कुल शुद्ध भार (पेलोड को छोड़कर) 8 टन से अधिक ; और		
	(ग) 10 टन से अनधिक अधिकतम पेलोड क्षमता के लिए		
45. 8706 00 43	निम्नलिखित के लिए अभिकल्पित किए गए से भिन्न डम्पर्स,-	16%+	—
	(क) राजमार्ग के उपयोग के लिए ;	10,000	
	(ख) कुल शुद्ध भार (पेलोड को छोड़कर) 8 टन से अधिक ; और	₹0	
	(ग) 10 टन से अनधिक अधिकतम पेलोड क्षमता के लिए		

46.	8702, 8703, 8704	माल के परिवहन या 8 या अधिक व्यक्तियों जिनके अंतर्गत ड्राइवर भी है के परिवहन के लिए तीन या अधिक एक्सिल वाले मोटर यान,	16%	—
47.	8706 00 21 या 8706 00 39	तीन या अधिक एक्सिल वाले मोटरयान के लिए चेसिस (संलग्न यान के लिए चेसिस से भिन्न)	16%	—
48.	8706 00 43 या 8706 00 49	तीन या अधिक एक्सिल वाले मोटरयान के लिए चेसिस (संलग्न यान के लिए चेसिस से भिन्न)	16%+ 10,000 रु० प्रति चेसिस	—
49.	8703	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कार (चालक सहित 7 व्यक्ति तक परिवहन के लिए)	8%	11
50.	8705	विशेष प्रयोजन के लिए मोटरयान	कुछ नहीं	12
51.	8706 00 43 या 8706 00 49	इंजनों से युक्त शीर्ष 8704 के यानों के लिए मोटर चेसिस (पेट्रोल चालित से भिन्न) चाहे कैब लगा हो या नहीं	16%+ 10,000 रु० प्रति चेसिस	—
52.	8709	उस प्रकार के ट्रैक्टर जिनका उपयोग उन रेल स्टेशन प्लेटफार्मों पर किया जाता है, जिन पर भार उत्थापन या अन्य विशेषीकृत सामग्री उठाई-धराई उपस्कर लगे हैं, फिट किए गए हैं या उन पर नियत हैं।  स्पष्टीकरण- इस छूट के प्रयोजनों के लिए ट्रैक्टरों का मूल्य लगे, फिट किए गए या उन पर नियत भार उत्थापन या अन्य विशेषीकृत सामग्री उठाई-धराई उपस्कर के मूल्य को छोड़कर ट्रैक्टरों का मूल्य होगा।	16%	—
53.	8714	शीर्ष 8712 और 8713 के यानों के पुर्ज और उपसाधन	कुछ नहीं	—
54.	8716	ट्रेलर जिनके साथ डीजल जेनरेटिंग सेट फिट किया जाता है और जो सरकारी प्रयोजनों के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रदाय किए जाने के लिए आशयित हैं।  स्पष्टीकरण- इस छूट के प्रयोजनों के लिए ट्रेलर का मूल्य ऐसे ट्रेलर के साथ फिट किए गए जेनरेटिंग सेट के मूल्य के बराबर होगा।	ट्रेलर पर फिट किए गए डीजल सेट पर लागू शुल्क की दर	—
55.	9001 40, 9001 50 00 या 9001 90 90	प्रकाशकीय लेंस और इन्द्राआकुलर लेंस	कुछ नहीं	—

56. 9003	फ्रेम और आरोपण की वस्तुएं 500 रु० प्रति नग से कम मूल्य के फ्रेम और चश्मों के माउंटिंग्स, गोगल्स या उसी तरह का सामान	8%	—
57. 9004 90	सभी माल, सनग्लासों से भिन्न (करेक्टिंग वीजन के लिए प्रयुक्त ग्लासों से भिन्न)	8%	—
58. 9017	ऐसे ज्यामितीय और गणितीय उपकरणों के विनिर्माण में प्रयुक्त ज्यामितीय और गणितीय उपकरणों के पुर्जे	8%	3
59. 9018 या 9019 या 9022	(i) शीर्ष 9018 और 9019 के माल के पुर्जे और साधित्र (ii) शीर्ष 9022 के अधीन आने वाले चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंड चिकित्सा या पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए पुर्जे और उपसाधन	कुछ नहीं	—
60. 90 या कोई अन्य अध्याय	अधिसूचना सं० 10/2006-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 से उपाबद्ध सूची 1 में विनिर्दिष्ट चिकित्सीय उपस्कर के पुर्जे और उपसाधन तथा अन्य माल	कुछ नहीं	—
61. 90 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित माल, अर्थात् :—  (क) चिकित्सीय उपस्कर (फोली बैलून कैथेटर्स को छोड़कर) और भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा०का०नि० 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002] से संलग्न सूची 37 में विनिर्दिष्ट अन्य माल (ख) ऊपर (क) पर चिकित्सा उपस्कर के उपसाधन (ग) ऊपर (क) पर चिकित्सा उपस्कर के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जे (घ) कान्टीनुअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस (सीएपीडी) द्रव जो टबिंग प्रणाली के सहित या बिना सोल्युशन बैग में अंतर्विष्ट है (ङ) ऊपर (घ) के उपसाधन (च) ऊपर (घ) के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जे	कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं	— — 3 — — 3
62. 90 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित माल, अर्थात् :—  (क) चिकित्सीय उपस्कर और भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा०का०नि० 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002] से संलग्न सूची 38 में विनिर्दिष्ट अन्य माल (ख) ऊपर (क) पर चिकित्सा उपस्कर के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जे	कुछ नहीं कुछ नहीं	— 3
63. 90 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित माल, अर्थात् :—		

		(क) चिकित्सीय उपस्कर और भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा०का०नि० 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002] से संलग्न सूची 39 में विनिर्दिष्ट अन्य माल	कुछ नहीं	—
		(ख) ऊपर (क) पर चिकित्सा उपस्कर के उपसाधन	कुछ नहीं	—
		(ग) ऊपर (क) पर चिकित्सा उपस्कर के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जे	कुछ नहीं	3
64.	90 या कोई अन्य अध्याय	भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा०का०नि० 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002] से संलग्न सूची 40 में विनिर्दिष्ट ट्यूबल अक्लूजन के लिए अपेक्षित माल	कुछ नहीं	—
65.	90 या कोई अन्य अध्याय	रक्त ग्लूकोज मानीटर प्रणाली (ग्लूकोमीटर) और टेस्ट स्ट्रिप्स	कुछ नहीं	—
66.	90 या कोई अन्य अध्याय	कृत्रिम गुर्दा	कुछ नहीं	—
67.	90 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित माल के पुर्जे, अर्थात् :— (i) क्रच (ii) व्हील चेयर (iii) वार्किंग फ्रेम (iv) ट्राइसाइकिल (v) ब्रेलर (vi) कृत्रिम अंग	कुछ नहीं	—
68.	90 या कोई अन्य अध्याय	भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा०का०नि० 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002] से संलग्न सूची 41 में विनिर्दिष्ट निःशक्तों के लिए सहायक युक्तियाँ, पुनर्वास सहायता और अन्य माल	कुछ नहीं	—
69.	9027	स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के परीक्षण के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी द्वारा विनिर्मित किट स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजन के लिए,— (क) “स्वापक औषधि” और “मनः प्रभावी पदार्थ” का क्रमशः वही अर्थ है जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (xiv) और खंड (xxiii) में हैं ; (ख) “स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के परीक्षण के लिए किट” से मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी द्वारा विनिर्मित स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के परीक्षण के लिए छोटी बोतलों	कुछ नहीं	—



		में रासायनिक अभिकर्मकों से बने किट अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत ऐसे किटों के साथ प्रदाय की गई परीक्षण ट्यूब ड्रापर, परीक्षण प्लेट और उसी प्रकार के अन्य उपसाधन भी हैं।		
70.	9402	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा के फर्नीचर और उनके भाग	8%	—
71.	9404	क्वायर उत्पाद	कुछ नहीं	—
72.	9405 91 00, 9405 92 00 या 9405 99 00'	केरोसिन प्रेशर लालटेन के भाग जिनके अंतर्गत केरोसिन प्रेशर लालटेन में उपयोग के लिए गैस मेन्टल भी है।	कुछ नहीं	—
73.	9501, 9502 या 9503	पुर्ज और उपसाधन	कुछ नहीं	—
74.	95	क्रीड़ा माल स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि में “क्रीड़ा माल” के अंतर्गत साधारण शारीरिक व्यायाम के लिए वस्तुएं और उपस्कर नहीं आते हैं।	कुछ नहीं	—
75.	9603	दांत के ब्रश से भिन्न अन्य सभी माल	कुछ नहीं	—
76.	9608	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) 200 रुपए प्रति नग से अनधिक कीमत के पेन और उनके पुर्जे (ii) 200 रुपए प्रति बाल नग से अनधिक कीमत के बाल प्वाइंट पेन (iii) रिफिल (बाल प्वाइंट पेन के लिए) 200 रुपए प्रति पेन से अनधिक कीमत के पेन	कुछ नहीं	—
77.	9608	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) पेनों के पुर्जे (ii) बाल प्वाइंट पेनों के पुर्जे (रिफिल के सिवाय) (iii) बाल प्वाइंट पेनों के रिफिल के पुर्जे	कुछ नहीं	—
78.	9608 या 9609	पेंसिलों के भाग जिनके अंतर्गत ऐसी पेंसिलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली क्लच पेंसिल हैं, जिनमें क्लच पेंसिल भी हैं।	कुछ नहीं	3
79.	9608	पेंसिलें	कुछ नहीं	—
80.	कोई अध्याय	उत्पादन कारखाने के भीतर प्रयुक्त पुर्जे शीर्ष 8432 के शक्ति टिलरों के विनिर्माण के लिए	कुछ नहीं	—

81.	कोई अध्याय	निम्नलिखित के प्रदाय के लिए माल,- (क) भारत में विदेशी डिप्लोमेट या कौंसलर के शासकीय उपयोग के लिए (ख) भारत में डिप्लोमेट अभिकर्ता/कैरियर कौंसलीय अधिकारी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए	कुछ नहीं	13
82.	कोई अध्याय	(i) सीमेंट से जुड़ा कण बोर्ड (ii) जूट कण बोर्ड (iii) चावल के छिलके को बोर्ड (iv) गिलास फाइबर को दबाकर बनाया गया चिपसम बोर्ड (जीआरजा) (v) सिसल-फाइबर बोर्ड (vi) अवशिष्ट बोर्ड	कुछ नहीं	—
83.	कोई अध्याय	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित माल,- (क) ओजोन निःशेषण पदार्थों के प्रतिस्थापन के लिए (ओडीएस) (ख) ओजोन निःशेषण पदार्थ (नान-ओडीएस) प्रौद्योगिकी से नई परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए अपेक्षित माल स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजन के लिए "माल" से ऐसे माल अभिप्रेत हैं, जो ओजोन निःशेषण पदार्थ (नान-ओडीएस) प्रौद्योगिकी के लिए अमन्य रीप से डिजाइन किए गए हैं।	कुछ नहीं	15
84.	कोई अध्याय	सूची 5 में विनिर्दिष्ट गैर-परम्परागत ऊर्जा युक्तियां / प्रणाली	कुछ नहीं	—
85.	82, 38, 39, 44 या 70	वायु प्रचालित विद्युत जनरेटरों के लिए रोटार ब्लेडों के विनिर्माण के लिए सूची 6 में विनिर्दिष्ट माल	कुछ नहीं	16
86.	कोई अध्याय	शीर्ष सं० 8601 से 8606 के अधीन आने वाले माल (टैरिफ मद 8604 00 00 के अधीन आने वाली रेलवे ट्रैक मशीनों के सिवाय) के विनिर्माण में उसी विनिर्माता के उत्पादन के कारखाने में या किसी अन्य कारखाने के भीतर प्रयुक्त पुर्जे	कुछ नहीं	2
87.	कोई अध्याय	अध्याय 87 के मोटरयान शीर्ष सं० 8706 के अन्तर्गत आने वाले मोटर यान के चैसिस पर बाड़ी का निर्माण करने या संविरचना या आरोपण या संरचना की फिटिंग या उपस्करों को लगाने के लिए उसी कारखाने के भीतर प्रयोग किए जान के लिए किसी कारखाने में विनिर्मित सभी माल।	कुछ नहीं	17
88.	कोई अध्याय	वायुयान या हेलीकाप्टरों के विनिर्माण या सर्विस के लिए अपेक्षित वायुयान या हेलीकाप्टर के पुर्जे (वायुयानों के लिए रबर टायर और ट्यूबों से भिन्न) स्पष्टीकरण—इस छूट के प्रयोजनों के लिए वायुयानों या हेलीकाप्टरों के पुर्जों के अंतर्गत इंजन, इंजन के पुर्जे, बेतार पारेषण, साधित्र, बेतार सुग्राही, लोहे और इस्पात के वासर और यथास्थिति, पहली या दूसरी	कुछ नहीं	—

		अनुसूची के अंतर्गत आने वाले स्क्रू वाल्व और रोलर बियरिंग तथा अन्य पुर्जे हैं।		
89.	कोई अध्याय	श्रवण सहाय्य के पुर्जे	कुछ नहीं	—
90.	कोई अध्याय	दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा या उसकी ओर से दिल्ली में एमआरटीएस परियोजना में उपयोग के लिए उपाप्त उपस्कर की सभी मर्दे जिनके अंतर्गत मशीनरी और रोलिंग स्टॉक भी हैं।	कुछ नहीं	18
91.	कोई अध्याय	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के विरुद्ध प्रदाय किए गए सभी माल	कुछ नहीं	19
92.	कोई अध्याय	शीर्ष 8701 के माल के विनिर्माण के लिए उत्पादन कारखाने के भीतर उपयोग किए गए पुर्जे	कुछ नहीं	--
93.	कोई अध्याय	दूता फिशिंग के लिए मोनोफिलामेंट लान्ग लाइन सिस्टम	कुछ नहीं	20

## शर्त सं०

उपाबंध  
शर्तें

1. शुल्क ऐसे उद्ग्रहीत किया जाएगा मानो स्पिनरेट निम्नलिखित के बराबर हों—  
(i) विनिमय की लागत, अर्थात् निम्नलिखित का योग -  
(क) श्रम प्रभार  
(ख) सोना, प्लेटिनम और रोडियम की उस मात्रा के लिए भारित कीमत, यदि कोई हो, जो पुराने या क्षतिग्रस्त स्पिनरेटों में अंतर्विष्ट सोने, प्लेटिनम या रोडियम की अपनी-अपनी मात्रा से अधिक है ; और  
(ग) ऐसी स्पिनरेटों के विनिमय के लिए संदत्त कोई अन्य प्रभार ; और  
(ii) दोनों ही ओर के बीमा और भाड़ा प्रभार।
2. छूट किसी अधिकारी के, जो अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त उत्पाद की पंक्ति से नीचे का न हो, समाधानप्रद रूप में यह साबित करने के अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी कि ऐसे माल की निकासी सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आशयित उपयोग के लिए है।
3. जहां ऐसा उपयोग उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र है, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाया जाना) नियम, 2001 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
4. यदि उस जिले के, जिसमें संयंत्र अवस्थित है, कलक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा जारी किया

गया इस आशय का प्रमाणपत्र कि ऐसा माल सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आशयित उपयोग के लिए निकासी किया गया है, अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को पेश किया जाता है।-

5. यदि चेसिस पर संदत्त शुल्क का कोई प्रत्यय नहीं किया गया है और कम्प्रेसर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन लिया गया है।

6. यदि —

(i) माल शीर्ष सं० 8523 के अधीन आने वाली अनअभिलिखित वस्तुओं से बना है ; और

(ii) (क) विक्रय के लिए आशयित नहीं है ; या

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आकाशवाणी या किसी अन्य विभाग को विक्रय या प्रदाय के लिए आशयित है ; या

(ग) दूरदर्शन को यू-मेटिक वीडियो टेप फार्मेट, जिसकी चौड़ाई 20 मिलीमीटर से कम नहीं है के रूप में विक्रय या प्रदाय के लिए आशयित है।

7. यदि—

(क) भारतीय रेल या कोंकण रेल निगम द्वारा उपयोग के लिए आशयित है ; और

(ख) उक्त माल का स्वामित्व भारतीय रेल या कोंकण रेल निगम में निहित है।

8. (क) विनिर्माता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट के साथ पठित पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर यान की निकासी के समय उत्पाद-शुल्क का संदाय करता है ;

(ख) विनिर्माता इस छूट के अधीन विनिर्दिष्ट उस रकम से आधिक्य में संदत्त शुल्क की रकम के बराबर रकम का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा जारी उत्पाद-शुल्क पूरक अनुदेश मैनुअल के भाग 5 के निबंधनों के अनुसार रखे गए चालू खाते में प्रत्यय लेता है और उसके पश्चात् उक्त मोटरयान पर शुल्क के संदाय की तारीख से छह मास की समाप्ति से पूर्व शुल्क की उक्त रकम के प्रतिदाय के लिए अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त के पास निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दावा फाइल करता है, अर्थात् :-

(1) ऐसी सूचना की दावाकृत शुल्क के प्रतिदाय की रकम विनिर्माता द्वारा अपने चालू खाते में प्रत्यय करा लिया है और इस प्रकार किए गए प्रत्यय की रकम का कथन करता है ;

(2) इस आशय के लिए संबद्ध राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणपत्र कि उक्त मोटर यान, यथास्थिति, एम्बुलेंस या टैक्सी के रूप में एकमात्र उपयोग के लिए उक्त मोटर यान के विनिर्माता के कारखाने से निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो तीन मास से अधिक की न होगी, जिसे यथास्थिति, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त अनुज्ञात करे, रजिस्ट्रीकृत करा लिया गया है।

(3) जैसा ऊपर पैरा (क) में वर्णित है, उत्पाद शुल्क के संदाय के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज की प्रति ;

(4) जहां विनिर्माता ने क्रेता से इस छूट के अधीन संदेय शुल्क से अधिक रकम उत्पाद-शुल्क के रूप में वसूल कर ली है वहां इस आशय का प्रमाणपत्र कि उक्त रकम सम्यक् रूप से क्रेता को वापस कर दी गई है ; और

(5) जहां विनिर्माता ने क्रेता से इस छूट के अधीन संदेय शुल्क से अधिक रकम उत्पाद-शुल्क के रूप में वसूल नहीं की है वहां विनिर्माता द्वारा इस आशय की घोषणा ;

(ग) प्रतिदाय के लिए उक्त दावे की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, ऐसे सत्यापन के पश्चात्, जो आवश्यक हो, विनिर्माता को प्रतिदेय रकम का अवधारण करेगा और उसकी सूचना विनिर्माता को देगा। यदि विनिर्माता द्वारा किया गया प्रत्यय इस प्रकार अवधारित रकम से अधिक है तो विनिर्माता, उक्त सूचना की प्राप्ति से पांच दिन के भीतर, उसके द्वारा रखे गए उक्त चालू खाते से उक्त अधिक रकम के प्रत्यय को वापस करेगा। यदि लिया गया प्रत्यय अवधारित प्रतिदाय की रकम से कम है तो विनिर्माता अतिशेष रकम का प्रत्यय लेने का पात्र होगा ; और

(घ) अनियमित रूप से लिए गए प्रत्यय या इस प्रकार अवधारित प्रत्यय की रकम से अधिक दिए गए प्रत्यय को, जो विनिर्माता द्वारा ऊपर पैरा (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया गया है, ऐसे वसूल किया जाएगा मानो वह भूल से वापस किए गए उत्पाद शुल्क की वसूली हो। यदि ऐसे अनियमित या अधिक प्रत्यय का उपयोग उत्पाद शुल्क माल की निकासी पर उत्पाद शुल्क के संदाय के लिए किया जाता है तो उक्त माल ऐसे अनियमित या अधिक प्रत्यय के उपयोग की समाप्त तक शुल्क के संदेय के बिना निकासी किया गया माना जाएगा।

9. यदि यान शीर्ष सं० 8706 के अधीन आने वाले उस चेसिस से तैयार किया जाता है जिस पर उत्पाद-शुल्क का संदाय कर दिया गया है केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन ऐसे यान के विनिर्माण में प्रयुक्त अन्य निवेशों और ऐसी चेसिस पर संदेय शुल्क का प्रत्यय नहीं लिया गया है ;

परन्तु यह छूट उक्त यान के किसी ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं है, -

(क) जो यानों के किसी चेसिस विनिर्माता द्वारा प्रदाय किए गए ऐसे चेसिस पर विनिर्माण करता है जिसका स्वामित्व चेसिस विनिर्माता में निहित रहता है या इस प्रकार निर्मित यान विक्रय ऐसे चेसिस विनिर्माता द्वारा अपने लेखे में किया जाता है ; और

(ख) जो चेसिस का विनिर्माण कर रहा है और ऐसे चेसिस का उपयोग ऐसे यान के और विनिर्माण के लिए कर रहा है।

10. यदि केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन शीर्ष सं० 8706 के अधीन चेसिस पर संदेय शुल्क का कोई प्रत्यय नहीं किया गया है।

11. यदि, -

(i) कोई ऐसा अधिकारी, जो भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में उपसचिव से नीचे की पंक्ति का न हो, यह प्रमाणित करता है कि उक्त माल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य है ; और

(ii) कार का क्रेता यह शपथपत्र देता है कि वह उसके क्रय के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि तक कार का व्ययन नहीं करेगा।

12. यदि यान उस चेसिस और उपस्कर से तैयार किए जाते हैं जिन पर यथास्थिति, पहली अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क का संदाय कर दिया गया है।

13. यदि मालों की निकासी से पहले विनिर्माता, उसके कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को -

(क) विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल डिविजन से इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि संबंधित विदेशी

राजनयिक या कौंसलीय मिशन पारस्परिक के सिद्धांतों पर आधारित उत्पाद-शुल्क की छूट के लिए हकदार है ; और

(ख) संबंधित राजनयिक मिशन या कौंसल-कार्यालय के प्रधान या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी से यह वचनबंध प्रस्तुत करता है कि —

(i) वह मालों की निकासी की तारीख से तीन मास या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो यथास्थिति, उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त अनुज्ञात करे, इस आशय का प्रमाणपत्र कि उक्त माल, यथास्थिति, मिशन या कौंसल-कार्यालय में उपयोग के लिए रख दिए गए हैं या उपयोग में हैं,

(ii) माल का, माल की निकासी की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पहले विक्रय या अन्यथा व्ययन नहीं किया जाएगा ; और

(iii) उपखंड (i) का अनुपालन न करने की दशा में राजनयिक या कौंसलीय मिशन उस शुल्क का संदाय करेगा, जो उस छूट के न होने पर माल की निकासी के समय उद्ग्रहणीय होती ।

14. यदि, -

(क) माल राजनयिक अभिकर्ताओं/कैरियर कौंसलीय अधिकारियों द्वारा सीधे विनिर्माता से खरीदा जाता है ;

(ख) कारखाने से माल की निकासी किए जाने से पूर्व विनिर्माता अपने कारखाने के ऊपर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिवाजन से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि संबद्ध राजनयिक अभिकर्ता या कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिक पारस्परिकता के सिद्धांतों पर उत्पाद-शुल्क से छूट का हकदार है ; और

(ग) छूट प्राप्त करने वाला संबद्ध राजनयिक अभिकर्ता/कैरियर कौंसलीय अधिकारी उसके कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को वचनबंध देता है कि माल उसके निजी उपयोग के लिए रखा जाता है ।

15. यदि, -

(i) ओजोन ह्रास पदार्थों के प्रतिस्थापन के प्रयोजन के लिए या गैर ओजोन ह्रास पदार्थों की टेक्नोलॉजी सहित नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए परियोजना ऐसी परियोजनाओं की निकासी के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में गठित संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है ;

(ii) प्रत्येक मामले में विनिर्माणकर्ता किसी ऐसी अधिकारी से जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में उप सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करता है कि उक्त माल उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

16.

यदि माल की निकासी से पूर्व विनिर्माता, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी से इस छूट के अनुदान की सिफारिश करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है और उक्त अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि माल वायु प्रचालित विद्युत जनरेटरों के लिए रोटरी ब्लेडों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित है ।

17. यदि, यथास्थिति, पहली अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय चेसिस पर उत्पाद शुल्क या दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क का संदाय कर दिया गया है।
18. यदि, माल की निकासी से पूर्व, विनिर्माता, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या निदेशक (सेलिंग स्टाक, इलेक्ट्रीकल और सिग्नलिंग) से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि—
  - (i) माल दिल्ली एमआरटीएस परियोजना में उपयोग के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा या उसकी ओर से उपाप्त किया जाता है ; और
  - (ii) माल दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रखी गई इन्वेटरी का भाग है और उसका स्वामित्व अंतिम रूप से दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड का ही होगा।
19. यदि माल सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क और उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन, जब भारत में आयात किया जाए, उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से छूट प्राप्त है।
20. यदि माल की निकासी से पूर्व विनिर्माता भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से निदेशक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उपाप्त माल टूना फिशिंग के मोनो फिलामेंट लांग लाइन प्रणाली का एक भाग है और यह टूना फिशिंग के उपयोग के लिए आशयित हैं।

#### सूची 1

(सारणी का क्रम सं० 1 देखिए)

- (1) नारियल भूसी दलित्र
- (2) नारियल भूसी डिफाइबरिंग मिल
- (3) सिफ्टर या सीवर (गूदा से कॉयर फाइबर को अलग करने के लिए)
- (4) टर्बो क्लीनर (फाइबर को साफ करने के लिए)
- (5) बेलिंग प्रैस
- (6) विलोइंग मशीन (कताई के लिए फाइबर को साफ और तैयार करने के लिए)
- (7) मोटरकृत कताई रैट

#### सूची 2

(सारणी का क्रम सं० 3 देखिए)

- (1) सूत/फैब्रिक मर्सराइजिंग मशीन
- (2) निरंतर विरंजक संयंत्र
- (3) डाइ किचन और उपसाधनों से युक्त संपूर्ण फैब्रिक डाइंग मशीन
- (4) वैट फैब्रिक स्प्रेडिंग और स्क्वीजिंग मशीन

- (5) रिफ़्लेक्स ड्रम/कनवेयर ड्राइंग मशीन (i) ड्राइंग रेंज, (ii) फ्लोट ड्रायर्स, (iii) लूप ड्रायर्स, (iv) ड्रम ड्रायर्स, (v) जेट ड्रायर्स, (vi) रेपिड ड्रायर्स
- (6) कम्पैक्टिंग मशीन
- (7) डाइ किचन और उपसाधनों से युक्त एच टी एच पी होजरी यार्न डाइंग मशीन
- (8) साफ्ट पैकेज वाइंडर (डाइपैकेज वाइंडर)
- (9) आटोमेटिक डाइ वेइंग और डिसपेन्सिंग मशीन
- (10) ओपन विड्थ ट्यूबूलर इंस्पेक्शन मशीन
- (11) फास्टनेस टेस्टिंग उपस्कर
- (12) सिकुड़न परीक्षण उपस्कर
- (13) इंडिंगो डाइंग या साइजिंग संयंत्र के साथ/बिना
- (14) कंप्यूटर रंग मिलान उपस्कर
- (15) उच्च गति कंप्यूटर नियंत्रण पैडिंग मैंगल
- (16) पाउडर डाट कटिंग मशीन
- (17) लेजर एंग्रेवर
- (18) सादा और व्यूतित माल के लिए पूर्व संकुचन रेंज
- (19) निट-ट्यूबूलर मर्सराइजिंग या विरंजक सह मर्सराइजिंग मशीन
- (20) सादे और व्यूतित कैंब्रिकों के लिए आटो फ्लेम कंट्रोल, चौड़ाई नियंत्रित सिजिंग मशीन
- (21) मिलिंग और स्कोरिंग मशीन
- (22) शियरिंग और पालिशिंग मशीन
- (23) कीर डिकेटाइसिंग/डिकेटाइसिंग मशीन
- (24) संयुक्त काउंट्री प्रेस/डिकेटाइसिंग मशीन
- (25) आटो कैंब्रिक डेटविस्टर
- (26) रोटरी/फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन
- (27) क्योरिंग/पालीमराइजिंग मशीन
- (28) कन्टीन्यूयस रोप/ओपन विड्थ वाशिंग मशीन
- (29) कंप्यूटरीकृत कसीदाकारी प्लोटर सहित पैटर्न मेकिंग मशीन
- (30) कंबाइंड कॉटी प्रेस/डिकेटाइसिंग मशीन
- (31) आटो कंट्रोल टाइप ह्यूमीडिफिकेशन संयंत्र
- (32) बीम निटिंग मशीन
- (33) यार्न टेन्शनिंग सहित उच्च गति लपेटन मशीन, न्यूमेटिक सक्शन युक्तियां और साधित्र
- (34) कंप्यूटरीकृत पैटर्न मेकर/पैटर्न ग्रेडिंग/मार्कर
- (35) कार्डिंग सैट, ऊनी टेक्सटाइल उद्योग में उपयोग के लिए



- (36) बायोपैक रिक्क्टर सहित बहिस्त्राव उपचार यूनिट, एक्टीवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टीवेटेड कार्बन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ओजोनाइजेशन सुविधाएं
- (37) सटललैस लूम (ऐयर जेट, वाटर जेट, रिपेयर और प्रोजेक्ट टाइल तथा नेरो विंड्थ हाई स्पीड नीडिल)
- (38) फुली फैशन्ड हाई स्पीड निटिंग मशीन
- (39) हाइड्रोलिक फ्लैट पेपर प्रेस/ कन्टीन्यूअस हाइड्रोलिक फ्लैट पेपर प्रेस/रोटरी प्रेस
- (40) आटोमेटिक सेंसिंग युक्तियों सहित बहिस्त्राव उपचार यूनिट, आटोमेटिक कंट्रोल्ड केमिकल डोजिंग, डिजाइन्ड एयर फ्लोटेशन (डी ए एफ), पुनः उपयोग के लिए जल प्रदान करने हेतु, रिवर्स आसमोसिस, स्लज डिवाटरिंग, डिक्कैटर्स, अल्ट्राफिल्टर्स, वैक्यूम फिल्टर्स

### सूची 3

(सारणी का क्रम सं० 4 देखिए)

- (1) कन्टीन्यूअस हाट एयर ड्रायर (कन्वेयर टाइप) सहित सिल्क के रीलिंग के लिए आटोमेटिक रीलिंग मशीन, कन्टीन्यूअस कोकून बॉयलिंग मशीन (कन्वेयर टाइप) और रीलिंग सहित आटोमेटिक रीलिंग मशीन
- (2) हैंड-टू बोबिन कोन वाइंडर्स सहित सिल्क विविंग और ट्वीस्टिंग मशीन, सिल्क डबलिंग मशीन, टू-फोर-वन/थ्री-फोर-वन ट्वीस्टर्स, बोबिन हैंड टू के लिए वेक्यूम आटोक्लेव और रिवाइंडिंग मशीन और इलेक्ट्रानिक जैक्वार्ड वेफ्ट निटिंग मशीन
- (3) हैंक डेगूमिंग डाइंग के लिए आर्म डाइंग मशीन
- (4) हैंक ड्रायर्स (कंटीन्यूअस टाइप)
- (5) सिल्क फेल्ड क्लैंडर्स
- (6) क्लिप स्टैंटर
- (7) सिल्क क्लैंडर्स
- (8) सिल्क डिक्वास्टिंग मशीन
- (9) सिल्क फैब्रिक डाइंग के लिए ओवर फ्लो मशीन
- (10) कोन-चीज डिगूमिंग और डाइंग मशीन
- (11) सिल्क फैब्रिक के लिए बीम डाइंग मशीन
- (12) सेमी-आटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन
- (13) लूप एजर्स
- (14) डिजाइन स्टूडियो उपस्कर
- (15) कलर किचन उपस्कर
- (16) कलर मैचिंग कम्प्यूटर

## सूची 4

(सारणी का क्रम सं० 5 देखिए)

- (1) गैस संपीडित्र, सभी प्रकार के
- (2) फ्लाईव्हील और पूली
- (3) द्रुक प्रसीदन एकक
- (4) वाक-इन-कूलर्स/वाक-इन-फ्रीजर
- (5) संघनन एकक
- (6) वाष्पित्र
- (7) तेल पृथक्ृत
- (8) रिसीवर
- (9) पर्जर
- (10) वायु शीतन एकक/वायु हैंडलिंग यूनिट, सभी प्रकार के
- (11) वाष्पित्र कुंडलियां सभी प्रकार के
- (12) प्लेट फ्रीजर
- (13) ब्लास्ट फ्रीजर
- (14) आईक्यूएफ फ्रीजर
- (15) शीतन टावर
- (16) संघलनक-वायुमंडलीय/शैल और ट्यूब/वाष्पनिक
- (17) वाल्व और फिटिंग
- (18) गतिशील पूर्व-शीतन उपस्कर
- (19) स्टेशनरी पूर्व-शीतन उपस्कर
- (20) कंट्रोल एटमोस्फियर/माडिफाइड एटमोस्फियर कोल्ड स्टोरेज के लिए नियंत्रण उपस्कर

## सूची 5

(सारणी का क्रम सं० 78 देखिए)

- (1) फ्लैट प्लेट सौर संग्रहक
- (2) काली नियमित रूप से प्लेट की हुई सौर चयनित कोटिंग शीट (लंबाई या कायल्स में कटी हुई) और फिन तथा ट्यूब
- (3) सकेन्द्रित करने वाला और पाइल की तरह का सौर संग्राहक
- (4) सौर कुकर
- (5) सौर जल तापक और प्रणाली

- (6) सौर वायु तापक और प्रणाली
- (7) सौर निम्न दाब वाष्प प्रणाली
- (8) सौर/स्टिल्स और विलवणीकरण प्रणाली
- (9) सौर ऊर्जा और सौर फोटोवोल्टाइक संपरिवर्तन पर आधारित सौर पंप
- (10) सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली
- (11) सौर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स और पनेल्स, वाटर पम्पिंग के लिए और अन्य उपयोग
- (12) फसल सुखाने वाला सौर यंत्र और प्रणाली
- (13) वायु चालित विद्युत जनित्र उनके संघटक और उनके पुर्जों जिनके अंतर्गत रोटर और विंड टर्बाइन नियंत्रक भा है।
- (14) ज. र. पंप वाली पवन मिलें, पवन ऐरो - जनित्र और बैटरी चार्जर
- (15) बायो गैस संयंत्र और बायोगैस इंजिन
- (16) कृषि, वन, कृषि उद्योग, औद्योगिक, नगर पालिका और नगर के अवशिष्ट को संपरिवर्तन करने वाली युक्तियां जिनसे ऊर्जा पैदा होती है
- (17) समुद्री लहरों की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उपस्कर
- (18) सौर लालटेन
- (19) समुद्री ताप ऊर्जा संपरिवर्तन प्रणाली
- (20) सौर फोटोवोल्टाइक सैल
- (21) ऊपर क्रम सं० 1 से 20 पर विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए ऐसे पुर्जों के उत्पादन के लिए कारखाने के भीतर उपयोग किए गए पुर्जें

**सूची 6**  
(सारणी की क्रम सं० 86 देखिए)

- (1) टैरिफ मद 3907 30 90 के अधीन आने वाले इंजेक्शन, रेजिन
- (2) टैरिफ मद 3907 30 90 के अधीन आने वाले हार्डनर रेजिन इंजेक्शन
- (3) टैरिफ मद 3907 30 90 के अधीन आने वाले हैंड ले अप रेजिन
- (4) टैरिफ मद 3907 30 90 के अधीन आने वाले इन्फ्यूजन रेजिन
- (5) टैरिफ मद 3907 30 10 के अधीन आने वाले इपाक्सी रेजिन
- (6) टैरिफ मद 3907 99 90 के अधीन आने वाले आसंजक रेजिन
- (7) टैरिफ मद 3905 99 90 के अधीन आने वाले दिनायल इस्टर आसंजक
- (8) टैरिफ मद 3824 90 90 के अधीन आने वाले आसंजक रेजिन के लिए हार्डनर
- (9) टैरिफ मद 3824 90 90 के अधीन आने वाले हार्डनर
- (10) टैरिफ मद 3921 90 99 के अधीन आने वाले फोम किट
- (11) टैरिफ मद 3921 90 99 के अधीन आने वाले पीवीसी फोम शीट और पीएस फोम
- (12) टैरिफ मद 4421 90 90 के अधीन आने वाले बालसा किट
- (13) शीर्ष 7019 के अधीन आने वाले ग्लास फाइबर और उनकी वस्तुएं

- (14) टैरिफ मद 3208 20 90 के अधीन आने वाले पीयू पेंटिंग पद्धति
- (15) टैरिफ मद 3208 20 90 के अधीन आने वाले जेल कोट
- (16) शीर्ष 3824 90 के अधीन आने वाले रेजिन बाइन्डर्स

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

Notification

No.6/2006-Central Excise

New Delhi, the 1st March 2006.

10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 96(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table given below read with the relevant List appended hereto, as the case may be, and falling within the Chapter, heading or subheading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the Central Excise Tariff Act), as are given in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise specified thereon under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table and subject to the relevant conditions specified in the Annexure to this notification, and condition number of which is referred to in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to goods specified against S.No.10 of the said Table on or after the 1st day of May 2007.

*Explanation:*—For the purposes of this notification, the rates specified in columns (4) of the said Table are *ad valorem* rates, unless otherwise specified.

**TABLE**

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of excisable goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	84	The Coir processing machinery specified in List 1, supplied under Integrated Coir Development Project being implemented by the Government of Kerala	Nil	—
2.	84	Spinnerettes made, <i>inter alia</i> , of Gold, Platinum and Rhodium or any one or more of these metals, when cleared in exchange of worn-out or damaged spinnerettes	16%	1
3.	84, 85, 90 or any other Chapter	Machinery or equipment specified in List 2	Nil	—
4.	84 or any other Chapter	Machinery or equipment for use in silk textile industry as specified in List 3	Nil	—
5.	84 or any other Chapter	Goods specified in List 4 intended to be used for the installation of a cold storage, cold room or refrigerated vehicle, for the preservation, storage or transport of agricultural produce.	Nil	2 and 3
6.	8413 91 40 or 8414 90	Parts of hand pumps	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	84 or any other Chapter	The following goods, namely:- (1) All items of machinery, including instruments, apparatus and appliances, auxiliary equipment and their components/ parts required for setting up of water treatment plants; (2) Pipes needed for delivery of water from its source to the plant and from there to the storage facility. <i>Explanation.</i> -For the purposes of this exemption, water treatment plants includes a plant for desalination, demineralization or purification of water or for carrying out any similar process or processes intended to make the water fit for human or animal consumption, but does not include a plant supplying water for industrial purposes.	Nil	4
8.	8414 90 12	Parts of bicycle pumps	Nil	—
9.	8430 or 8705	(i) Drilling rigs falling under heading 8430, mounted on motor vehicle chassis manufactured from chassis and compressor on which the duty of excise leviable under the First Schedule has already been paid; (ii) Drilling rigs mounted on motor vehicle chassis falling under heading 8705, manufactured from chassis and compressor on which the duty of excise leviable under the First Schedule has already been paid. <i>Explanation.</i> -For the purposes of entries (i) and (ii), value of the drilling rig shall be its value, excluding the value of the chassis and compressor used in such drilling rig.	16%	5
10.	84 or 85	Machinery or equipment, specified in List 32A appended to notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, [G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002], for use in the plantation sector	Nil	—
11.	8434	All goods	Nil	—
12.	8443	High speed cold-set web offset rotary double width four plate wide printing machines with a minimum speed of 70,000 copies per hour	Nil	—
13.	8445, 8448, 8483 (except 8483 10 10) 8484 8485 90 00	Goods required by a jute mill for making jute textiles	Nil	2
14.	8446	Automatic shuttle or shuttleless looms	Nil	—
15.	8452	Sewing machines, other than those with in-built motors	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	8471	Computers	12%	—
<p><i>Explanation.</i>—For the purposes of this exemption, “computer” shall include central processing unit (CPU) cleared separately; or CPU with monitor, mouse and key board, cleared together as a set; but shall not include input or output devices or accessories such as monitor, key board, mouse, modem, uninterrupted power supply system, or web camera cleared separately</p>				
17.	8471 70 or 8473 30	The following goods, namely:- (a) Microprocessor for computer, other than motherboards; (b) Floppy disc drive; (c) Hard disc drive; (d) CD-ROM drive (e) DVD Drive; (f) USB Flash memory (g) Combo drive	Nil	—
18.	8481 80 41 or 8481 90 10	All goods	Nil	—
19.	84 or 90	The following goods, namely:- (i) Electronic milk fat tester; and (ii) Electronic solid non-fat (SNF) tester.	8%	—
20.	8512	Dynamos, head lamps, side lamps, tail lamps of vehicles of heading 8712	Nil	—
21.	8519 99 40, 8520 90 90 or 8521 90 90	MP3 Player or MPEG 4Player	8%	—
22.	8524	The following goods, namely:- (a) Recorded audio compact discs (CDs); (b) Recorded video compact discs (VCDs); (c) Recorded digital video discs (DVDs)	Nil	—
23.	8524	Recorded video cassettes intended for television broadcasting and supplied in formats such as Umatic, Betacam or any similar format	Nil	—
24.	8524	Audio cassettes	Nil	—
25.	8524	The following goods, namely:- (a) sound recorded magnetic tapes of width not exceeding 6.5 millimeters, whether in spools, or reels or in other form of packing (b) television and sound recording media such as video tapes and video discs	Nil	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	8524	CD-ROMs containing books of an educational nature, journal, periodicals (magazines) or news paper	Nil	—
27.	8524	Any customized software (that is to say, any custom designed software, developed for a specific user or client), other than packaged software or canned software <i>Explanation.</i> — For the purposes of this entry, “packaged software or canned software” means a software developed to meet the needs of variety of users, and which is intended for sale or capable of being sold, off the shelf	Nil	—
28.	8525 20	Cellular Phones and Radio trunking terminals	Nil	—
29.	8527 90 11	Portable receivers for calling, alerting or paging	8%	—
30.	8528	All goods	16%	—
31.	8529 90 90	Parts, components and accessories of mobile handsets including cellular phones	Nil	3
32.	8539 31 10	Compact Fluorescent Lamps (CFL)	8%	-
33.	8601 to 8606	All goods (except Railway track machines falling under tariff item 8604 00 00)	Nil	7
34.	87	The following goods:- (i) Motor vehicles falling under headings 8702 and 8703 for transport of upto 13 persons, including the driver (other than three wheeled motor vehicles for transport of upto 7 persons), which after clearance has been registered for use solely as ambulance; (ii) Motor vehicles falling under heading 8703 for transport of 7 persons, including the driver (other than three wheeled motor vehicles), which after clearance has been registered for use solely as taxi	16% 16%	8 8
35.	87	Electrically operated vehicles, namely, trolley buses, platform trucks, works trucks, tow tractors, two or three wheeled motor vehicles; and battery powered road vehicles <i>Explanation.</i> —For the purposes of this exemption, “electrically operated trolley buses” means trolley buses which are run solely on electrical energy derived from an external source, and “electrically operated platform trucks”, “electrically operated work trucks” and “electrically operated tow tractors” respectively means platform trucks, work trucks or tow tractors which are run solely on electrical energy derived from one or more electrical batteries which are fitted to such vehicles and “battery powered road vehicles” means road vehicles which are run solely on electrical energy derived from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles.	8%	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.	8706 00 21 or 8706 00 39	Chassis for use in the manufacture of battery powered road vehicles	16%	3
37.	8706 00 43 or 8706 00 49	Chassis for use in the manufacture of battery powered road vehicles	16% + Rs. 10,000/- per chasis	3
38.	87	Motor vehicles fitted with diesel generating sets intended for supply to the Ministry of Defence for official purposes. <i>Explanation.</i> —For the purposes of this exemption, value of motor vehicle shall be deemed to be equal to the value of the generating set fitted to such vehicle	Rate of duty applicable on the diesel generating set fitted on the motor vehicle	—
39.	87	(i) Motor vehicles principally designed for the transport of more than six persons, excluding the driver, including station wagons; and (ii) Motor vehicles for the transport of goods (other than those specially designed for the transport of compressed or liquefied gases), falling under heading 8704; and (iii) three wheeled motor vehicles	Nil	9
40.	8701	All goods (except road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc)	Nil	—
41.	8702, 8703, 8704 or 8716	(1) Motor vehicles manufactured by a manufacturer, other than the manufacturer of the chassis— (i) for the transport of more than six persons but not more than twelve persons, excluding the driver, including station wagons; (ii) for the transport of more than twelve persons, excluding the driver; (iii) for the transport of not more than six persons, excluding the driver, including station wagons; (iv) for the transport of goods, other than petrol driven; (v) for the transport of goods, other than mentioned against (iv) above. (2) Vehicles of heading 8716 manufactured by a manufacturer, other than the manufacturer of the chassis.	24% 16% 24% 16% 24%	10 — — — —
		<i>Explanation.</i> —For the purposes of entries (1) and (2), the value of vehicle shall be the value of the vehicle excluding the value of the chassis used in such vehicle.		10



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.	8702, 8703	Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely:-- (i) Petrol driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc; and (ii) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made thereunder.	16%	—
43.	8703	Three wheeled vehicles for transport of not more than 7 persons, including the driver	16%	—
44.	8704	The following goods, namely:-- (i) Three wheeled motor vehicles (ii) Motor vehicles, other than petrol driven (iii) Dumpers designed,- (a) for use off the highway; (b) with net weight (excluding payload) exceeding 8 tonnes; and (c) for maximum pay-load capacity not less than 10 tonnes	16%	—
45.	8706 00 43	For dumpers, other than petrol driven, other than those designed,- (a) for use off the highway; (b) with net weight (excluding payload) exceeding 8 tonnes; and (c) for maximum pay-load capacity not less than 10 tonnes	16%+ Rs.10, 000	—
46.	8702,8703,8704	Three or more axled motor vehicles for transport of goods or for transport of 8 or more persons, including the driver (other than articulated vehicle) <i>Explanation.-</i> For the purposes of this exemption, "articulated vehicle" means a motor vehicle to which a trailer is attached in such a manner that part of the trailer is superimposed on, and a part of the weight of the trailer is borne by the motor vehicle.	16%	-
47.	8706 00 21 or 8706 00 39	Chassis for three or more axled motor vehicle (other than chassis for articulated vehicle).	16%	-
48.	8706 00 43 or 8706 00 49	Chassis for three or more axled motor vehicle (other than chassis for articulated vehicle).	16% + Rs. 10,000/- per chassis	-
49.	8703	Cars (for the transport of upto 7 persons, including the driver) for physically handicapped persons	8%	11
50.	8705	Special purpose motor vehicles	Nil	12
51.	8706 00 43 or 8706 00 49	Motor chassis for vehicles of heading 8704 (other than petrol driven) fitted with engines, whether or not with cab	16%+ Rs.10, 000 per chassis	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52.	8709	Tractors of the type used on railway station platforms, on which weightlifting or other specialised material handling equipment is mounted, fitted or fixed <i>Explanation.</i> -For the purposes of this exemption, the value of tractors shall be the value of the tractors excluding the value of weightlifting or other specialised material handling equipment mounted, fitted or fixed on them	16%	—
53.	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8712 and 8713	Nil	—
54.	8716	Trailers fitted with diesel generating sets intended for supply to the Ministry of Defence for official purposes. <i>Explanation.</i> -For the purposes of this exemption, value of trailer shall be equal to the value of the generating set fitted to such trailer.	Rate of duty applicable on the diesel generating set fitted on the trailer.	—
55.	9001 40 9001 50 00, or 9001 90 90	Spectacle lenses and intraocular lenses	Nil	—
56.	9003	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, of value below Rs 500 per piece.	8%	—
57.	9004 90	All goods (other than sunglasses for correcting vision and goggles)	Nil	—
58.	9017	Parts of drawing and mathematical instruments, used in the manufacture of such drawing and mathematical instruments	8%	3
59.	9018 or 9019 or 9022	(i) Parts and accessories of goods of headings 9018 and 9019 (ii) Parts and accessories of apparatus for medical, surgical, dental or veterinary use, falling under heading 9022	Nil Nil	— —
60.	90 or any other Chapter	Parts and accessories of medical equipment and other goods specified in List 1 annexed to notification No. 10 /2006-Central Excise, dated the 1 <sup>st</sup> March, 2006	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61.	90 or any other Chapter	The following goods, namely:- (a) Medical equipment (excluding Foley Balloon Catheters) and other goods, specified in List 37 appended to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No.21/2002-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002, (G.S.R. 118(E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002) (b) Accessories of the medical equipment at (A) above (c) Parts required for the manufacture of the medical equipment at (A) above (d) Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) Fluid contained in a solution bag with or without tubing system (e) Accessories of (d) above (f) Parts required for the manufacture of (d) above	Nil  Nil Nil Nil Nil Nil	—  — 3 — — 3
62.	90 or any other Chapter	The following goods, namely:- (A) Medical equipment and other goods, specified in List 38 appended to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No.21/2002-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002, (G.S.R. 118(E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002); (B) Parts required for the manufacture of the medical equipment at (a) above;	Nil  Nil	—  3
63.	90 or any other Chapter	The following goods, namely:- (a) Medical equipment and other goods, specified in List 39 appended to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No.21/2002-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002, (G.S.R. 118(E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002) (b) Accessories of the medical equipment at (a) above (c) Parts required for the manufacture of the medical equipment at (a) above	Nil  Nil Nil	—  — 3
64.	90 or any other Chapter	Goods required for Tubal Occlusion specified in List 40 appended to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No.21/2002-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002, (G.S.R. 118(E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002)	Nil	—
65.	90 or any other Chapter	Blood Glucose Monitoring System (Glucometer) and test strips	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
66.	90 or any other Chapter	Artificial kidney	Nil	—
67.	90 or any Chapter	Parts of the following goods, namely:- (i) Crutches (ii) Wheel chairs (iii) Walking frames (iv) Tricycles (v) Brailers (vi) Artificial limbs	Nil	—
68.	90 or any other Chapter	Assistive devices, rehabilitation aids and other goods for disabled, specified in List 41 appended to notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, [G.S.R. 118(E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 2002]	Nil	—
69.	9027	Kits manufactured by M/s. Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, for testing narcotic drugs and psychotropic substances <i>Explanation.</i> -For the purposes of this exemption,- (a) "narcotic drugs" and "psychotropic substances" shall have the meanings respectively assigned to them in clause (xiv) and clause (xxiii) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985); (b) "kits for testing narcotic drugs and psychotropic substances" means kits consisting of chemical reagents in small bottles for testing narcotic drugs and psychotropic substances manufactured by M/s. Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, including test tubes droppers, test plates and similar other accessories supplied with such kits.	Nil	—
70.	9402	Medical, surgical, dental or veterinary furniture and parts thereof	8%	—
71.	9404	Coir products	Nil	—
72.	9405 91 00, 9405 92 00 or 9405 99 00	Parts of kerosene pressure lanterns including gas mantles for use in kerosene pressure lanterns	Nil	—
73.	9501, 9502 or 9503	Parts and accessories	Nil	—
74.	95	Sports goods <i>Explanation.</i> - "Sports goods" for the purposes of this entry do not cover articles and equipment for general physical exercise.	Nil	—
75.	9603	All goods other than tooth brushes	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76.	9608	Following goods, namely:- (i) Pens of value not exceeding Rs. 200 per piece (ii) Ball point pens of value not exceeding Rs. 200 per piece (iii) Refills (for ball point pens) of value not exceeding Rs. 200 per piece	Nil	—
77.	9608	Following goods, namely:- (i) Parts of pens (ii) Parts (excluding refills) of ball point pens (iii) Parts of refills of ball point pens	Nil	—
78.	9608 or 9609	Parts of pencils including clutch pencils used in the manufacture of such pencils including clutch pencils	Nil	3
79.	9608	Pencils	Nil	—
80.	Any Chapter	Parts used within the factory of production for manufacture of power tillers of heading 8432	Nil	—
81.	Any Chapter	Goods supplied for,- (a) the official use of foreign diplomatic or consular missions in India; (b) the personal use of diplomatic agents/ career consular officers in India.	Nil	13 14
82.	Any Chapter	(i) Cement Bonded Particle Board (ii) Jute Particle Board (iii) Rice Husk Board (iv) Glass-fibre Reinforced Gypsum Board (GRG) (v) Sisal-fibre Boards (vi) Bagasse Board	Nil	—
83.	Any Chapter	Goods required for,- (a) the substitution of ozone depleting substances (ODS); (b) the setting up of new projects with non-ozone depleting substances (non-ODS) technologies. <i>Explanation.-</i> "Goods" for the purposes of this exemption means goods which are designed exclusively for non-ozone depleting substances (non-ODS) technology.	Nil	15
84.	Any Chapter	Non-conventional energy devices/ systems specified in List 5	Nil	—
85.	32,38,39, 44 or 70	Goods specified in List 6, for the manufacture of rotor blades for wind operated electricity generators	Nil	16
86.	Any Chapter	Parts used within the factory of production or in any other factory of the same manufacturer in the manufacture of goods falling under headings 8601 to 8606 (except Railway track machines falling under tariff item 8604 00 00)	Nil	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
87.	Any Chapter	All goods manufactured in a factory and used within the same factory for building a body or fabrication or mounting or fitting of structure or equipment on a chassis falling under heading 8706 of a motor vehicle of Chapter 87	Nil	17
88.	Any Chapter	Parts of aeroplanes or helicopters required for manufacture or servicing of aeroplanes or helicopter (other than rubber tyres and tubes for aeroplanes) <i>Explanation.</i> —For the purposes of this exemption parts of aeroplanes or helicopters shall include engines, engine parts, wireless transmission apparatus, wireless receivers, iron and steel washers and screws, ball and roller bearings and other parts falling within the First Schedule or the Second Schedule, as the case may be.	Nil	—
89.	Any Chapter	Parts of hearing aids	Nil	—
90.	Any Chapter	All items of equipment including machinery and rolling stock, procured by or on behalf of Delhi Metro Rail Corporation Ltd. for use in the Delhi MRTS Project	Nil	18
91.	Any Chapter	All goods supplied against International Competitive Bidding.	Nil	19
92.	Any Chapter	Parts, used within the factory of production for manufacture of goods of heading 8701	Nil	—
93.	Any Chapter	Monofilament long line system for tuna fishing	Nil	20

**ANNEXURE**

Condition No.	Conditions
1.	The duty would be leviable as if the value of the spinnerettes were equal to- (i) the cost of exchange, that is to say, the aggregate of- (a) labour charges; (b) price charged for that quantity of gold, platinum and rhodium, if any, which is in excess of the respective quantity of gold, platinum or rhodium contained in the worn out or damaged spinnerettes; and (c) any other charges paid for the exchange of such spinnerettes; and (ii) the insurance and freight charges, both ways.
2.	The exemption shall be allowed if it has been proved to the satisfaction of an officer not below the rank of the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction, that such goods are cleared for the intended use specified in column (3) of the Table.
3.	Where such use is elsewhere than in the factory of production, the exemption shall be allowed if the procedure laid down in the Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 2001, is followed.
4.	If, a certificate issued by the Collector/ District Magistrate/ Deputy Commissioner of the District in which the plant is located, is produced to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction, to the effect that such goods are cleared for the intended use specified in column (3) of the Table.
5.	If no credit of duty paid on the chassis and compressor has been taken under rule 3 or rule 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002.

6. If,-
- (i) made from unrecorded articles falling under heading 8523; and
  - (ii) (a) not intended for sale; or
  - (b) intended for sale or supply to All India Radio or any other Department of Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting; or
  - (c) intended for sale or supply, in the form of U-matic video tapes formats of width not less than 19 millimetres, to Doordarshan.
7. If,-
- (a) intended for use by the Indian Railways or the Konkan Railway Corporation; and
  - (b) the ownership of the said goods vests in the Indian Railways or the Konkan Railway Corporation.
8. (a) The manufacturer pays duties of excise at the rate specified under the First Schedule and the Second Schedule read with exemption contained in any notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), at the time of clearance of the vehicle;
- (b) the manufacturer takes credit of the amount equal to the amount of duty paid in excess of that specified under this exemption, in the Account Current, maintained in terms of Part V of the Excise Manual of Supplementary Instructions issued by the Central Board of Excise and Customs and thereafter files a claim for refund of the said amount of duty before the expiry of six months from the date of payment of duty on the said motor vehicle, with the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction, along with the following documents, namely:-
- (1) an intimation that the amount of refund of duty claimed has been credited by the manufacturer in his Account Current, also stating the amount of credit so taken;
  - (2) a certificate from an officer authorized by the concerned State Transport Authority, to the effect that the said motor vehicle has been registered for sole use as ambulance or taxi, as the case may be, within three months, or such extended period not exceeding a further period of three months as the said Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, may allow, from the date of clearance of the said motor vehicle from the factory of the manufacturer;
  - (3) a copy of the document evidencing the payment of excise duty, as mentioned in paragraph (a) above;
  - (4) where the manufacturer has collected an amount, as representing the duties of excise, in excess of the duties payable under this exemption from the buyer, an evidence to the effect that the said amount has been duly returned to the buyer; and
  - (5) where the manufacturer has not collected an amount, as representing the duties of excise, in excess of the duties payable under this exemption from the buyer, a declaration by the manufacturer to that effect;
- (c) Within seven days of the receipt of the said claim for refund, the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, after such verification, as may be necessary, shall determine the amount refundable to the manufacturer and shall intimate the same to the manufacturer. In case the credit taken by the manufacturer is in excess of the amount so determined, the manufacturer shall, within five days from the receipt of the said intimation, reverse the said excess credit from the said Account Current maintained by him. In case the credit availed is lesser than the amount of refund determined, the manufacturer shall be eligible to take credit of the balance amount; and
- (d) The recovery of the credit availed irregularly or availed in excess of the amount of credit so determined, and not reversed by the manufacturer within the period specified

under paragraph (c) above, shall be recovered as if it is a recovery of duty of excise erroneously refunded. In case such irregular or excess credit is utilized for payment of excise duty on clearance of excisable goods, the said goods shall be considered to have been cleared without payment of duty to the extent of utilization of such irregular or excess credit.

9. If manufactured out of chassis falling under heading 8706 on which duty of excise has been paid and no credit of duty paid on such chassis and other inputs used in the manufacture of such vehicle has been taken under rule 3 or rule 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002:  
Provided that this exemption is not applicable to a manufacturer of said vehicles-
  - (a) who is manufacturing such vehicle on a chassis supplied by a chassis manufacturer, the ownership of which remains vested in the chassis manufacturer or the sale of the vehicle so manufactured is made by such chassis manufacturer on his account; and
  - (b) who is manufacturing chassis and using such chassis for further manufacture of such vehicle.
10. If no credit of duty paid on the chassis falling under heading 8706 has been taken under rule 3 or rule 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002.
11. If,-
  - (i) an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods are capable of being used by the physically handicapped persons; and
  - (ii) the buyer of the car gives an affidavit that he shall not dispose of the car for a period of five years after its purchase.
12. If manufactured out of chassis and equipment, on which the duty of excise leviable under the First Schedule or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid.
13. If, before the clearance of the goods, the manufacturer produces to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over his factory-
  - (a) a certificate from the Protocol Division of the Ministry of External Affairs that the concerned foreign diplomatic or consular mission is entitled to exemption from excise duty based on the principle of reciprocity; and
  - (b) an undertaking from the head of the concerned diplomatic mission or consulate or by an officer duly authorized by him, that-
    - (i) he will produce a certificate, within three months from the date of clearance of the goods or such extended period as may be permitted by the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, that the goods have been put to use, or are in the use, as the case may be, of the mission or consulate;
    - (ii) the goods will not be sold or otherwise disposed of before the expiry of three years from the date of clearance of the goods, and
    - (iii) in the event of non-compliance of sub-clause (i), the diplomatic or consular mission will pay the duty which would have been leviable at the time of clearance of goods, but for this exemption.
14. If,-
  - (a) the goods are purchased by diplomatic agents/ career consular officers directly from the manufacturer;



- (b) before the goods are cleared from the factory, the manufacturer produces to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over his factory, a certificate from the Protocol Division of the Ministry of External Affairs that the concerned diplomatic agent/ career consular officer is entitled to exemption from excise duty on the principle of reciprocity; and
  - (c) the concerned diplomatic agent/career consular officer availing of exemption gives an undertaking to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over his factory that the goods shall be put to his personal use.
15. If,-
- (i) the project for the purpose of substitution of ozone depleting substances or for setting up of new projects with non-ozone depleting substances (non-ODS) technologies has been approved by the steering committee set up in the Ministry of Environment and Forests of the Government of India for the clearance of such projects;
  - (ii) the manufacturer furnishes, in each case, a certificate duly signed by an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment and Forests to the effect that the said goods are required for the said purpose.
16. If, before clearance of the goods, the manufacturer produces to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Non-Conventional Energy Sources recommending the grant of this exemption and the said officer certifies that the goods are required for the manufacture of rotor blades for wind operated electricity generators.
17. If, duty of excise on the chassis leviable under the First Schedule or special duty of excise leviable under the Second Schedule or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975), as the case may be, has been paid.
18. If, before the clearance of the goods, the manufacturer produces to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, a certificate from the Chairman or the Managing Director or the Director (Rolling Stock, Electrical and Signaling) or the Director (Finance) of the Delhi Metro Rail Corporation Ltd., to the effect that-
- (i) the goods are procured by or on behalf of the Delhi Metro Rail Corporation Ltd. for use in the Delhi MRTS project; and
  - (ii) the goods are part of the inventory maintained by the Delhi Metro Rail Corporation Ltd. and shall be finally owned by the Delhi Metro Rail Corporation Ltd.
19. If the goods are exempted from the duties of customs leviable under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable under Section 3 of the said Customs Tariff Act when imported into India.
20. If, before clearance of goods, the manufacturer produces a certificate from an officer, not below the rank of Director in the Marine Products Export Development Authority, in the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, to the effect that the goods procured constitute monofilament long line system for tuna fishing and are intended to be used for tuna fishing.

**LIST 1**

(See S.No.1 of the Table)

- (1) Coconut husk crusher
- (2) Coconut husk defibering mill
- (3) Sifter or Siever (for separating coir fibre from pith)
- (4) Turbo cleaner (for cleaning the fibre)
- (5) Bailing press
- (6) Willowing machine (for cleaning and preparing fibre for spinning)
- (7) Motorised Spinning Ratts.

**LIST 2**

(See S.No.3 of the Table)

- (1) Yarn / Fabric mercerising; machine
- (2) Continuous bleaching plant
- (3) Fabric dyeing machine complete with dye kitchen & accessories
- (4) Wet fabric spreading and squeezing machine
- (5) Relax drum/ conveyer drying machine (i) Drying range (ii) Float dryer (iii) Loop dryer (iv) Drum dryer (v) Jet dryer (vi) Rapid dryer
- (6) Compacting Machine
- (7) HTHP Hosiery yarn dyeing machine complete with dye kitchen and accessories
- (8) Soft package winders (dye package winders)
- (9) Automatic dye weighing and dispensing machine
- (10) Open width Tubular inspection machine
- (11) Fastness testing equipment
- (12) Shrinkage testing equipment
- (13) Indigo dyeing range with/ without sizing plant
- (14) Computer colour matching equipment
- (15) High speed computer control padding mangle
- (16) Powder dot coating machine
- (17) Laser engraver
- (18) Pre-shrinking range for flat and knitted goods
- (19) Knit-tubular mercerising or bleaching-cum-mercerising machine
- (20) Auto flame controlled, width controlled singeing machine for flat and knitted fabrics
- (21) Milling and scouring machine
- (22) Shearing and Polishing machine
- (23) Kier Decatising/ Decatising machine
- (24) Combined Contripress/ Decatising machine
- (25) Auto fabric detwister
- (26) Rotary/ Flat bed screen printing machine
- (27) Curing/ Polymerising machine
- (28) Continuous rope/ open width washing machine.
- (29) Computerised embroidery pattern-making machine with plotter

- (30) Combined contipress/ decatizing machine
- (31) Auto control type humidification plant
- (32) Beam knotting machine
- (33) High Speed Warping machine with yarn tensioning, pneumatic suction devices and accessories
- (34) Computerised Pattern maker/ Pattern grading/ marker
- (35) Carding Sets, for use in woollen textile industry
- (36) Effluent treatment unit with biopaq reactor, activate sludge process, activated carbon, ultrafiltration ozonisation facilities
- (37) Shuttleless loom (air jet, water jet, rapier and projectile and narrow width high speed needle)
- (38) Fully fashioned high speed knitting machine
- (39) Hydraulic Flat Paper Press/ continuous Hydraulic Flat paper Press/ Rotary Press
- (40) Effluent treatment unit with automatic sensing devices, automatic controlled chemical dosing, dissolved air floatation (DAF), reverse osmosis, sludge dewatering, decanters, ultrafilters, vacuum filters to deliver water for reuse.

### LIST 3

(See S.No.4 of the Table)

- (1) Automatic reeling machinery for reeling of silk consisting of continuous hot air drier (conveyor type), continuous cocoon boiling machine (conveyor type) and automatic reeling machine with re-reeling
- (2) Silk weaving and twisting machines consisting of hank-to-bobbin cone winders, silk doubling machine, two-for-one/ three-for-one twisters, vacuum autoclave and rewinding machine for bobbin to hank and Electronic jacquard weft knitting machine
- (3) Arm dyeing machine for hank degumming dyeing
- (4) Hank dryers (continuous type)
- (5) Silk felt calender
- (6) Clip stenter
- (7) Silk calender
- (8) Silk decasting machine
- (9) Overflow machine for silk fabric dyeing
- (10) Cone-chees degumming and dyeing machine
- (11) Beam dyeing machine for silk fabric
- (12) Semi-automatic screen-printing machine
- (13) Loop agers
- (14) Design studio equipment
- (15) Colour kitchen equipment
- (16) Colour matching computer.

**LIST 4**

(See S. No.5 of the Table)

- (1) Gas Compressor, all types
- (2) Flywheel and pulley
- (3) Truck refrigeration unit
- (4) Walk-in-coolers/walk-in-freezer
- (5) Condensing unit
- (6) Evaporator
- (7) Oil separator
- (8) Receiver
- (9) Purger
- (10) Air cooling unit/air handling unit, all types
- (11) Evaporator coil, all types
- (12) Plate freezer
- (13) Blast freezer
- (14) IQF freezer
- (15) Cooling tower
- (16) Condenser-atmospheric/shell and tube/ evaporative
- (17) Valves and fittings
- (18) Mobile pre-cooling equipment
- (19) Stationary pre-cooling equipment
- (20) Control equipment for control atmosphere/ modified atmosphere cold storage.

**LIST 5**

(See S. No.84 of the Table)

- (1) Flat plate solar Collector
- (2) Black continuously plated solar selective coating sheets (in cut length or in coil) and fins and tubes
- (3) Concentrating and pipe type solar collector
- (4) Solar cooker
- (5) Solar water heater and system
- (6) Solar air heating system
- (7) Solar low pressure steam system
- (8) Solar stills and desalination system
- (9) Solar pump based on solar thermal and solar photovoltaic conversion
- (10) Solar power generating system
- (11) Solar photovoltaic module and panel for water pumping and other applications
- (12) Solar crop drier and system
- (13) Wind operated electricity generator, its components and parts thereof including rotor and wind turbine controller
- (14) Water pumping wind mill, wind aero-generator and battery charger
- (15) Bio-gas plant and bio-gas engine

- (16) Agricultural, forestry, agro-industrial, industrial, municipal and urban waste conversion device producing energy
- (17) Equipment for utilising ocean waves energy
- (18) Solar lantern
- (19) Ocean thermal energy conversion system
- (20) Solar photovoltaic cell
- (21) Parts consumed within the factory of production of such parts for the manufacture of goods specified at S. Nos. 1 to 20 above.

**LIST 6**

(See S. No.85 of the Table)

- (1) Injection resin, falling under tariff item 3907 30 90
- (2) Hardener resin injection, falling under tariff item 3907 30 90
- (3) Hand lay up resin, falling under tariff item 3907 30 90
- (4) Infusion resin, falling under tariff item 3907 30 90
- (5) Epoxy resin, falling under tariff item 3907 30 10
- (6) Adhesive resin, falling under tariff item 3907 99 90
- (7) Vinyl ester adhesives, falling under tariff item 3905 99 90
- (8) Hardener for adhesive resin, falling under tariff item 3824 90 90
- (9) Hardeners, falling under tariff item 3824 90 90
- (10) Foam kit, falling under tariff item 3921 90 99
- (11) PVC foam sheet and PS foam, falling under tariff item 3921 90 99
- (12) Balsa kit, falling under tariff item 4421 90 90
- (13) Glass fibre and articles thereof, falling under heading 7019
- (14) PU painting system, falling under tariff item 3208 20 90
- (15) Gel coat, falling under tariff item 3208 20 90"
- (16) Resin binders, falling under heading 3824 90

[F.No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना  
सं० 7/2006- उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006  
10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 97(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 03/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 फरवरी, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 95(अ) तारीख 24 फरवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

- (i) क्रम सं० 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (iii) क्रम सं० 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (iv) क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"4"	1701	चीनी (खंडसारी चीनी से भिन्न), - (क) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन बेचे जाने के लिए अपेक्षित	38 रु० प्रति क्विंटल
		(ख) अन्य	71 रु० प्रति क्विंटल";

- (v) क्रम सं० 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (vi) क्रम सं० 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (vii) क्रम सं० 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (viii) क्रम सं० 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"11"	2106	प्रसाद और प्रसादम	कुछ नहीं";

- (ix) क्रम सं० 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (x) क्रम सं० 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

- (xi) क्रम सं० 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xii) क्रम सं० 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xiii) क्रम सं० 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xiv) क्रम सं० 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xv) क्रम सं० 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xvi) क्रम सं० 41 और 42 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"41	4408	शीर्ष 4419, 4420 या 4421 के अधीन आने वाले माल के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने में प्रयुक्त 6 मि. मी. से अनधिक की मोटाई की वेनीरे शीटें और प्लाईवुड के लिए शीटें (चाहे स्लाइस की गई हों अथवा नहीं) और अन्य वुड सान लम्बाई अनुसार, स्लाइस की गई या छिलका रहित, चाहे प्लेन की गई हो अथवा नहीं, सेन्डेड या फिंगर जाएंटेड	कुछ नहीं
42	4409	शीर्ष 4419, 4420 या 4421 के अधीन आने वाले माल के विनिर्माण के कारखाने में प्रयुक्त सेन्डेड या फिंगर जाएंटेड उसके किसी किनारे या फेस के साथ, चाहे वह प्लांड हो अथवा नहीं, निरंतर रूप से आकारित (टंग्ड, ग्रुब्ड, रिबेटेड, शैम्फर्ड, वी-जाएंटेड, बीडेड, मोल्डेड, राउंडेड या इसी प्रकार की) लकड़ी (जिसके अंतर्गत पर क्वेट फर्श के लिए पट्टियां और फ्रीज भी है जो संयोजित नहीं की गई हैं) ।	कुछ नहीं ”;

- (xvii) क्रम सं० 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xviii) क्रम सं० 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xix) क्रम सं० 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xx) क्रम सं० 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxi) क्रम सं० 51 के सामने स्तम्भ (3) की मद (ग) का लोप किया जाएगा ;
- (xxii) क्रम सं० 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxiii) क्रम सं० 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना सं० 3/2005 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 फरवरी, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्या 95 (अ), तारीख 24 फरवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 15/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 मई, 2005 द्वारा किया गया था जो [ सा.का.नि. 257(अ), तारीख 2 मई, 2005] प्रकाशित की गई थी।

Notification

No.7/2006-Central Excise

New Delhi, the 1st March 2006.

10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 97(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 03/2005-Central Excise, dated the 24<sup>th</sup> February, 2005, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 95 (E), dated the 24<sup>th</sup> of February, 2005, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) S. No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) S. No. 3 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) for S. No. 4 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	1701	Sugar (other than Khandsari sugar),-	
		(a) Required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955)	Rs. 38 per quintal
		(b) Other	Rs. 71 per quintal";

- (v) S. No. 8 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) S. No. 9 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vii) S. No. 10 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (viii) for S. No. 11 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"11	2106	Prasad and Prasadam	Nil";

- (ix) S. No. 12 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (x) S. No. 13 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xi) S. No. 16 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xii) S. No. 17 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xiii) S. No. 33 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xiv) S. No. 36 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xv) S. No. 37 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xvi) for S. Nos. 41 and 42, and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be substituted, namely:-



(1)	(2)	(3)	(4)
"41	4408	Veneer sheets and sheets for Plywood (whether or not sliced) and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger jointed, of a thickness not exceeding 6mm used within factory of production for the manufacture of goods falling under headings 4419, 4420 or 4421.	Nil
42	4409	Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, champhered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded or finger jointed used within factory of production for the manufacture of goods falling under headings 4419, 4420 or 4421.	Nil";

- (xvii) S. No. 47 and the entries relating thereto shall be omitted;  
 (xviii) S. No. 48 and the entries relating thereto shall be omitted;  
 (xix) S. No. 49 and the entries relating thereto shall be omitted;  
 (xx) S. No. 50 and the entries relating thereto shall be omitted;  
 (xxi) against S. No. 51, in column (3), the item (c) shall be omitted;  
 (xxii) S. No. 52 and the entries relating thereto shall be omitted;  
 (xxiii) S. No. 55 and the entries relating thereto shall be omitted.

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**Note:**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 3/2005-Central Excise, dated 24<sup>th</sup> February, 2005 vide number G.S.R. 95(E), dated the 24<sup>th</sup> February, 2005 and was last amended by notification No. 15/2005-Central Excise, dated the 2<sup>nd</sup> May, 2005 [G.S.R. 257 (E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 2005].

अधिसूचना

सं० 8/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 98(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० सं० 138(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) उद्देशिका में पहले परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट उन मालों को लागू नहीं होगी जो शून्य दर से प्रभार्य हैं या उस पर उद्गृहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं।”;

(ख) पैरा 4 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4क) पूर्ववर्ती पैरा में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट उपाबंध की प्रविष्टि (xi), (xii) और (xiv) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत छूट वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए दस लाख रुपए तक निर्बंधित की जाएगी।”;

(ग) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :—

**“उपाबंध**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मदों के अधीन आने वाले उत्पाद शुल्क्य माल का वर्णन, अर्थात् :—

- (i) अध्याय 2, 3, 4 या 5 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (ii) अध्याय 7 या 8 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (iii) अध्याय 9 से 20 (शीर्ष 0902 के सिवाय) के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (iv) उपशीर्ष 2101 30 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (v) शीर्ष 2102, 2103 या 2104 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (vi) टैरिफ मद 2105 00 00 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (vii) शीर्ष 2106 (टैरिफ मद 2106 90 20 के सिवाय) के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (viii) शीर्ष 2201 या 2202 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (ix) टैरिफ मद 2207 20 00 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (x) शीर्ष 2209 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xi) टैरिफ मद 2403 10 10 के अधीन आने वाले सामान्य रूप से ज्ञात ‘हुक्का’ तंबाकू या ‘गुडाकू’ ‘हुक्का’ या ‘चिलम’ के माध्यम से धूम्रपान के लिए प्रयुक्त तंबाकू ;
- (xii) टैरिफ मद 2403 10 90 के अधीन आने वाले अन्य धूम्रपान तम्बाकू, उनसे भिन्न जिनका ब्रांड नाम है ;
- (xiii) शीर्ष 2403 के अधीन चबाए जाने वाले तम्बाकू की निर्मितियां और तम्बाकू सार और सत, ब्रांड नाम वालों से भिन्न ;
- (xiv) शीर्ष 2403 99 90 के अधीन आने वाले अन्य विनिर्मित तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू के स्थानापन्न उनसे भिन्न जिनका ब्रांड नाम है ;
- (xv) अध्याय 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 या 32 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xvi) अध्याय 33 (टैरिफ मद 3301 29 37 के सिवाय) के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xvii) अध्याय 34 या 35 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xviii) शीर्ष 3601, 3602, 3603 या 3604 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xix) शीर्ष 3605 के अधीन आने वाली बंगाल लाईटें ;
- (xx) शीर्ष 3606 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxi) शीर्ष 3703 (फोटोग्राफी कागज और कागज बोर्ड के सिवाय) के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxii) शीर्ष 3704, 3705, 3706 या 3707 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxiii) अध्याय 38 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxiv) अध्याय 39 के अधीन आने वाले सभी माल (उक्त पहली अनुसूची के अध्याय 39 के अधीन आने वाले फैब्रिक या सैक या पालीयूरेथेन फोम और पालीयूरेथेन फोम की वस्तुओं की बनाई के लिए आशयित प्लास्टिक की पट्टियों से भिन्न) ;

- (xxv) अध्याय 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 या 49 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxvi) अध्याय 64, 65, 66, 67 या 68 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxvii) अध्याय 69 (सैरामिक टाइलों के सिवाय) के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxviii) अध्याय 70 या 71 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxix) अध्याय 72 (स्टेनलेस स्टील पट्टा/पट्टी के सिवाय) के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxx) अध्याय 73 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxxi) शीर्ष 7401 और 7402 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxxii) टैरिफ मद 7403 21 00 के अधीन आने वाले निम्नलिखित माल, अर्थात् :-

(क) ढली हुई पीतल की छड़ें/सरिया जिनकी लम्बाई तीन फीट से अधिक नहीं है ;

(ख) उपशीर्ष 7408 के अधीन आने वाली ताम्र मिश्र धातुओं के तार बनाने के लिए उत्पादन कारखाने में प्रयुक्त दस फीट से अनधिक की लम्बाई की ढली हुई पीतल की छड़ें/सरिया (ऐसे तारों से भिन्न जिनकी अधिकतम अनुप्रस्थ काट वाली विमा 6 मि.मी. से अधिक है और ऐसे तार जिसकी अधिकतम अनुप्रस्थ काट वाली विमा 0.315 मि.मी. से अधिक नहीं है और जो जरी के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं) ;

(ग) शीर्ष सं० 7409 के अधीन आने वाली तांबे की पट्टियां बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दो किग्रा० से अनधिक की तांबे की चदरें ;

(घ) पांच किग्रा० तक भार की तांबे की बिलेटें ;

- (xxxiii) शीर्ष 7404, 7405 या 7406 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxxiv) शीर्ष 7407 के अधीन आने वाले सभी माल (परिष्कृत तांबे और ताम्र मिश्रातु की छड़ें और सरिया के सिवाय) ;
- (xxxv) उपशीर्ष 7408 के अधीन आने वाले सभी माल ऐसे तार के सिवाय जिनकी अधिकतम अनुप्रस्थ काट वाली विमा 6 मि.मी. से अधिक हो) ;
- (xxxvi) शीर्ष 7409 के अधीन आने वाली दो किग्रा० से अनधिक भार की ताम्र चदरों से उत्पादित ताम्र पट्टियां ;
- (xxxvii) शीर्ष 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418 या 7419 (ताम्र छल्लों के सिवाय चाहे वे ट्रिम किए गए हों या नहीं) के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxxviii) अध्याय 75 या 76 (एल्युमिनियम के छल्लों के सिवाय चाहे वे ट्रिम किए गए हों या नहीं) के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xxxix) अध्याय 77, 78, 79, 80, 81, 82 या 83 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xl) अध्याय 84 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xli) अध्याय 85 या 86 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xlii) शीर्ष 8707, 8708, 8709, 8710, 8712, 8713, 8714, 8715 या 8716 के अधीन आने वाले सभी माल ;

- (xliii) शीर्ष 8711 के अधीन आने वाली शक्ति चालित साइकिलें और शक्ति चालित साइकिल रिक्षे ("शक्ति चालित साइकिल या शक्ति चालित साइकिल रिक्षा" से, यथास्थिति, यांत्रिक रूप से नोदित साइकिल या यांत्रिक रूप से नोदित साइकिल रिक्षा अभिप्रेत है जो, यदि ऐसा करने की आवश्यकता पड़े, तो पैडल से भी चलाया जा सकेगा) ;
- (xliv) अध्याय 88, 89 या 90 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xlv) शीर्ष 9101 या 9102 के अधीन आने वाली प्रति नग 500 रु० से अनधिक कीमत की फुटकर विक्रय की घड़ियां और उनके पुर्जे ;
- (xlvi) शीर्ष 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113 या 9114 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xlvii) अध्याय 92 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xlviii) शीर्ष 9301 या 9305 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (xlix) शीर्ष 9306 या 9307 के अधीन आने वाले सभी पुर्जे ;
- (i) टैरिफ मद 9304 00 00 के अधीन आने वाली एयर गन, एयर राइफलें और एयर पिस्तौलें जो आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के उपबंधों से छूट प्राप्त हैं ;
- (ii) अध्याय 94 या 95 के अधीन आने वाले सभी माल ;
- (iii) अध्याय 96 (टैरिफ मद 9605 00 10 के सिवाय) के अधीन आने वाले सभी माल ।"

(घ) उपाबंध में, प्रविष्टि (xi) के स्थान पर, तारीख 1 अप्रैल, 2006 से निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

(xi) अध्याय 84 के अधीन आने वाले सभी माल [(शक्ति चालित पंपों से भिन्न जो मुख्य रूप से ऐसे जल के उथालने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश के अनुरूप नहीं हैं) (बीआईएस विनिर्दिष्ट)] ।"

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**टिप्पण :**—मूल अधिसूचना सं० 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० सं० 138(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 10/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005[सा०का०नि० 130(अ), तारीख 1 मार्च, 2005] द्वारा किया गया है ।

**Notification**  
No.8/2006-Central Excise

**New Delhi, the 1st March 2006.**  
10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 98(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2003-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 138(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, namely:—

In the said notification, —

(a) in the preamble, after first proviso, following shall be inserted, namely:-

“ Provided further that exemption contained in this notification shall not apply to goods which are chargeable to nil rate of duty or are exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon.”;

(b) after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“4A. Notwithstanding anything contained in the preceding paragraphs, the exemption in respect of goods specified in entries (xi), (xii) and (xiv) of the Annexure, contained in this notification, shall be restricted to rupees ten lakhs during the month of March of the financial year 2005-06.”;

(c) for the ANNEXURE, the following ANNEXURE shall be substituted, namely:-

#### “ANNEXURE

Description of excisable goods falling under Chapter, heading, sub-heading or tariff items of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985, namely:-

- (i) all goods falling under Chapter 2, 3, 4 and 5;
- (ii) all goods falling under Chapter 7 or 8;
- (iii) all goods falling under Chapter 9 to 20 (except heading 0902);
- (iv) all goods falling under sub-heading 2101 30;
- (v) all goods falling under heading 2102, 2103 or 2104;
- (vi) all goods falling under tariff item 2105 00 00;
- (vii) all goods falling under heading 2106 (except tariff item 2106 90 20);
- (viii) all goods falling under heading 2201 or 2202;
- (ix) all goods falling under tariff item 2207 20 00;
- (x) all goods falling under heading 2209;
- (xi) Tobacco, used for smoking through ‘hookah’ or ‘chilam’, commonly known as ‘hookah’ tobacco or ‘gudaku’ falling under tariff item 2403 10 10;
- (xii) Other smoking tobacco falling under tariff item 2403 10 90, other than those bearing a brand name;
- (xiii) Chewing tobacco, chewing tobacco preparations and tobacco extracts and essences, falling under heading 2403, other than those bearing a brand name;
- (xiv) Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes falling under 2403 99 90, other than those bearing a brand name
- (xv) all goods falling under Chapter 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 or 32;
- (xvi) all goods falling under Chapter 33 (except tariff item 3301 29 37);
- (xvii) all goods falling under Chapter 34 or 35;
- (xviii) all goods falling under heading 3601, 3602, 3603 or 3604;
- (xix) Bengal lights falling under heading 3605;
- (xx) all goods falling under heading 3606;
- (xxi) all goods falling under heading 3703 (except photographic paper and paper board);
- (xxii) all goods falling under heading 3704, 3705, 3706 or 3707;
- (xxiii) all goods falling under Chapter 38;
- (xxiv) all goods falling under Chapter 39 (other than strips of plastics intended for weaving of fabrics or sacks, polyurethane foam and articles of polyurethane foam, falling under Chapter 39 of the said First Schedule);
- (xxv) all goods falling under Chapter 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 or 49;
- (xxvi) all goods falling under Chapter 64, 65, 66, 67 or 68;
- (xxvii) all goods falling under Chapter 69 (except ceramic tiles);

- (xxviii) all goods falling under Chapter 70 or 71;
- (xxix) all goods falling under Chapter 72 (except stainless steel patties /pattas);
- (xxx) all goods falling under Chapters 73;
- (xxxi) all goods falling under headings 7401 and 7402;
- (xxxii) following goods falling under tariff item 7403 21 00, namely:-
  - (a) cast brass bars/rods of a length not exceeding three feet;
  - (b) cast brass bars/rods of a length not exceeding ten feet used in the factory of production for making wires of copper alloys falling under sub-heading 7408 (other than wire of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm and wire of which the maximum cross-sectional dimension does not exceed 0.315 mm and used for manufacture of Zari);
  - (c) copper flats of a weight not exceeding two kilograms used for making copper strips falling under heading 7409;
  - (d) brass billets weighing up to five kilograms;
- (xxxiii) all goods falling under heading 7404, 7405 or 7406;
- (xxxiv) all goods falling under heading 7407 (except bars and rods of refined copper and copper alloys);
- (xxxv) all goods falling under heading 7408 (except wire of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm and );
- (xxxvi) copper strips produced from copper flats of a weight not exceeding two kilograms, falling under heading 7409;
- (xxxvii) all goods falling under headings 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418 or 7419 (except copper circles, whether or not trimmed);
- (xxxviii) all goods falling under Chapter 75 or 76 (except aluminium circles, whether or not trimmed);
- (xxxix) all goods falling under Chapters 77, 78, 79, 80, 81, 82 or 83;
- (xl) all goods falling under Chapter 84
- (xli) all goods falling under Chapter 85 or 86;
- (xlii) all goods falling under headings 8707, 8708, 8709, 8710, 8712, 8713, 8714, 8715 or 8716;
- (xliii) powered cycles and powered cycle rickshaw ("powered cycle" or powered rickshaw means a mechanically propelled cycle or, as the case may be, mechanically propelled cycle rickshaw, which may also be peddled, if any necessity arises for so doing) falling under heading 8711;
- (xliv) all goods falling under Chapters 88, 89 or 90;
- (xlv) watches of retail sale price not exceeding Rs.500 per piece and parts thereof, falling under heading 9101 or 9102;
- (xlvi) all goods falling under headings 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113 or 9114;
- (xlvii) all goods falling under Chapters 92;
- (xlviii) all goods falling under headings 9301 or 9305;
- (xlix) parts falling under heading 9306 or 9307;
- (i) air guns, air rifles and air pistols which are exempt from the provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), falling under tariff item 9304 00 00;
- (ii) all goods falling under Chapters 94 or 95;
- (lii) all goods falling under Chapters 96 (except tariff item 9605 00 10).".

(c) in the ANNEXURE, for the entry (xl), with effect from 1<sup>st</sup> day of April, 2006, the following entries shall be substituted, namely:-

“(xl) all goods falling under Chapter 84 {other than power driven pumps primarily designed for handling water which do not conform to standards specified by BIS (Bureau of Indian Standards) for such pumps}.”.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

**Note:—** The principal notification No. 8/2003-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.138(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003 and was last amended by notification No.10/2005-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005 [G.S.R.130(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2005].

अधिसूचना

सं09/ 2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 99(अ).—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची के अधीन आने वाले सभी माल को, पूर्वोक्त अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

Notification

No. 9/2006-Central Excise

New Delhi, the 1<sup>st</sup> March 2006.

10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 99(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all the goods falling under the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from whole of the duty of excise leviable thereon under the Schedule aforesaid.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना

सं0 10/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 100(अ).—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 10/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 [सा0का0नि0 140(अ), तारीख 1 मार्च, 2003] को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से जिनका लोप किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, के अंतर्गत आने वाले उत्पाद शुल्क्य माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

स्पष्टीकरण 1- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विनिर्माता को, जिसने अधिसूचना सं० 8/2003-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003, जो भारत के राजपत्र में सा०का०नि० सं० 129 (अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के अधीन यथास्थिति, किसी वित्तीय वर्ष में पूरी छूट प्राप्त की है, उसी वित्तीय वर्ष में यह छूट प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “खुदरा विक्रय कीमत” से वह अधिकतम कीमत अभिप्रेत है जिस पर उत्पाद शुल्क्य माल पैक रूप में अंतिम उपभोक्ता को बेचा जा सकेगा और उसके अंतर्गत, यथास्थिति, सभी कर, स्थानीय या अन्य, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यौहारियों को संदेय कमीशन और विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण तथा इसी प्रकार के अन्य मदों मद्दे सभी प्रभार सम्मिलित है और ऐसे विक्रय के लिए कीमत एकमात्र प्रतिफल है।

स्पष्टीकरण 3- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दरें मूल्यानुसार हैं जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाएं।

#### सारणी

क्र० सं०	पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	उत्पाद शुल्क्य माल का वर्णन	दर
1.	44	संघनित लकड़ी की वस्तुओं और फ्लश डोर से भिन्न, लकड़ी की वस्तुएं	8 %
2.	4820	सभी माल, नोटबुक और अभ्यास पुस्तिकाओं से भिन्न	8 %
3.	4821	सभी माल	8 %
4.	4823 70 10	सभी माल	8 %
5.	5906 10 00	सभी माल	कुछ नहीं
6.	5908	ताप दीप्त गैस मेंटलों के उपयोग के लिए टुबुलर निटेड गैस मेंटल फैब्रिक, चाहे संसेचित हो अथवा नहीं	कुछ नहीं
7.	6602 00 00	सभी माल	कुछ नहीं
8.	6814	माइका की वस्तुएं	8 %
9.	68(शीर्ष 6804, 6805, 6806, 6811, 6812, 6813 के सिवाय)	ठोस या खोखले बिल्डिंग ब्लॉक, जिनके अंतर्गत वातित या सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक और स्लैब भी हैं	8 %
10.	7015 10	करेक्टिव स्पेक्टिकल्स और फ्लैट बटनों के लिए कांच	कुछ नहीं
11.	7323	प्रेसर कुकर और उनके पुर्जों से भिन्न सभी माल	कुछ नहीं
12.	7326 20 10	सभी माल	कुछ नहीं
13.	7418	टेबल, किचन या अन्य घरेलू वस्तुएं (पुर्जों से भिन्न)	कुछ नहीं
14.	7615 11 00, 7615 19	टेबल, किचन या अन्य घरेलू वस्तुएं पॉट स्कोरर और स्कोरिंग या पालिशिंग पैड, दस्ताने और वैसी ही वस्तुएं (टैरिफ मद 7615 19 10 के अधीन आने वाले पुर्जों और प्रेशर कुकरों से भिन्न)	कुछ नहीं



15.	8211 या 8214	चाकू	कुछ नहीं
16.	8215	सभी माल	कुछ नहीं
17.	8413	शक्ति चालित पम्प जो प्राथमिक रूप से जल हथालन के लिए डिजाइन की हैं, अर्थात् सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प (ऊर्वाधर या क्षैतिज), डीप ल्यूबेल टर्बाइन पम्प, सबमर्सीबल पम्प, एक्सिसल फ्लो और मिश्रित फ्लो क्षैतिज पम्प	8 %
18.	8413	हैंडपम्प और उनके पुर्जे	कुछ नहीं
19.	8414 20 10, 8414 20 20, या 8414 90 12	सभी माल	कुछ नहीं
20.	8481 80 41 या 8481 90 10	सभी माल	कुछ नहीं
21.	8483 10 10	सभी माल	8 %
22.	8524	आड़ियो कैसेट	कुछ नहीं
23.	8539	20 रु0 प्रति बल्ब से अनधिक के फुटकर विक्रय कीमत के वैक्यूम और गैस से भरे बल्ब	8 %
24.	8712	सभी माल	कुछ नहीं
25.	8714	शीर्ष 8712 के यान के पुर्जे और साधित्र	कुछ नहीं
26.	90 या कोई अन्य अध्याय	इस अधिसूचना से उपाबद्ध सूची 1 में विनिर्दिष्ट चिकित्सीय उपकरण और अन्य माल (उनके पुर्जों और साधित्रों से भिन्न)  स्पष्टीकरण- इस छूट के प्रयोजनों के लिए ऊपर सूची में की मदों में फोली बैलून कैथेटर्स सम्मिलित नहीं होंगे।	8 %
27.	9004	गॉगल्स और नजर ठीक करने वाले सनग्लास	8 %
28.	9018	सभी माल (उनके पुर्जों और साधित्रों से भिन्न)	8 %
29.	9019	सभी माल (उनके पुर्जों और साधित्रों से भिन्न)	8 %
30.	9022	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए सभी माल (उनके पुर्जों और साधित्रों से भिन्न)	8 %
31.	9405 50 31	केरोसीन प्रेशर लालटेन	कुछ नहीं
32.	9501	सभी माल (उनके पुर्जों और साधित्रों से भिन्न)	कुछ नहीं
33.	9502	सभी माल (उनके पुर्जों और साधित्रों से भिन्न)	कुछ नहीं
34.	9503	सभी माल (उनके पुर्जों और साधित्रों से भिन्न)	कुछ नहीं
35.	9603 21 00	दूधबुश	8 %
36.	कोई अध्याय	ऊपर क्रम सं0 1 से 35 (क्रम सं0 18, 23, 27 और 35 के सिवाय) के सामने विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के अनुक्रम में उत्पन्न अवशिष्ट और स्क्रेप	कुछ नहीं

### सूची 1 (सारणी का क्रम सं० 30 देखिए)

- (1) सी.ए.एम. स्टीमुलेटर
- (2) कान्टैक्ट लेन्स लेथ
- (3) कान्टैक्ट लेन्स पालिशिंग मशीन
- (4) कान्टैक्ट लेन्स थिकनेस मेजरिंग गेज
- (5) कार्निथल एनेस्थेशियोमीटर
- (6) क्रायो - लेथ
- (7) डार्क एडैप्टोमीटर
- (8) एक्सोफ्थाल्मोमीटर
- (9) ग्लेयर टेस्टिंग उपस्कर
- (10) ओफ्थाल्मिक क्रायो उपस्कर
- (11) ओफ्थाल्मिक आपरेटिंग लाइट और फाइबर ऑप्टिक लाइटें
- (12) ओफ्थाल्मो डायनोमीटर
- (13) पैन्टोस्कोप
- (14) कान्टैक्ट लेन्स के निरीक्षण और सत्यापन के लिए प्रोजेक्शन मैग्नीफायर
- (15) रेडियसकोप बेस कर्ब (कान्टैक्ट लेन्सों को मापने के लिए)
- (16) रिफ्रेक्टोमीटर
- (17) रोपर हाल फारेन बाडी लोकेटर
- (18) साफ्ट कान्टैक्ट लेन्स की बेस कर्ब के मापन के लिए सोफ्टोमीटर
- (19) कान्टैक्ट लेन्स के निरीक्षण के लिए स्टीरियोजूम माइक्रोस्कोप
- (20) अल्ट्रासोनोग्राफी ए.बी.एम. स्कैन/पैकीमीटर/क्लीनर
- (21) लीनियर एक्सीलरेटर

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

Notification

No.10/2006-Central Excise

New Delhi, the 1st March 2006.

10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 100(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2003-Central Excise dated the 1<sup>st</sup> March, 2003 [G.S.R. 140(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003], except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby exempts excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading, sub-heading or the tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the Central Excise Tariff Act), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table (hereinafter referred to as the said goods), from so much of the duty of excise leviable thereon under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

*Explanation I.*—For the removal of doubts, it is clarified that a manufacturer who has availed of full exemption under notification No.8/2003-Central Excise, dated the 1st March, 2003, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 129 (E), as the case may be, in any financial year, is permitted to avail this exemption in the same financial year.

*Explanation II.*—For the purposes of this notification the “retail sale price” means the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like, as the case may be, and the price is the sole consideration for such sale.

*Explanation III.*—For the purposes of this notification, the rates specified in column (4) of the said Table are *ad valorem* rates, unless otherwise specified.

TABLE

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate under the First Schedule
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	44	Articles of wood, other than articles of densified wood and flush doors	8%
2.	4820	All goods, other than notebooks and exercise books	8%
3.	4821	All goods	8%
4.	4823 70 10	All goods	8%
5.	5906 10 00	All goods	Nil
6.	5908	Tubular knitted gas mantle fabric, whether or not impregnated, for use in incandescent gas mantles	Nil
7.	6602 00 00	All goods	Nil
8.	6814	Articles of mica	8%
9.	68 (except headings 6804, 6805, 6811, 6812, 6813)	Solid or hollow building blocks, including aerated or cellular light weight concrete blocks and slabs	8%
10.	7015 10	Glasses for corrective spectacles and flint buttons	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	7323	All goods other than parts and pressure cookers	Nil
12.	7326 20 10	All goods	Nil
13.	7418	Table, kitchen or other household articles (other than parts)	Nil
14.	7615 11 00, 7615 19	Table, kitchen or other household articles, pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like (other than parts and pressure cookers falling under tariff item 7615 19 10)	Nil
15.	8211 or 8214	Knives	Nil
16.	8215	All goods	Nil
17.	8413	Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal or vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps	8%
18.	8413	Hand pumps and parts thereof	Nil
19.	8414 20 10, 8414 20 20, or 8414 90 12	All goods	Nil
20.	8481 80 41 or 8481 90 10	All goods	Nil
21.	8483 10 10	All goods	8%
22.	8524	Audio cassettes	Nil
23.	8539	Vacuum and gas filled bulbs of retail sale price not exceeding Rs. 20 per bulb	8%
24.	8712	All goods	Nil
25.	8714	Parts and accessories of vehicle of heading 8712	Nil
26.	90 or any other Chapter	Medical equipment and other goods (other than parts and accessories thereof) specified in List I annexed to this notification <i>Explanation.</i> — For the purposes of this exemption the items in the list above shall not include Foley Balloon Catheters.	8%
27.	9004	Sunglasses for correcting vision and goggles	8%
28.	9018	All goods (other than parts and accessories thereof)	8%
29.	9019	All goods (other than parts and accessories thereof)	8%
30.	9022	All goods for medical, surgical, dental and veterinary use (other than parts and accessories thereof)	8%
31.	9405 50 31	Kerosene pressure lantern	Nil
32.	9501	All goods (other than parts and accessories thereof)	Nil
33.	9502	All goods (other than parts and accessories thereof)	Nil
34.	9503	All goods (other than parts and accessories thereof)	Nil
35.	9603 21 00	Toothbrushes	8%
36.	Any Chapter	Waste and scrap arising during the course of manufacture of the goods specified against S. No.1 to 35 above (except S.No.18, 23, 27 and 35)	Nil

## LIST 1 (See S. No. 26 of the Table)

- (1) C.A.M. stimulator
- (2) Contact lens lathe
- (3) Contact lens polishing machine
- (4) Contact lens thickness measuring gauge
- (5) Corneal Anesthesiometer
- (6) Cryo-lathe
- (7) Dark adaptometer
- (8) Exophthalmometer
- (9) Glare testing equipment
- (10) Ophthalmic cryo equipment
- (11) Ophthalmic operating lights and fibre optic lights
- (12) Ophthalmic dynamometer
- (13) Pantoscope
- (14) Projection magnifier for contact lens inspection and verification
- (15) Radiuscope base curve (for measurement of contact lenses)
- (16) Refractometer
- (17) Roper Hall foreign body locator
- (18) Softometer for measurement of the base curve of soft contact lens
- (19) Stereozoom microscope for inspection of contact lens
- (20) Ultrasonography A.B.M. scan/ pachymeter/cleaner
- (21) Linear accelerator.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 11/ 2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 101(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उक्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन आने वाले सभी माल को, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

Notification

No.11/2006-Central Excise

New Delhi, the 1st March 2006.

10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 101(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all the goods falling under the First Schedule to the said Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, from whole of the duty of excise leviable thereon under the aforesaid Act.

[F.No.334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 12/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 102(अ).**—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तुएं) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 49/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 10 जून, 2003 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 471(अ) तारीख 10 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची

क्रम.सं.	वे माल या क्रिया जिन्हें छूट दी जानी है	उत्पाद शुल्क वर्गीकरण शीर्ष /उपशीर्ष/टैरिफ मद	एनआईसी वर्गीकरण 1998 के अंतर्गत उपवर्ग	आई टी सी (एच एस) 4/6/8 अंक तक वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पुष्प कृषि	-	-	0603/060120/ 06029020/ 06024000
2.	औषधीय और सुरभि जड़ी बूटी संसाधित	-	-	
3.	शहद	-	-	040900
4.	बागबानी और खेती बाड़ी आधारित उद्योग जैसे कि		15135 - 15137 और 15139	
	(क) सॉस, कैचप और दूसरे उत्पाद जो शीर्षक 2103 में आते हैं	2103		
	(ख) फल के जूस और फल का पल्प	2202 90 20		
	(ग) जैम, जैली, सब्जी के जूस, प्यूरी, अचार और दूसरे उत्पाद जो अध्याय 20 में आते हैं	20		

- (घ) परिरक्षित फल व सब्जियां  
(ङ) ताजा फल व सब्जियों का संसाधन जिसमें पैकेजिंग भी सम्मिलित हैं  
(च) मसरूम का संसाधन परिरक्षण व पैकेजिंग

5.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन उद्योगों को छोड़कर जो उपाबंध के अनुसार नकारात्मक सूची में है	1901 से 1904		
6.	चीनी और इसके उपोत्पाद	-	-	17019100
7.	रेशम और रेशम के उत्पाद	5004, 5005, 5006 या 5007	17116	
8.	ऊन और ऊन के उत्पाद	5101 से 5113	17117	
9.	बुना हुआ कपड़ा (उत्पाद शुल्क देय सिले सिलाए वस्त्र)	-	-	6101 से 6117
10.	खेल का सामान और वस्तुएं तथा साधारण शारीरिक व्यायाम के उपस्कर और साहसिक खेलों, गतिविधियों, पर्यटन से संबंधित उपस्कर	9506		
11.	कागज और कागज के उत्पाद, उनको छोड़कर जो उपाबंध के अनुसार नकारात्मक सूची में है	-	-	-
12.	भेषज उत्पाद	3003 से 3006		
13.	सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कंप्यूटर हार्डवेयर काल सेंटर	8471	30006/7	
14.	मिनरल वाटर की बॉटलिंग	2201		
15.	इको-टूरिज्म होटल, रिसॉर्ट एसपीए, मनोरंजन/आमोद प्रमोद पार्क और रज्जू मार्ग	-	55101	
16.	औद्योगिक गैस (वातावरण प्रेक्शन पर आधारित)			
17.	हथकरघा			
18.	इमारती लकड़ी से भिन्न वन उत्पाद आधारित उद्योग ।*			

(ख) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :-

उपाबंध			
क्रम सं०	वे माल और क्रियाकलाप जिसे छूट प्राप्त नहीं होगी	उत्पाद शुल्क वर्गीकरण अध्याय/ शीर्ष /उपशीर्ष/ टैरिफ मद	एन आई सी वर्गीकरण 1998 के अन्तर्गत उपवर्ग
1.	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद जिसमें सिगरेट और पान मसाला भी सम्मिलित है	शीर्ष 2401 से 2403 और 2106	1600
2.	तापीय विद्युत संयंत्र (कोयला और तेल आधारित)		40102/ 40103
3.	कोयला धोवनशाला और शुष्क कोयला प्रसंस्करण	3	
4.	अकार्बनिक रसायन, मैडिसिनल ग्रेड आक्सीजन (2804 40 10), मैडिसिनल ग्रेड हाइड्रोजन पैराक्साइड (2847 00 00), संपीड़ित वायु (2851 00 30) को छोड़कर	28	
5.	कार्बनिक रसायन, प्रोविटामिन्स या विटामिन्स, हार्मोन्स (2936 या 2937), आइड्स (2938), चीनी (2940 00 00), ऐसे सिन्थेसिस से पुनः उत्पादित चीनी जो अनुज्ञात नहीं है	29	24117

तथा चीनी के डाउनस्ट्रीम उद्योगों को छोड़कर		
6.	टैनिंग और डाइंग एक्सट्रेट, टैनिन्स और उनके व्युत्पन्न, डाई, रंग, पेंट और वार्निश, पुट्टी, फिलर्स और दूसरे मास्टिक्स, स्पाही	32 24113/ 24114
7.	संगमरमर और खनिज पदार्थ जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	2502 00 00, 2503 से 2522, 2525 से 2530 14106/ 14107
8.	आटा मिल या चावल मिल	1101 00 00 15311
9.	फाउंड्री जो कोयला इस्तेमाल करते हैं	
10.	खनिज इंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद ; बिटुमिनस पदार्थ ; खनिज मोम	27
11.	संश्लिष्ट रबड़ के उत्पाद	4002 24131
12.	सीमेंट कलीन्कर और एसबसटोस, कच्चा माल जिसमें फाइबर भी सम्मिलित हैं	2523 10 00, 2524
13.	विस्फोटक (जिसमें औद्योगिक विस्फोटक, डिटोनेटर और फ्यूज, आतिशबाजी, माचिस, प्रोपलेंट पाउडर और दूसरे उत्पाद जो शीर्ष संख्या 3601 से 3606 के अंतर्गत आते हैं, भी सम्मिलित हैं)	3601 से 3606 24292
14.	खनिज और रासायनिक उर्वरक	3102 से 3105 2412
15.	कीटनाशक फंगसनाशक, हर्बनाशक और नाशक जीव मार (मूल विनिर्माण और निर्मिति)	3808 24211/ 24219
16.	फाइबर ग्लास और उसकी वस्तुएं	7019 26102
17.	लकड़ी की लुग्दी का विनिर्माण, यांत्रिक या रासायनिक (जिसके अंतर्गत घुलने वाली लुग्दी भी सम्मिलित है )	47 21011
18.	ब्रांड नाम वाले सोडावाटर या मृदु पेय (बिना फल आधारित)	2201 10 20 15541/ 15542
		2202 10 10
19.	कागज	4801 21011 से 21019

शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए लिखाई या छपाई वाला कागज या पेपर बोर्ड जिसके विनिर्माण में,- 4802 4802

(i) पल्प निकालने की मुख्य प्रक्रिया हाथ द्वारा की जाती है ; और

(ii) यदि शक्तिचालित पत्रक निर्माण उपस्कर का उपयोग किया जाता है, तो सिलेंडर मोल्ड वैट 40 इंच से अधिक का नहीं है ।

राष्ट्रीय दृश्य विकलांगता संस्थान, देहरादून द्वारा दी गई मांग पर्ची के संबंध में ब्रेल मुद्रणालय को प्रदाय किया गया मैपलिथो 4802



कागज	
न्यूज प्रिंट, रोल या शीटों में	4801
राष्ट्रीय दृश्य विकलांगता संस्थान, देहरादून द्वारा दी गई मांग पची के संबंध में ब्रेल मुद्रणालय को प्रदाय किया गया क्राफ्ट कागज	4804
सैनिटरी टावल और टेम्पन्स, बच्चों के लिए नैपकिन और नैपकिन लाइनर और वैसी ही सैनिटरी वस्तुएं	4818
सिगरेट कागज, चाहे आकार के अनुसार काटा गया हो या नहीं या बुकलैट या ट्यूब के रूप में	4813
ग्रीज प्रूफ कागज	4806 20 00
शीर्ष 4803 के टायलेट या फेशियल टिशु और अन्य माल	4803
आंतरिक रूप से बिटूमेन, तार या एस्फाल्ट से विलेपित पेपर और पेपर बोर्ड	4807
कार्बन या वैसे ही कार्पिंग पेपर	4809 10
पेपर की सीटों या पेपर बोर्डों से युक्त वे उत्पाद जो प्लास्टिक से संसेचित, विलेपित या आच्छादित हैं और टैरिफ मद 4811 41 00, 4811 49 00, 4811 51 00 या 4811 59 00 के अन्य माल	4811 41 00, 4811 49 00, 4811 51 00 या 4811 59 00
मोम से विलेपित, संसेचित या आच्छादित पेपर और पेपर बोर्ड और टैरिफ मद 4811 60 00 के अन्य माल	4811 60 00
20. प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं	3909 से 3915
21. उत्तरांचल राज्य में वे उद्योग जो दून वेली अधिसूचना (का.आ. 102(अ) तारीख 1 फरवरी, 1989) में अधिसूचित हैं, ये अधिसूचना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी जो समय-समय पर संशोधित की जाती है।	

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**टिप्पण :—** मूल अधिसूचना सं० 49/2003 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 जून, 2003 भारत के राजपत्र, साधारण में सा.का.नि. संख्या 471 (अ), तारीख 10 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 27/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 [ सा.का.नि. 418(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004] द्वारा किया गया था।

Notification

No.12/2006-Central Excise

New Delhi, the 1st March 2006.

10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 102(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 49/2003-Central Excise, dated the 10<sup>th</sup> June, 2003, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 471(E), dated the 10<sup>th</sup> June, 2003, namely:-

In the said notification,-

(a) for the SCHEDULE, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE"

Sl. No.	Goods or Activity to be exempted	Excise classification Heading / Sub-heading / tariff item	Sub-class under NIC classification 1998	ITC (HS), classification 4/6/8 digit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Floriculture	—	—	0603/060120/ 06029020/ 06024000
2.	Medicinal herbs and aromatic herbs-processing	—	—	
3.	Honey	—	—	040900
4.	Horticulture and Agro based industries such as		15135-15137 and 15139	
	(a) Sauces, Ketchup and the other goods of heading 2103	2103		
	(b) Fruit Juices and fruit pulp	2202 90 20		
	(c) Jams, Jellies, vegetable juices, puree, pickles and other goods of Chapter 20	20		
	(d) Preserved fruits and vegetables			
	(e) Processing of fresh fruits and vegetables including packaging			
	(f) Processing, preservation, packaging of mushrooms.			
5.	Food processing industry excluding those included in the negative list as per Annexure	1901 to 1904		
6.	Sugar and its by products	—	—	17019100
7.	Silk and silk products	5004, 5005, 5006 or 5007	17116	
8.	Wool and wool products	5101 to 5113	17117	
9.	Woven fabrics (Excisable garments)	—	—	6101 to 6117
10.	Sports goods and articles and equipments for general physical exercise and equipment for adventure sports/activities, tourism	9506		

11.	Paper and paper products excluding those in negative list as per Annexure	--	--
12.	Pharmaceutical products	3003 to 3006	
13.	Information and Communication Technology Industry Computer hardware Call centres	8471	30006/7
14.	Bottling of Mineral water	2201	
15.	Eco-tourism Hotels, resorts, spa, entertainment/ amusement parks and ropeways	--	55101
16.	Industrial gases (based on atmosphere fraction)		
17.	Handicrafts		
18.	Non-timber forest product based industries.”;		

(b) for the ANNEXURE, the following ANNEXURE shall be substituted, namely:-

“ANNEXURE

SI. No.	Good or Activity not to be exempted	Excise classification Chapter/ heading/ sub-heading /tariff item	Sub-class under NIC Classification 1998
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tobacco and tobacco products including cigarettes and pan masala	2401 to 2403 and 2106	1600
2.	Thermal Power Plant (coal and oil based)		40102/40103
3.	Coal washeries or dry coal processing		
4.	Inorganic chemicals, excluding medicinal grade oxygen (2804 40 10), medicinal grade hydrogen peroxide (2847 00 00), compressed air (2851 00 30)	28	
5.	Organic chemicals excluding Provitamins or vitamins, hormones (2936 or 2937), Glycosides (2938), sugars (2940 00 00) Sugar reproduction by synthesis not allowed as also downstream industries for sugar	29	24117
6.	Tanning and dyeing extracts, tanins and their derivatives, dyes, colours, paints and varnishes, putty, fillers and other mastics, inks	32	24113/24114
7.	Marble and mineral substances not classified elsewhere	2502 00 00 2503 to 2522, 2525 to 2530	14106/14107
8.	Flour mill or rice mill	1101 00 00	15311
9.	Foundries using coal		
10.	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; Bituminous substances: Mineral waxes	27	
11.	Synthetic rubber products	4002	24131
12.	Cement clinkers and asbestos, raw including fibre	2523 10 00, 2524	
13.	Explosive (including industrial explosives, detonators and fuses, fireworks, matches, propellant powders and other goods of heading 3601 to 3606)	3601 to 3606	24292
14.	Mineral and chemical fertilizers	3102 to 3105	2412

15.	Insecticides, fungicides, herbicides and pesticides (basic manufacture and formulation)	3808	24211/24219
16	Fibre glass and articles thereof	7019	26102
17.	Manufacture of pulp-wood pulp, mechanical or chemical (including dissolving pulp)	47	21011
18.	Branded aerated water or soft drinks (non-fruit based)	2201 10 20 2202 10 10	15541/15542
19.	Paper	4801	21011 to 21019
	Writing or printing paper for printing of educational textbooks	4802	
	Paper or paperboard, in the manufacture of which,-	4802	
	(i) the principal process of lifting the pulp is done by hand; and		
	(ii) if power driven sheet forming equipment is used, the Cylinder Mould Vat does not exceed 40 inches		
	Maplitho paper supplied to a Braille press against an indent placed by the National Institute for Visually Handicapped, Dehradun	4802	
	Newsprint, in rolls or sheets	4801	
	Kraft paper supplied to a Braille press against an indent placed by the National Institute for Visually Handicapped, Dehradun	4804	
	Sanitary towel and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles	4818	
	Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes	4813	
	Grease-proof paper	4806 20 00	
	Toilet or facial tissues and other goods	4803	
	Paper and paper board, laminated internally with bitumen, tar or asphalt	4807	
	Carbon or similar copying paper	4809 10	
	Products consisting of sheets of paper or paperboard, impregnated, coated or covered with plastics and other goods of	4811 41 00, 4811 49 00, 4811 51 00, or 4811 59 00	
	tariff item 4811 41 00, 4811 49 00, 4811 51 00 or 4811 59 00	4811 60 00	
	Paper and paper board, coated, impregnated or covered with wax and other goods of tariff item 4811 60 00	4811 60 00	
20.	Plastics and articles thereof	3909 to 3915	
21.	Industries, notified under the Doon Valley notification [S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989] as amended from time to time, issued by the Ministry of Environment and Forests, in the Doon Valley area of the State of Uttaranchal.”		

[F.No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

**Note:—** The principal notification No. 49/2003-Central Excise, dated the 10<sup>th</sup> June, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 471(E), dated the 10<sup>th</sup> June, 2003 and was last amended by notification No. 27/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 [G.S.R. 418 (E), dated the 9<sup>th</sup> July, 2004].

अधिसूचना

सं० 13/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006,

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

182

सा.का.नि. 103(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तुएं) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 10 जून, 2003 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्या 472 (अ), तारीख 10 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :-

**“उपाबंध - 1**

क्रम सं०	वे माल और क्रियाकलाप जिसे छूट प्राप्त नहीं होगी	उत्पाद शुल्क वर्गीकरण अध्याय/ शीर्ष /उपशीर्ष/ टैरिफ मद	एन आई सी वर्गीकरण 1998 के अन्तर्गत उपवर्ग
1.	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद जिसमें सिगरेट और पान मसाला भी सम्मिलित है	शीर्ष 2401 से 2403 और 2106	1600
2.	तापीय विद्युत संयंत्र (कोयला और तेल आधारित)		40102/ 40103
3.	कोयला धोबनशाला और शुष्क कोयला प्रसंस्करण	3	
4.	अकार्बनिक रसायन, मैडिसिनल ग्रेड आक्सीजन (2804 40 10), मैडिसिनल ग्रेड हाइड्रोजन पैराक्साइड (2847 00 00), संपीड़ित वायु (2851 00 30) को छोड़कर	28	
5.	कार्बनिक रसायन, प्रोविटामिन्स या विटामिन्स, हारमोन्स (2936 या 2937), आइड्स (2938), चीनी (2940 00 00), ऐसे सिन्थेसिस से पुनः उत्पादित चीनी जो अनुज्ञात नहीं है तथा चीनी के डाउनस्ट्रीम उद्योगों को छोड़कर	29	24117
6.	टैनिंग और डाइंग एक्सट्रेट, टैनिन्स और उनके व्युत्पन्न, डाई, रंग, पेंट और वार्निश, पुट्टी, फिलर्स और दूसरे मास्टिक्स, स्याही	32	24113/ 24114
7.	संगमरमर और खनिज पदार्थ जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	2502 00 00, 2503 से 2522, 2525 से 2530	14106/ 14107
8.	आटा मिल या चावल मिल	1101 00 00	15311
9.	फाउंड्री जो कोयला इस्तेमाल करते हैं		
10.	खनिज इंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद ;	27	

	बिदुमिनस पदार्थ ; खनिज मोम		
11.	संश्लिष्ट रबड़ के उत्पाद	4002	24131
12.	सीमेंट कलीन्कर और एसबसटोस, कच्चा माल जिसमें फाइबर भी सम्मिलित हैं	2523 10 00, 2524	
13.	विस्फोटक (जिसमें औद्योगिक विस्फोटक, डिटोनेटर और फ्यूज, आतिशबाजी, माचिस, प्रोपलेंट पाउडर और दूसरे उत्पाद जो शीर्ष संख्या 3601 से 3606 के अंतर्गत आते हैं, भी सम्मिलित हैं)	3601 से 3606	24292
14.	खनिज और रासायनिक उर्वरक	3102 से 3105	2412
15.	कीटनाशक फंगसनाशक, हर्बनाशक और नाशक जीव मार (मूल विनिर्माण और निर्मिति)	3808	24211/ 24219
16.	फाइबर ग्लास और उसकी वस्तुएं	7019	26102
17.	लकड़ी की लुग्दी का विनिर्माण, यांत्रिक या रासायनिक (जिसके अंतर्गत घुलने वाली लुग्दी भी सम्मिलित है )	47	21011
18.	ब्रांड नाम वाले सोडावाटर या मृदु पेय (बिना फल आधारित)	2201 10 20 2202 10 10	15541/ 15542
19.	कागज	4801	21011 से 21019
	शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए लिखाई या छपाई वाला कागज या पेपर बोर्ड जिसके विनिर्माण में,-	4802 4802	
	(i) पल्प निकालने की मुख्य प्रक्रिया हाथ द्वारा की जाती है ; और		
	(ii) यदि शक्तिचालित पत्रक निर्माण उपस्कर का उपयोग किया जाता है, तो सिलेंडर मोल्ड वैट 40 इंच से अधिक का नहीं है ।		
	राष्ट्रीय दृश्य विकलांगता संस्थान, देहरादून द्वारा दी गई मांग पर्ची के संबंध में ब्रेल मुद्रणालय को प्रदाय किया गया मैपलिथो कागज	4802	
	न्यूज प्रिंट, रोल या शीटों में	4801	
	राष्ट्रीय दृश्य विकलांगता संस्थान, देहरादून द्वारा दी गई मांग पर्ची के संबंध में ब्रेल मुद्रणालय को प्रदाय किया गया क्राफ्ट कागज	4804	
	सैनिटरी टावल और टेम्पन्स, बच्चों के लिए नैपकिन और नैपकिन लाइनर और वैसी ही सैनिटरी वस्तुएं	4818	
	सिगरेट कागज, चाहे आकार के अनुसार काटा गया हो या नहीं या बुकलैट या ट्यूब के रूप में	4813	

ग्रीज प्रूफ कागज	4806 20 00
शीर्ष 4803 के टायलेट या फेशियल टिशु और अन्य माल	4803
आंतरिक रूप से बिटूमेन, तार या एस्फाल्ट से विलेपित पेपर और पेपर बोर्ड	4807
कार्बन या वैसे ही कार्पिंग पेपर	4809 10
पेपर की शीटों या पेपर बोर्डों से युक्त वे उत्पाद जो प्लास्टिक से संसेचित, विलेपित या आच्छादित हैं और टैरिफ मद 4811 41 00, 4811 49 00, 4811 51 00 या 4811 59 00 के अन्य माल	4811 41 00, 4811 49 00, 4811 51 00 या 4811 59 00
मोम से विलेपित, संसेचित या आच्छादित पेपर और पेपर बोर्ड और टैरिफ मद 4811 60 00 के अन्य माल	4811 60 00
20. प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं	3909 से 3915
21. उत्तरांचल राज्य में वे उद्योग जो दून वेली अधिसूचना (का.आ. 102(अ) तारीख 1 फरवरी, 1989) में अधिसूचित हैं, ये अधिसूचना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी जो समय-समय पर संशोधित की जाती है।	

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**टिप्पण :**—मूल अधिसूचना सं० 49/2003 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 जून, 2003 भारत के राजपत्र, साधारण में सा.का.नि. संख्या 471 (अ), तारीख 10 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 27/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 मई, 2005 [सा.का.नि. 325 (अ), तारीख 19 मई, 2005] द्वारा किया गया था।

Notification

No.13/2006-Central Excise

New Delhi, the 1st March 2006.  
10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 103(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 50/2003-Central Excise, dated the 10<sup>th</sup> June, 2003, which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 472(E), dated the 10<sup>th</sup> June, 2003, namely:-

In the said notification, for ANNEXURE-I, the following ANNEXURE-I shall be substituted, namely:-

## “ANNEXURE-I

Sl. No.	Good or Activity not to be exempted	Excise classification Chapter/ Heading / Sub-heading /tariff item	Sub-class under NIC classification 1998
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tobacco and tobacco products including cigarettes and pan masala	2401 to 2403 and 2106	1600
2.	Thermal Power Plant (coal and oil based)		40102/40103
3.	Coal washeries or dry coal processing		
4.	Inorganic chemicals excluding medicinal grade oxygen (2804 40 10), medicinal grade hydrogen peroxide (2847 00 00), compressed air (2851 00 30)	28	
5.	Organic chemicals excluding Provitamins or vitamins, hormones (2936 or 2937ides (2938), sugars (2940 00 00) Sugar reproduction by synthesis not allowed as also downstream industries for sugar	29	24117
6.	Tanning and dyeing extracts, tanins and their derivatives, dyes, colours, paints and varnishes, putty, fillers and other mastics, inks	32	24113/24114
7.	Marble and mineral substances not classified elsewhere	2502 00 00 2503 to 2522, 2525 to 2530	14106/14107
8.	Flour mill or rice mill	1101 00 00	15311
9.	Foundries using coal		
10.	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; Bituminous substances: Mineral waxes	27	
11.	Synthetic rubber products	4002	24131
12.	Cement clinkers and asbestos, raw including fibre	2523 10 00, 2524	
13.	Explosive (including industrial explosives, detonators and fuses, fireworks, matches, propellant powders and other goods of heading No.36.01 to 36.06)	3601 to 3606	24292
14.	Mineral and chemical fertilizers	3102 to 3105	2412
15.	Insecticides, fungicides, herbicides and pesticides (basic manufacture and formulation)	3808	24211/24219
16.	Fibre glass and articles thereof	7019	26102
17.	Manufacture of pulp-wood pulp, mechanical or chemical (including dissolving pulp)	47	21011
18.	Branded aerated water or soft drinks (non-fruit based)	2201 10 20 2202 10 10	15541/15542
19.	Paper	4801	21011 to 21019
	Writing or printing paper for printing of educational textbooks	4802	
	Paper or paperboard, in the manufacture of which,-	4802	
	(i) the principal process of lifting the pulp is done by hand; and		
	(ii) if power driven sheet forming equipment is used, the Cylinder Mould Vat does not exceed 40 inches		
	Maplitho paper supplied to a Braille press against an indent placed by the National Institute for Visually Handicapped, Dehradun	4802	



Newsprint, in rolls or sheets	4801
Kraft paper supplied to a Braille press against an indent placed by the National Institute for Visually Handicapped, Dehradun	4804
Sanitary towel and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles	4818
Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes	4813
Grease-proof paper	4806 20 00
Toilet or facial tissues and other goods	4803
Paper and paper board, laminated internally with bitumen, tar or asphalt	4807
Carbon or similar copying paper	4809 10
Products consisting of sheets of paper or paperboard, impregnated, coated or covered with plastics and other goods of tariff item 4811 41 00, 4811 49 00, 4811 51 00 or 4811 59 00	4811 41 00, 4811 49 00, 4811 51 00, or 4811 59 00
Paper and paper board, coated, impregnated or covered with wax and other goods of tariff item 4811 60 00	4811 60 00
20. Plastics and articles thereof	3909 to 3915
21. Industries, notified under the Doon Valley notification [S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989] as amended from time to time, issued by the Ministry of Environment and Forests, in the Doon Valley area of the State of Uttranchal.	

[F. No. 334/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

Note:— The principal notification No. 49/2003-Central Excise, dated the 10<sup>th</sup> June, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 471(E), dated the 10<sup>th</sup> June, 2003 and was last amended by notification No. 27/2005-Central Excise, dated the 19<sup>th</sup> May, 2005 [G.S.R. 325 (E), dated the 19<sup>th</sup> May, 2005].

अधिसूचना

सं० 14/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 104(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 29/ 2004 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 9 जुलाई, 2004 में, जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि.संख्या 420(अ) तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम सं० 1 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “ 5004 00 90, 5005 00 21, 5005 00 22, 5006 00 31, 5006 00 32, 5006 00 33 और 5006 00 39” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं० 2 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “5105 से 5113” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं० 3 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “5204 से 5212” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं० 4 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ 53 ( 5301, 5303, 5305 90 10, 5307, 5308 10 10 और 5308 10 90 के सिवाय )” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं० 5 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ 5401, 5404, 5405 00 00, 5407 और 5408” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) क्रम सं० 6 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ 5508 से 5516” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं० 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“ 7.	56 ( 5601 10 00, 5607 10 10, 5607 10 90, 5608 11 10 और 5608 11 90 के सिवाय)	सभी माल, - (i) सूती, जिसमें कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री नहीं है ; (ii) अन्य (टैरिफ मद 5601 22 00 के अधीन आने वाले सिगरेट फिल्टर राड के सिवाय);	4 %  8 %”

(viii) क्रम सं० 8 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “57” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं० 9 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “ 58 ( 5804 30 00, 5805 और 5807 के सिवाय)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) क्रम सं० 10 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “59” प्रविष्टि रखी जाएगी ; और

(xi) क्रम सं० 12 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “61, 62 और 63 (6309 00 00 और 6310 के सिवाय)” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**टिप्पणी :—** मूल अधिसूचना सं० 29/ 2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 9 जुलाई 2004 सा.का.नि.420(अ) तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और सा.का.नि. 259(अ) तारीख 2 मई, 2005 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 17/ 2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 2 मई, 2005 द्वारा अन्तिम बार संशोधित की गई थी ।

Notification	New Delhi, the 1st March, 2006
No. 14/ 2006-Central Excise	10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 104(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July 2004, published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 420 (E), dated the 9<sup>th</sup> July, 2004, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (2), the entry "5004 00 90, 5005 00 21, 5005 00 22, 5006 00 31, 5006 00 32, 5006 00 33 and 5006 00 39" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 2, for the entry in column (2), the entry "5105 to 5113" shall be substituted;
- (iii) against S. No.3, for the entry in column (2), the entry "5204 to 5212" shall be substituted;
- (iv) against S. No. 4, for the entry in column (2), the entry "53 (except 5301, 5303, 5305 90 10, 5307, 5308 10 10 and 5308 10 90)" shall be substituted;
- (v) against S. No.5, for the entry in column (2), the entry "5401, 5404, 5405 00 00, 5407 and 5408" shall be substituted;
- (vi) against S. No.6, for the entry in column (2), the entry "5508 to 5516" shall be substituted;
- (vii) against S.No.7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"7.	56 (except 5601 10 00, 5607 10 10, 5607 10 90, 5608 11 10 and 5608 11 90)	All goods,- (i) of cotton, not containing any other textile material (ii) others (except cigarette filter rods falling under tariff item 5601 22 00)	4% 8%";

- (viii) against S. No.8, for the entry in column (2), the entry "57" shall be substituted;
- (ix) against S. No. 9, for the entry in column (2), the entry "58 (except 5804 30 00, 5805 and 5807)" shall be substituted;
- (x) against S. No. 10, for the entry in column (2), the entry "59" shall be substituted; and
- (xi) against S. No. 12, for the entry in column (2), the entry "61, 62 and 63 (except 6309 00 00 and 6310)" shall be substituted.

[F.No.334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

**Note:**—The principal notification No.29/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July 2004, published vide G.S.R. 420 (E), dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 was last amended vide notification No. 17/2005-Central Excise, dated the 2<sup>nd</sup> May, 2005 published vide G.S.R. 259 (E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 2005.

अधिसूचना

सं० 15/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 105(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 30/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 9 जुलाई, 2004 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 421(अ) तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

(i) क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5004 से 5007” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5105 से 5113” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5204 से 5212” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “53(5301, 5303, 5305 90 10, 5307, 5308 10 10 और 5308 10 90 के सिवाय)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं० 5 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5401, 5404, 5405 00 00, 5407 और 5408” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) क्रम सं० 7 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5402 10 10, 5402 10 90, 5402 41 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 59 10, 5402 61 00, 5402 69 30 और 5406 10 00” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं० 8 के सामने, -

(क) स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5505” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में, “54.02, 54.03, 55.01, 55.02, 55.03 या 55.04” अंकों और अक्षर के स्थान पर, “ 5402, 5403, 5406, 5501, 5502, 5503 या 5504” अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(viii) क्रम सं० 9 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5508 से 5516” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं० 10 के सामने, -

(क) स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5506, 5507” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में, “55.01, 55.02, 55.03 और 55.04” अंकों और शब्द के स्थान पर, “5501, 5502, 5503 और 5504” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(x) क्रम सं० 11 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “56 (5601 10 00, 5607 10 10, 5607 10 90, 5608 11 10 और 5608 11 90 के सिवाय)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) क्रम सं० 12 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “57” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) क्रम सं० 13 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “58 (5804 30 00, 5805 और 5807 के सिवाय)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) क्रम सं० 14 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “59” प्रविष्टि रखी जाएगी ; और

(xiv) क्रम सं० 16 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “61, 62 और 63 (6309 00 00 और 6310 के सिवाय)” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**टिप्पण :—**मूल अधिसूचना सं० 29/2004 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्या 420 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 10/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा किया गया था जो [ सा.का.नि. 130(अ), तारीख 1 मार्च, 2005] प्रकाशित की गई थी ।

Notification	New Delhi, the 1st March, 2006
No.15/ 2006-Central Excise	10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 105(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 30/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July, 2004, published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 421 (E), dated the 9<sup>th</sup> July, 2004, namely:—

In the said notification, in the Table,—

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (2), the entry “5004 to 5007” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 2, for the entry in column (2), the entry “5105 to 5113” shall be substituted;
- (iii) against S. No.3, for the entry in column (2), the entry “5204 to 5212” shall be substituted;
- (iv) against S. No. 4, for the entry in column (2), the entry “53 (except 5301, 5303, 5305 90 10, 5307, 5308 10 10 and 5308 10 90)” shall be substituted;
- (v) against S. No.5, for the entry in column (2), the entry “5401, 5404, 5405 00 00, 5407 and 5408” shall be substituted;
- (vi) against S. No. 7, for the entry in column (2), the entry “5402 10 10, 5402 10 90, 5402 41 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 59 10, 5402 61 00, 5402 69 30 and 5406 10 00 ” shall be substituted;
- (vii) against S. No.8,—
  - (a) for the entry in column (2), the entry “5505” shall be substituted;
  - (b) in the entry in column (3), for the words and figures, “54.02, 54.03, 55.01, 55.02, 55.03 or 55.04”, the words and figures “5402, 5403, 5406, 5501, 5502, 5503 or 5504” shall be substituted;
- (viii) against S. No.9, for the entry in column (2), the entry “5508 to 5516” shall be substituted;
- (ix) against S. No.10,—
  - (a) for the entry in column (2), the entry “5506, 5507” shall be substituted;
  - (b) in the entry in column (3), for the words and figures, “55.01, 55.02, 55.03 and 55.04”, the words and figures “5501, 5502, 5503 and 5504” shall be substituted;
- (x) against S. No.11, for the entry in column (2), the entry “56 (except 5601 10 00, 5607 10 10, 5607 10 90, 5608 11 10 and 5608 11 90)” shall be substituted;
- (xi) against S. No.12, for the entry in column (2), the entry “57” shall be substituted
- (xii) against S. No. 13, for the entry in column (2), the entry “58 (except 5804 30 00, 5805 and 5807)” shall be substituted;
- (xiii) against S. No. 14, for the entry in column (2), the entry “59” shall be substituted; and
- (xiv) against S. No. 16, for the entry in column (2), the entry “61, 62 and 63 (except 6309 00 00 and 6310)” shall be substituted.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

**Note:—** The principal notification No.29/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July 2004, published vide G.S.R. 420 (E) dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 was last amended vide notification No. 10/2005-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005 published vide G.S.R. 130 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

अधिसूचना

सं० 16/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 106(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 46/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 17 मई, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 419 (अ) तारीख 17 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, “54.02” अंकों के दोनों स्थानों पर, “5402 या टैरिफ मद 5406 10 00” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

टिप्पण -- मूल अधिसूचना सं० 46/2003 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मई, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्या 419 (अ), तारीख 17 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Notification	New Delhi, the 1st March, 2006
No.16/ 2006-Central Excise	10 Phalguna, 1927 (Saka)

106

G.S.R. 106(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.46/2003-Central Excise, dated the 17<sup>th</sup> May, 2003, published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R. 419 (E), dated the 17<sup>th</sup> May, 2003, namely:-

In the said notification, for the figures “54.02” at both the places, the figures and words “5402 or tariff item 5406 10 00” shall be substituted.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

Note: The principal notification No. 46/2003-Central Excise, dated the 17<sup>th</sup> May 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary; vide number G.S.R. 419 (E), dated the 17<sup>th</sup> May 2003.

अधिसूचना

सं० 17/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 107(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 की उपधारा (3) और वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की धारा 169 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 17 जून, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 494 (अ) तारीख 17 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, “शीर्ष सं० 87.03 के अधीन आने वाले” शब्दों और अंकों के स्थान पर “शीर्ष सं० 87.03 के अधीन आने वाले चालक सहित सात व्यक्तियों तक के परिवहन के लिए” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

टिप्पण -- मूल अधिसूचना सं० 53/2003 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 जून, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्या 308 (अ), तारीख 17 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Notification	New Delhi, the 1st March, 2006
No.17/2006-Central Excise	10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 107(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), and section 169 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003) the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2003 -Central Excise, dated the 17<sup>th</sup> June, 2003, published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R. 494 (E), dated the 17<sup>th</sup> June, 2003, namely:-

In the said notification, for the words and figures “falling under heading No.87.03”, the words and figures “for transport of upto seven persons including the driver, falling under heading 8703” shall be substituted.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

Note: The principal notification No. 53/2003-Central Excise, dated the 17<sup>th</sup> June 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 308 (E), dated the 17<sup>th</sup> June 2003.



अधिसूचना

सं० 18/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006,

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 108(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/1996-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 308(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

(i) क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “15(1517 10 22, 1520 00 00, 1521 और 1522 के सिवाय)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “2202” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं० 5 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “2845 10 00” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं० 6 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “2851 00 30” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं० 7 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “3003, 3004” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) क्रम सं० 9 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “4011, 4012” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं० 10 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “4701 से 4706” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) क्रम सं० 11 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “4801” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं० 12 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “64” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) क्रम सं० 13 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “71” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) क्रम सं० 14 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “7319” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) क्रम सं० 15 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “7321, 7417” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) क्रम सं० 16 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “8539” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) क्रम सं० 17 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “9021” प्रविष्टि रखी जाएगी ; और

(xv) क्रम सं० 18 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “9608” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

टिप्पण -- मूल अधिसूचना सं० 10/1996 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं० 308 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 41/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 अगस्त, 2004 द्वारा किया गया था और सा.का.नि. 506(अ), तारीख 9 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Notification	New Delhi, the 1st March, 2006
No.18/ 2006-Central Excise	10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 108(E).**- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 10/1996-Central Excise, dated the 23<sup>rd</sup> July 1996, published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R.308(E), dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (2), the entry “15 (except 1517 10 22, 1520 00 00, 1521 and 1522)” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 3, for the entry in column (2), the entry “2202” shall be substituted;
- (iii) against S. No. 5, for the entry in column (2), the entry “2845 10 00” shall be substituted;
- (iv) against S. No. 6, for the entry in column (2), the entry “2851 00 30” shall be substituted;
- (v) against S. No. 7, for the entry in column (2), the entry “3003, 3004” shall be substituted;
- (vi) against S. No. 9, for the entry in column (2), the entry “4011, 4012” shall be substituted;
- (vii) against S. No. 10, for the entry in column (2), the entry “4701 to 4706” shall be substituted;
- (viii) against S. No. 11, for the entry in column (2), the entry “4801” shall be substituted;
- (ix) against S. No. 12, for the entry in column (2), the entry “64” shall be substituted;

- (x) against S. No. 13, for the entry in column (2), the entry "71" shall be substituted
- (xi) against S. No. 14, for the entry in column (2), the entry "7319" shall be substituted
- (xii) against S. No. 15, for the entry in column (2), the entry "7321, 7417" shall be substituted;
- (xiii) against S. No. 16, for the entry in column (2), the entry "8539" shall be substituted;
- (xiv) against S. No. 17 for the entry in column (2), the entry "9021" shall be substituted;
- (xv) against S. No. 18, for the entry in column (2), the entry "9608" shall be substituted;

[F.No.334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

Note: The principal notification No. 10/1996-Central Excise, dated the 23<sup>rd</sup> July 1996, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 308 (E), dated the 23<sup>rd</sup> July 1996, and was last amended by notification No.41/2004-Central Excise dated the 9<sup>th</sup> August 2004 and published vide number G.S.R. 506 (E) dated the 9<sup>th</sup> August 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

सं० 19/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 109(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.221/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1986 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 576(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम सं० 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	3920, 3921 (3921 11 00, 3921 12 00, 3921 13 10, 3921 13 90, 3921 14 00, 3921 19 00 और 3921 90 10 के सिवाय)	प्लास्टिक की पट्टियां	5404 90 20	पट्टियां और उसी तरह के सिंथेटिक टैक्सटाइल पदार्थ I";

(ii) क्रम सं० 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3.	3920, 3921 (3921 11 00, 3921 12 00, 3921 13 10, 3921 13 90, 3921 14 00, 3921 19 00 और 3921 90 10 के सिवाय)	प्लास्टिक की फिल्में	3920 या 5404 90 20	पट्टियां और प्लास्टिक जैसे तथा सिंथेटिक टैक्सटाइल पदार्थ जैसे I";

(iii) क्रम सं० 7 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “9103 या 9105” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं० 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9.	3302 10	सुवासक और सांघ्र	2202 10 10	वातित जल ।”;

(v) क्रम सं० 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“10.	68	प्लास्टर आफ पेरिस के मोल्ड जिनमें भार के आधार पर 25 प्रतिशत से अधिक लाल मिट्टी, गुथी मिट्टी या ब्लास्ट फरनेस स्लेग या उनमें से एक या अधिक सामग्री का उपयोग किया गया है	69	सेरामिक उत्पाद ।”।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं० 221/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1986, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 576(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 89/1989-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1989 को, जो सा.का.नि. सं. 218(अ) तारीख 1 मार्च, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी, किया गया था ।

#### Notification

No.19/2006-Central Excise

New Delhi, the 1<sup>st</sup> March 2006.

10 Phalguna, 1927 (SAKA)

**G.S.R. 109(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 221/86-Central Excise, dated the 2<sup>nd</sup> April, 1986 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.576(E), dated the 2<sup>nd</sup> April, 1986, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) for S.No.1, and the entries relating thereto, the following S.No. and the entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“1.	3920, 3921 (except 3921 11 00, 3921 12 00, 3921 13 10, 3921 13 90, 3921 14 00, 3921 19 00 and 3921 90 10)	Strips of plastics	5404 90 20	Strips and the like of synthetic textile material.”;

- (ii) for S.No.3, and the entries relating thereto, the following S.No. and the entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3.	3920, 3921 (except 3921 11 00, 3921 12 00, 3921 13 10, 3921 13 90, 3921 14 00, 3921 19 00 and 3921 90 10)	Films of plastics	3920 or 5404 90 20	Strips and the like of plastics and the like of synthetic textile material.”;

- (iii) against S.No.7, for the entry in column (4), the entry “9103 or 9105” shall be substituted;  
 (iv) for S.No.9, and the entries relating thereto, the following S.No. and the entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	330210	Flavouring essences and concentrates	2202 10 10	Aerated waters.”;

- (v) for S.No.10, and the entries relating thereto, the following S.No. and the entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10.	68	Plaster of Paris moulds, in which more than 25% by weight of red mud, press mud or blast furnace slag or one or more of their materials have been used	69	Ceramic products.”.

[F.No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

Note. - The principal notification No. 221/86-Central Excise dated the 2<sup>nd</sup> April 1986, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.576 (E), dated the 2<sup>nd</sup> April 1986, and was last amended vide notification No.89/1989-Central Excise dated the 1<sup>st</sup> March 1989, published vide number G.S.R. 218 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 1989.

अधिसूचना

सं० 20/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 110(अ).—**केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक और संशोधन करती है, अर्थात् :-

## सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	82/84 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 मार्च, 1984 [सा.का.नि. 250 (अ), तारीख 31 मार्च, 1984]	उक्त अधिसूचना की उद्देशिका और परन्तुक की मद (i) में, “89.01, 89.02, 89.04 और 89.05 (फ्लोटिंग या सबमर्सीबल ड्रिलिंग या उत्पादन प्लेटफार्मों के सिवाय) तथा 89.06” अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, “ 8901, 8902, 8904 और 8905 (फ्लोटिंग या सबमर्सीबल ड्रिलिंग या उत्पादन प्लेटफार्मों के सिवाय) तथा 8906” अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।
2.	214/86 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1986 [सा.का.नि. 547(अ), तारीख 25 मार्च, 1986]	उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (1) में “शीर्ष सं० 54.02” शब्द, अक्षर और अंकों के स्थान पर, “शीर्ष 5402 और टैरिफ मद 5406 10 00” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।
3.	198/87 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1987 [ सा.का.नि. 737(अ), तारीख 28 अगस्त, 1987]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, -  (i) क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-  “ उक्त अनुसूची के अध्याय 14, शीर्ष 1521, 1522, अध्याय 25 (शीर्ष 2515, 2523 और 2524 के सिवाय), शीर्ष 3805, 3807, 4409, 6807 से 6815, 9401, 9402 और 9403 के अधीन आने वाले सभी माल ।”;  (ii) क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-  “उक्त अनुसूची के अध्याय 13 के अधीन आने वाले ऐसे सभी माल, जिनके विनिर्माण में या उसके संबंध में कोई भी प्रक्रिया सामान्यतया विद्युत की सहायता से की जाती है, टैरिफ मद 3604 10 00, 3806 90 90, शीर्ष 4016, अध्याय 42 (सूटकेसों, बैगों, एक्जीक्यूटिव

		केसों, ब्रीफ केसों और सभी प्रकार के वेनिटी बैगों के सिवाय) और शीर्ष 4414 से 4421 के अधीन आने वाले सभी माल ।” ।
4.	88/88 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1988 [सा.का.नि. 277 (अ), तारीख 1 मार्च, 1988]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, -  (i) क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “64” प्रविष्टि रखी जाएगी ;  (ii) क्रम सं० 26 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “3401, 3402” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
5.	145/89 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19 मई, 1989 [सा.का.नि. 561(अ), तारीख 19 मई, 1989]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, -  (i) क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “8519” प्रविष्टि रखी जाएगी ;  (ii) क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “8520” प्रविष्टि रखी जाएगी ;  (iii) क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “8521” प्रविष्टि रखी जाएगी ;  (iv) क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “8523” प्रविष्टि रखी जाएगी ;  (v) क्रम सं० 5 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “8523” प्रविष्टि रखी जाएगी ;  (vi) क्रम सं० 6 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “8524” प्रविष्टि रखी जाएगी ;  (vii) क्रम सं० 7 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “8524” प्रविष्टि रखी जाएगी ;  (viii) क्रम सं० 8 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “8527” प्रविष्टि रखी जाएगी ;  (ix) क्रम सं० 9 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “8528” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
6.	74/93 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1993 [सा.का.नि. 246 (अ), तारीख 28 फरवरी, 1993]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, -  “ (i) क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

		<p>“उक्त अनुसूची के शीर्ष 2844, 2845, 2851, 3215, 6807 से 6815, 7307 से 7311, 7313 से 7326, 7412, 7414 से 7418, 7609 से 7613, 7615, 7616, 8302, 8307, 8308, 8310, 8311, 8401, 8425, 8517, 8530, टैरिफ मद 8534 00 00, शीर्ष 8537, 8538 टैरिफ मद 8548 90 00 और शीर्ष 9306 तथा 9406 के अधीन आने वाले सभी माल” ;</p> <p>(ii) क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-</p> <p>“शीर्ष 2801 (टैरिफ मद 2801 10 00 के सिवाय), 2804 (आक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सिलीकोन के सिवाय), 4414 से 4421, अध्याय 71, शीर्ष 7302, 7312, उपशीर्ष 7419 10, 7419 99, 8309 90 (टैरिफ मद 8309 90 10 के सिवाय) और शीर्ष 8536 के अधीन आने वाले सभी माल” ।</p>
7.	83/94 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 अप्रैल, 1994 [सा.का.नि. 375(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1994]	<p>उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में, -</p> <p>(I) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-</p> <p>“(ii) प्लास्टिक सामग्री जिसे सामान्यतः पोलिबिनाइल क्लोराइड कम्पाउंड (पी वी सी कम्पाउंड) के नाम से जाना जाता है, से संबंधित शीर्ष 3904 के अधीन आने वाला माल और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष 8413 के अधीन आने वाला सभी माल ;”;</p> <p>(II) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>“(क) यथास्थिति, जॉब वर्कर से प्राप्त विनिर्दिष्ट माल का उपयोग ऐसे प्रदाता के कारखाने में ऐसे विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में किया जाएगा जो पूर्वोक्त अधिसूचनाओं के अधीन उस पर उद्ग्रहीत संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है या उक्त अधिसूचना के शीर्ष 6401 से 6405, 7417, 8436, 8437, 8714 या 9608 या टैरिफ मद 7321 90 00, शीर्ष 8424 (ऐसे यांत्रिक साधित्रों के सिवाय जो कृषि या बागबानी में प्रयुक्त साधित्र नहीं हैं), टैरिफ मद 8481 8041, 8481 90 10 के अधीन आने वाला माल या उपशीर्ष 9017 20 के अधीन आने वाले ज्यामितीय और गणितीय उपकरण या शीर्ष 9405 के अधीन आने वाली कैरोसीन प्रेशर लालटेन और उनके भाग जिनमें कैरोसीन प्रेशर लालटेनों में उपयोग के लिए गैस मेंटल भी सम्मिलित हैं ; और” ।</p>
8.	84/94 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 अप्रैल, 1994 [सा.का.नि. 376 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 1994]	<p>उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में, -</p> <p>(I) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-</p> <p>“(ii) प्लास्टिक सामग्री जिसे सामान्यतः पोलिबिनाइल क्लोराइड कम्पाउंड (पी वी सी कम्पाउंड) के नाम से जाना जाता है, से संबंधित</p>



		<p>शीर्ष 3904 के अधीन आने वाला माल और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष 8413 के अधीन आने वाला सभी माल”;</p> <p>(II) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>“(क) यथास्थिति, वापसी पर विनिर्दिष्ट माल का उपयोग उक्त प्रदाता के कारखाने में ऐसे विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में किया जाएगा जो पूर्वोक्त अधिसूचनाओं के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से या उसके भाग से छूट प्राप्त है या उक्त अनुसूची के शीर्ष 6401 से 6405, 7417, 8436, 8437, 8714 या 9608 या टैरिफ मद 7321 90 00 या शीर्ष 8424 (ऐसे यांत्रिक साधित्रों के सिवाय जो कृषि या बागबानी में प्रयुक्त साधित्र प्रकार के नहीं हैं) या टैरिफ मद 8481 80 41, 8481 90 10 के अधीन आने वाला माल या उपशीर्ष 9017 20 के अधीन आने वाले ज्यामितीय और गणितीय उपकरण या शीर्ष 9405 के अधीन आने वाली कैरोसीन प्रेशर लालटेन और उनके भाग जिनमें कैरोसीन प्रेशर लालटेनों में उपयोग के लिए गैस मेंटल भी सम्मिलित हैं ; और” ।</p>
9.	62/95 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 [सा.का.नि. 254 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995]	<p>उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 16 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-</p> <p>“(i) अध्याय 86 के अधीन आने वाले सभी माल ।</p> <p>(ii) शीर्ष 2844, 2845, 2851, 3215, 6807 से 6815, 7307 से 7311, 7313 से 7326, 7412, 7414 से 7418, 7609 से 7613, 7615, 7616, 8302, 8307, 8308, 8310, 8311, 8401, 8425, 8517, 8530, टैरिफ मद 8534 00 00, शीर्ष 8537, 8538, टैरिफ मद 8548 90 00 और शीर्ष 9306 तथा 9406 के अधीन आने वाले सभी माल” ।</p> <p>(iii) शीर्ष 2801 (टैरिफ मद 2801 10 00 के सिवाय), 2804 (आक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सिलीकोन के सिवाय), 4414 से 4421, अध्याय 71, शीर्ष 7312, उपशीर्ष 7419 10, 7419 99, 8309 90 (टैरिफ मद 8309 90 10 के सिवाय) और शीर्ष 8536 के अधीन आने वाले सभी माल” ।</p>
10.	63/95 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 [सा.का.नि. 255 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995]	<p>उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 3 के सामने स्तम्भ (3) में मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-</p> <p>“(ii) पोत प्रांगण में शीर्ष 8901, 8902, 8904, 8905 (फ्लोटिंग या सबमर्सीबल ड्रिलिंग या उत्पादन प्लेटफार्मों को छोड़कर) या 8906 के अधीन आने वाले विनिर्माण के माल या मरम्मत में उपयोग के लिए आशयित ; और” ।</p>

11.	64/95 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 [सा.का.नि. 256 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, - (i) क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “शीर्ष 2402 के अधीन आने वाली सिगरटें” प्रविष्टि रखी जाएगी ; और (ii) क्रम सं० 12 के सामने स्तम्भ (2) में “शीर्ष सं० 85.07” शब्द, अक्षर और अंकों के स्थान पर “शीर्ष 8507” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।
12.	9/96 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 [सा.का.नि. 307(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, - (i) क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “2403 10 31” प्रविष्टि रखी जाएगी ; (ii) क्रम सं० 1क के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “2403 99” प्रविष्टि रखी जाएगी ; (iii) क्रम सं० 1ख के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “2403 10 10” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
13.	15/99 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 26 मार्च, 1999 [सा.का.नि. 227 (अ), तारीख 26 मार्च, 1999]	उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में, “उपशीर्ष सं० 2502.29” शब्द, अक्षर और अंकों के स्थान पर, “शीर्ष 2523 29” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।
14.	26/2001 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 मई, 2001 [सा.का.नि. 347 (अ), तारीख 11 मई, 2001]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, - (i) क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “2106” प्रविष्टि रखी जाएगी ; (ii) क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “2403 10 31” प्रविष्टि रखी जाएगी ; (iii) क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “2403 99” प्रविष्टि रखी जाएगी ; (iv) क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर “2403 10 10” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
15.	27/2001 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 मई, 2001 [सा.का.नि. 348 (अ), तारीख 11 मई, 2001]	उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में, “शीर्ष सं० 21.06” शब्द, अक्षर और अंकों के स्थान पर, “टैरिफ मद 2106 90 20” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।
16.	34/2001 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 जून, 2001	उक्त अधिसूचना में,-

	[सा.का.नि. 492(अ), तारीख 28 जून, 2001]	(i) उद्देशिका में, “केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम, 2001” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  “केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002”;  (ii) मद (i) में, “पन्द्रह हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे।
17.	52/2002 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 अक्टूबर, 2002 [सा.का.नि. 707(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2002]	उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में, “उपशीर्ष सं० 2106.00” शब्द, अक्षर और अंकों के स्थान पर, “टैरिफ मद 2106 90 20” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

टिप्पण :-

(1) मूल अधिसूचना सं० 82/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 मार्च, 1984, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अधीन जारी की गई थी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (4) के अधीन सुरक्षित रखी गई और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 250(अ) तारीख 31 मार्च, 1984 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 35/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 जून, 2001 [सा.का.नि.500(अ) तारीख 29 जून, 2001] द्वारा संशोधित की गई ;

(2) मूल अधिसूचना सं० 214/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1986, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अधीन जारी की गई थी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (4) के अधीन सुरक्षित रखी गई और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 547(अ) तारीख 25 मार्च, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 2/06-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 फरवरी, 2006 [सा.का.नि.63 (अ) तारीख 13 फरवरी, 2006] द्वारा संशोधित की गई ;

(3) मूल अधिसूचना सं० 198/87-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1987, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अधीन जारी की गई थी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (4) के अधीन सुरक्षित रखी गई और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 737(अ) तारीख 28 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 11/ 96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 [सा.का.नि.309 (अ) तारीख 23 जुलाई, 1996] द्वारा संशोधित की गई ;

- (4) मूल अधिसूचना सं० 88/88-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1988, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अधीन जारी की गई थी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (4) के अधीन सुरक्षित रखी गई और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 277(अ) तारीख 1 मार्च, 1988 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 16/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. 146(अ) तारीख 1 मार्च, 2003] द्वारा संशोधित की गई ;
- (5) मूल अधिसूचना सं० 145/89-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19 मई, 1989, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 561(अ) तारीख 19 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 96/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 26 मई, 1995 [सा.का.नि. 434(अ) तारीख 26 मई, 1995] द्वारा संशोधित की गई ;
- (6) मूल अधिसूचना सं० 74/93-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1993, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 246(अ) तारीख 28 फरवरी, 1993 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
- (7) मूल अधिसूचना सं० 83/94-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 अप्रैल, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 375(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 16/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. 146(अ) तारीख 1 मार्च, 2003] द्वारा संशोधित की गई ;
- (8) मूल अधिसूचना सं० 84/94-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 अप्रैल, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 376 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 16/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. 146(अ) तारीख 1 मार्च, 2003] द्वारा संशोधित की गई ;
- (9) मूल अधिसूचना सं० 62/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 254(अ) तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 30/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 5 जुलाई, 2005 [सा.का.नि. 455(अ) तारीख 5 जुलाई, 2005] द्वारा संशोधित की गई ;
- (10) मूल अधिसूचना सं० 63/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 255 (अ) तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 62/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 2003 [सा.का.नि. 617(अ) तारीख 31 जुलाई, 2003] द्वारा संशोधित की गई ;
- (11) मूल अधिसूचना सं० 64/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 256 (अ) तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 1/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 जनवरी, 2006 [सा.का.नि. 36(अ) तारीख 24 जनवरी, 2006] द्वारा संशोधित की गई ;
- (12) मूल अधिसूचना सं० 9/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 307(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 16/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. 146(अ) तारीख 1 मार्च, 2003] द्वारा संशोधित की गई ;

(13) मूल अधिसूचना सं० 15/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 26 मार्च, 1999, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 227(अ) तारीख 26 मार्च 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 16/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. 146(अ) तारीख 1 मार्च, 2003] द्वारा संशोधित की गई ;

(14) मूल अधिसूचना सं० 26/ 2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 मई, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 347(अ) तारीख 11 मई, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 16/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. 146(अ) तारीख 1 मार्च, 2003] द्वारा संशोधित की गई ;

(15) मूल अधिसूचना सं० 27/ 2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 मई, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 348 (अ) तारीख 11 मई, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 35/ 2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 जून, 2001 [सा.का.नि. 500(अ) तारीख 29 जून, 2001] द्वारा संशोधित की गई ;

(16) मूल अधिसूचना सं० 34/ 2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 जून, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 492 (अ) तारीख 28 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 7/ 2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 जून, 2002 [सा.का.नि. 128(अ) तारीख 28 जून, 2002] द्वारा संशोधित की गई ;

(17) मूल अधिसूचना सं० 52/ 2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 अक्टूबर, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 707(अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 16/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. 146(अ) तारीख 1 मार्च, 2003] द्वारा संशोधित की गई ;

#### Notification

New Delhi, the 1st March 2006.

No. 20/2006-Central Excise

10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 110(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby further amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

Table

S. No.	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	82/84-Central Excise, dated the 31 <sup>st</sup> March, 1984 [G.S.R. 250 (E), dated the 31 <sup>st</sup> March, 1984]	In the said notification, in the preamble and in the proviso, in item (i), for the figures, brackets and words “89.01, 89.02, 89.04 and 89.05 (excluding floating or submersible drilling or production platforms) and 89.06”, the figures, brackets and words “8901, 8902, 8904 and 8905 (excluding floating or submersible drilling or production platforms) and 8906” shall be substituted.
2.	214/86-Central Excise, dated the 25 <sup>th</sup> March, 1986 [G.S.R. 547 (E), dated the 25 <sup>th</sup> March, 1986]	In the said notification, in the TABLE, in column (1), for the word, letters and figures “heading No.54.02”, the words and figures “heading 5402 and tariff item 5406 10 00” shall be substituted.

3.	198/87-Central Excise, dated the 28 <sup>th</sup> August, 1987 [G.S.R.737(E), dated the 28 <sup>th</sup> August, 1987]	<p>In the said notification, in the TABLE,-</p> <p>(i) against S.No.2, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:-</p> <p>"All goods falling under Chapter 14, headings 1521, 1522, Chapter 25 (except headings 2515, 2523, and 2524), headings 3805, 3807, 4409, 6807 to 6815, 9401, 9402 and 9403 of the said Schedule.";</p> <p>(ii) against S.No.3, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:-</p> <p>"All goods falling under Chapter 13, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power, tariff items 3604 10 00, 3806 90 90, heading 4016, Chapter 42 (except suit cases, vanity cases, executive cases, brief cases and vanity bags of all sorts) and headings 4414 to 4421 of the said Schedule."</p>
4.	88/88-Central Excise, dated the 1 <sup>st</sup> March, 1988 [G.S.R.277(E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 1988]	<p>In the said notification, in the TABLE,-</p> <p>(i) against S.No.04, for the entry in column (2), the entry "64" shall be substituted;</p> <p>against S.No.26, for the entry in column (2), the entry "3401, 3402" shall be substituted.</p>
5.	145/89-Central Excise, dated the 19 <sup>th</sup> May, 1989 [G.S.R.561 (E), dated the 19 <sup>th</sup> May, 1989]	<p>In the said notification, in the TABLE,-</p> <p>(i) against S.No.1, for the entry in column (2), the entry "8519" shall be substituted;</p> <p>(ii) against S.No.2, for the entry in column (2), the entry "8520" shall be substituted;</p> <p>(iii) against S.No.3, for the entry in column (2), the entry "8521" shall be substituted;</p> <p>(iv) against S.No.4, for the entry in column (2), the entry "8523" shall be substituted;</p> <p>(v) against S.No.5, for the entry in column (2), the entry "8523" shall be substituted;</p> <p>(vi) against S.No.6, for the entry in column (2), the entry "8524" shall be substituted;</p> <p>(vii) against S.No.7, for the entry in column (2), the entry "8524" shall be substituted;</p> <p>(viii) against S.No.8, for the entry in column (2), the entry "8527" shall be substituted;</p> <p>(ix) against S.No.9, for the entry in column (2), the entry "8528" shall be substituted.</p>

6.	74/93-Central Excise, dated the 28th February, 1993 [G.S.R. 246(E), dated the 28th February, 1993]	<p>In the said notification, in the TABLE,-</p> <p>(i) against S.No.2, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:-</p> <p>“All goods falling under headings 2844, 2845, 2851, 3215, 6807 to 6815, 7307 to 7311, 7313 to 7326, 7412, 7414 to 7418, 7609 to 7613, 7615, 7616, 8302, 8307, 8308, 8310, 8311, 8401, 8425, 8517, 8530, tariff item 8534 00 00, headings 8537, 8538, tariff item 8548 90 00 and headings 9306 and 9406 of the said Schedule.”</p> <p>(ii) against S.No.3, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:-</p> <p>“All goods falling under headings 2801 (except tariff item 2801 10 00), 2804 (except Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, and Silicon), 4414 to 4421, Chapter 71, headings 7302, 7312, sub-headings 7419 10, 7419 99, 8309 90 (except tariff item 8309 90 10) and heading 8536”.</p>
7.	83/94-Central Excise, dated the 11 <sup>th</sup> April, 1994 [G.S.R.375(E), dated the 11 <sup>th</sup> April, 1994]	<p>In the said notification, in the preamble,-</p> <p>(I) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-</p> <p>“(ii) falling under heading 3904 relating to plastic material commonly known as polyvinyl chloride compounds (PVC compounds) and goods falling under heading 8413 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986),”</p> <p>(II) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-</p> <p>“(a) that the specified goods received from the job worker shall be used in the factory of such supplier in or in relation to the manufacture of specified goods which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon under the aforesaid notifications, or goods falling under headings 6401 to 6405, 7417, 8436, 8437, 8714 or 9608 or tariff item 7321 90 00, heading 8424 (except mechanical appliances which are not of a kind used in agriculture or horticulture), tariff items 8481 80 41, 8481 90 10, drawing and mathematical instruments falling under sub-heading 9017 20, or</p>

		kerosene pressure lanterns and parts thereof including gas mantles for use in kerosene pressure lanterns falling under heading 9405 of the said Schedule, as the case may be; and”.
8.	84/94-Central Excise, dated the 11 <sup>th</sup> April, 1994 [G.S.R.376(E), dated the 11 <sup>th</sup> April, 1994]	<p>In the said notification, in the preamble,-</p> <p>(I) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-</p> <p>“(ii) falling under heading 3904 relating to plastic material commonly known as polyvinyl chloride compounds (PVC compounds) and goods falling under heading 8413 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986),”</p> <p>(II) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-</p> <p>“(a) that the specified goods on return shall be used in the factory of the said supplier in or in relation to the manufacture of specified goods which are exempted from the whole or part of the duty of excise leviable thereon under the aforesaid notifications, or goods falling under headings 6401 to 6405, 7417, 8436, 8437, 8714 or 9608 or tariff item 7321 90 00, or heading 8424 (except mechanical appliances which are not of a kind used in agriculture or horticulture), or tariff items 8481 80 41, and 8481 90 10, or drawing and mathematical instruments falling under sub-heading 9017 20, or kerosene pressure lanterns and parts thereof including gas mantles for use in kerosene pressure lanterns falling under heading 9405 of the said Schedule, as the case may be; and”.</p>
9.	62/95-Central Excise, dated the 16 <sup>th</sup> March, 1995 [G.S.R.254 (E), dated the 16 <sup>th</sup> March, 1995]	<p>In the said notification, in the TABLE, against S.No.16, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:-</p> <p>“(i) All goods falling under Chapter 86</p> <p>(ii) All goods falling under headings 2844, 2845, 2851, 3215, 6807 to 6815, 7307 to 7311, 7313 to 7326, 7412, 7414 to 7418, 7609 to 7613, 7615, 7616, 8302, 8307, 8308, 8310, 8311, 8401, 8425, 8517, 8530, tariff item 8534 00 00, headings 8537, 8538, tariff item 8548 90 00 and headings 9306 and 9406</p> <p>(iii) All goods falling under headings 2801 (except tariff item 2801 10 00), 2804 (except Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, and Silicon), 4414 to 4421, Chapter 71, heading 7312, sub-headings 7419 10, 7419 99, 8309 90 (except tariff item 8309 90 10) and heading 8536”.</p>
10.	63/95-Central Excise, dated the 16 <sup>th</sup> March, 1995 [G.S.R.255 (E), dated the 16 <sup>th</sup> March, 1995]	<p>In the said notification, in the TABLE, against S.No.3, in column (3), for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-</p> <p>“(ii) intended for use in the manufacture or repair of goods falling under headings 8901, 8902, 8904, 8905 (excluding floating or submersible drilling or production platforms) or 8906 in a shipyard; and”.</p>
11.	64/95-Central Excise, dated the 16 <sup>th</sup> March, 1995 [G.S.R.256 (E), dated the 16 <sup>th</sup> March, 1995]	<p>In the said notification, in the TABLE,-</p> <p>(i) against S.No.4, for the entry in column (2), the entry “Cigarettes falling under heading 2402” shall be substituted; and</p> <p>(ii) against S.No.12, in column (2), for the word, letters and figures “heading No.85.07”, the word and figures “heading 8507” shall be substituted.</p>



12.	9/96-Central Excise, dated the 23 <sup>rd</sup> July, 1996 [G.S.R.307 (E), dated the 23 <sup>rd</sup> July, 1996]	In the said notification, in the TABLE,- (i) against S.No.1, for the entry in column (2), the entry "2403 10 31" shall be substituted; (ii) against S.No.1A, for the entry in column (2), the entry "2403 99" shall be substituted; (iii) against S.No.1B, for the entry in column (2), the entry "2403 10 10" shall be substituted.
13.	15/99-Central Excise, dated 26 <sup>th</sup> March, 1999 [G.S.R.227(E), dated the 26 <sup>th</sup> March, 1999]	In the said notification, in the preamble, for the word, letters and figures "sub-heading No.2502.29", the word and figures "heading 2523 29" shall be substituted.
14.	26/2001-Central Excise, dated the 11 <sup>th</sup> May, 2001 [G.S.R.347 (E), dated the 11 <sup>th</sup> May, 2001]	In the said notification, in the TABLE,- (i) against S.No.1, for the entry in column (2), the entry "2106" shall be substituted; (ii) against S.No.2, for the entry in column (2), the entry "2403 10 31" shall be substituted; (iii) against S.No.3, for the entry in column (2), the entry "2403 99" shall be substituted; (iv) against S.No.4, for the entry in column (2), the entry "2403 10 10" shall be substituted.
15.	27/2001-Central Excise, dated the 11 <sup>th</sup> May, 2001 [G.S.R.348 (E), dated the 11 <sup>th</sup> May, 2001]	In the said notification, in the preamble, for the word, letters and figures "heading No.21.06", the words and figures "tariff item 2106 90 20" shall be substituted.
16.	No.34/2001-Central Excise, dated the 28 <sup>th</sup> June, 2001 [G.S.R. 492(E), dated the 28 <sup>th</sup> June, 2001]	In the said notification,- (i) in the preamble, for "the Central Excise (No.2) Rules, 2001. The", the following shall be substituted, namely:- "the Central Excise Rules, 2002, the"; (ii) in item (i), for the words "Fifteen thousand rupees", the words "Thirty thousand rupees" shall be substituted.
17.	52/2002-Central Excise, dated the 17 <sup>th</sup> October, 2002 [G.S.R.707(E), dated the 17 <sup>th</sup> October, 2002]	In the said notification, in the preamble, for the words, letters and figures "sub-heading No.2106.00", the words and figures "tariff item 2106 90 20" shall be substituted.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

## Note.-

- (1) The principal notification number 82/84-Central Excise, dated the 31<sup>st</sup> March 1984, was issued under rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and saved under sub-section (4) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 250 (E), dated the 31<sup>st</sup> March 1984, and was last amended vide notification number 35/2001-Central Excise, dated the 29<sup>th</sup> June, 2001, [G.S.R. 500 (E), dated the 29<sup>th</sup> June, 2001];
- (2) The principal notification number 214/86-Central Excise, dated the 25<sup>th</sup> March, 1986 was issued under rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and saved under sub-section (4) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 547 (E), dated 25<sup>th</sup> March, 1986, and was last amended vide notification number 2/06-Central Excise, dated the 13<sup>th</sup> February, 2006, [G.S.R. 63 (E), dated the 13<sup>th</sup> February, 2006];
- (3) The principal notification number 198/87-Central Excise, dated the 28<sup>th</sup> August, 1987 was issued under rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and saved under sub-section (4) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 737 (E), dated 28<sup>th</sup> August, 1987, and was last amended vide notification number 11/96-Central Excise, dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996, [G.S.R. 309 (E), dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996];
- (4) The principal notification number 88/88-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 1988 was issued under rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and saved under sub-section (4) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 277 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 1988, and was last amended vide notification number 16/03-C.E, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, [G.S.R. 146 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003];
- (5) The principal notification number 145/89-Central Excise, dated the 19<sup>th</sup> May, 1989, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 561 (E), dated the 19<sup>th</sup> May, 1989, and was last amended vide notification number 96/95-Central Excise, dated the 26<sup>th</sup> May, 1995, [G.S.R. 434 (E), dated the 26<sup>th</sup> May, 1995];
- (6) The principal notification number 74/93-Central Excise, dated the 28<sup>th</sup> February, 1993, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 246 (E), dated the 28<sup>th</sup> February, 1993;
- (7) The principal notification number 83/94-Central Excise, dated the 11<sup>th</sup> April, 1994, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 375 (E), dated 11<sup>th</sup> April, 1994, and was last amended vide notification number 16/03-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, [G.S.R. 146 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003];
- (8) The principal notification number 84/94-Central Excise, dated the 11<sup>th</sup> April, 1994, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 376 (E), dated 11<sup>th</sup> April, 1994, and was last amended vide notification number 16/03-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, [G.S.R. 146 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003];
- (9) The principal notification number 62/95-Central Excise, dated the 16<sup>th</sup> March, 1995, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 254 (E), dated 16<sup>th</sup> March, 1995, and was last amended vide notification number 30/2005-Central Excise, dated the 5<sup>th</sup> July, 2005, [G.S.R. 455 (E), dated the 5<sup>th</sup> July, 2005];
- (10) The principal notification number 63/95-Central Excise, dated the 16<sup>th</sup> March, 1995, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 255 (E), dated 16<sup>th</sup> March,

- 1995, and was last amended vide notification number 62/-03-Central Excise, dated the 31<sup>st</sup> July, 2003, [G.S.R.617 (E), dated the 31<sup>st</sup> July, 2003];
- (11) The principal notification number 64/95-Central Excise, dated the 16<sup>th</sup> March, 1995, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R.256 (E), dated 16<sup>th</sup> March, 1995, and was last amended vide notification number 1/2006-Central Excise, dated the 24<sup>th</sup> January, 2006 [G.S.R.36 (E), dated the 24<sup>th</sup> January, 2006];
- (12) The principal notification number 9/96-Central Excise, dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.307 (E), dated 23<sup>rd</sup> July, 1996, and was last amended vide notification number 16/03-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, [G.S.R.146 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003];
- (13) The principal notification number 15/99-Central Excise, dated the 26<sup>th</sup> March, 1999, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.227(E), dated 26th March, 1999, and was last amended vide notification number 16/03-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, [G.S.R.146 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003];
- (14) The principal notification number 26/2001-Central Excise, dated the 11<sup>th</sup> May, 2001, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.347 (E), dated 11<sup>th</sup> May, 2001, and was last amended vide notification number 16/03-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, [G.S.R.146 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003];
- (15) The principal notification number 27/2001-Central Excise, dated the 11<sup>th</sup> May, 2001, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.348 (E), dated 11<sup>th</sup> May, 2001, and was last amended vide notification number 35/2001-Central Excise, dated the 29<sup>th</sup> June, 2001, [G.S.R.500 (E), dated the 29<sup>th</sup> June, 2001];
- (16) The principal notification No.34/2001-C.E. dated the 28<sup>th</sup> June, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 492(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2001, and was last amended vide notification No.7/2002-C.E. dated the 1<sup>st</sup> March, 2002 [G.S.R.128 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002].
- (17) The principal notification number 52/2002-Central Excise, dated the 17<sup>th</sup> October, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.707 (E), dated 17<sup>th</sup> October, 2002, and was last amended vide notification number 16/03-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, [G.S.R.146 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003].

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006,
सं० 21/2006- उत्पाद-शुल्क	10 फाल्गुन, 1927 (शक)

//

सा.का.नि. 111(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई थीं या किए जाने से जिनका लोप किया गया था, अर्थात् :-

- (i) सं० 115/75- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975, जिसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 39/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 मई, 2003 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 389 (अ), तारीख 8 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी ;
- (ii) सं० 313/77- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1977, जिसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 84/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 10 फरवरी, 1986 द्वारा किया गया था ;
- (iii) सं० 124/84- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 मई, 1984, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 402 (अ), तारीख 26 मई, 1984 ;
- (iv) सं० 215/84- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 नवम्बर, 1984, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 757 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 1984 ;
- (v) सं० 167/86- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1986, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 454 (अ), तारीख 1 मार्च, 1986 ;
- (vi) सं० 27/97- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 7 मई, 1997, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 246 (अ), तारीख 7 मई, 1997 ;
- (vii) सं० 6/2002- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 127 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 ;
- (viii) सं० 44/2003- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 मई, 2003, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 410 (अ), तारीख 14 मई, 2003 ;
- (ix) सं० 32/2004- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 423 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 ;
- (x) सं० 36/2004- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 427 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 ;
- (xi) सं० 4/2005- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 124 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 ;

(xii) सं० 13/2005- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 133 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 ;

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**Notification**

No.21/2006-Central Excise

**New Delhi, the 1st March 2006.**

10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 111(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), excepts as respects things done or omitted to be done before such recession, namely:-

- (i) No.115/75-Central Excise, dated the 30<sup>th</sup> April, 1975 and was last amended vide notification no. 39/2003 C.E dated the 8<sup>th</sup> of May, 2003 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide no G.S.R.389 (E) dated 8<sup>th</sup> May, 2003;
- (ii) No. 313/77-Central Excise, dated the 8<sup>th</sup> November 1977, and was last amended vide notification no. 84/86-Central Excise dated the 10<sup>th</sup> February 1986.
- (iii) No. 124/84-Central Excise, dated the 26<sup>th</sup> May 1984, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.402 (E), dated the 26<sup>th</sup> May 1984.
- (iv) No. 215/84-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> November 1984, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.757 (E), dated the 9<sup>th</sup> November 1984.
- (v) No. 167/86-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 1986, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.454 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 1986;
- (vi) No. 27/97-Central Excise, dated the 7<sup>th</sup> May, 1997, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.246 (E), dated the 7<sup>th</sup> May, 1997;
- (vii) No. 6/2002-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 127(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002;
- (viii) No. 44/2003-Central Excise, dated the 14<sup>th</sup> May 2003, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.410 (E), dated the 14<sup>th</sup> May 2003;
- (ix) No. 32/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July 2004, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.423 (E), dated the 9<sup>th</sup> July 2004;
- (x) No. 36/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July 2004, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.427 (E), dated the 9<sup>th</sup> July 2004;
- (xi) No. 4/2005-Central Excise; dated the 1<sup>st</sup> March 2005, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.124 (E), dated the 1<sup>st</sup> March 2005;
- (xii) No. 13/2005-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March 2005, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.133 (E), dated the 1<sup>st</sup> March 2005;

[F.No.334/3/2006-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006
सं० 22/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 112(ब).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के तत्कालीन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 23/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 31 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 266(अ) तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

(i) क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“इसी तरह के माल पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के योग के बराबर रकम से अधिक, मानो-

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क में से 75 प्रतिशत घटा दिया गया था, और

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन कोई अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं था :

परन्तु सीमा शुल्क के योग की गणना करते समय, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमा शुल्क को सम्मिलित किया जाएगा यदि घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किया गया माल विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर के संदाय से छूट प्राप्त है ।

दृष्टांत - मान लें कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन उत्पाद X का मूल्य 100 रूपए है और इस दृष्टांत के प्रयोजन के लिए मूल्यानुसार 10% के आधारिक सीमा शुल्क, मूल्यानुसार 20% के अतिरिक्त शुल्क से प्रभार्य है, तो संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित शुल्क की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी :

यदि यह छूट नहीं होती तो आधारिक सीमा शुल्क = 10 ₹0

इस छूट के कारण आधारिक उत्पाद शुल्क = 2.5 ₹0

अतिरिक्त शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए मूल्य = 100₹0 + 2.5₹0 = 102.5 ₹0

अतिरिक्त शुल्क = 102.5 ₹ का 20% = 20.50 ₹

इस छूट के पश्चात् संदेय कुल शुल्क = 2.5 ₹ + 20.5 ₹ = 23 ₹”;

(ii) क्रम सं० 5 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5208 से 5212” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं० 5क के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5208 से 5212” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं० 6 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं० 12 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “05” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) क्रम सं० 13 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “2306 90 17 और 2306 90 27” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं० 14 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “2309” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) क्रम सं० 15 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5202” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं० 16 के सामने स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5307, 5310, 57, 5801, 5802, 5806 या 6305” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

टिप्पण — मूल अधिसूचना सं० 23/2003 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं० 266 (अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 28/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 मई, 2005 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 332(अ), तारीख 20 मई, 2005 प्रकाशित की गई थी ।

NotificationNew Delhi, the 1<sup>st</sup> March, 2006

No. 22/2006-Central Excise

Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 112(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 23/2003-Central Excise, dated the 31<sup>st</sup> March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 266 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2003, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against S. No.2, for the entry in column (4), the following entry shall be substituted, namely:-

“In excess of the amount equal to the aggregate of duties of Customs leviable on like goods, as if,-

- (a) duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with any other notification in force was reduced by 75%, and  
(b) no additional duty of customs was leviable under sub-section (5) of the section 3 of the said Customs Tariff Act:

Provided that while calculating the aggregate of customs duties, additional duty of customs leviable under sub-section (5) of the section 3 of the Customs Tariff Act shall be included if the goods cleared into Domestic Tariff Area are exempt from payment of sales tax or value added tax.

*Illustration:* - Assuming product X has the value Rs.100/- under section 14 of the Customs Act, 1962, and for the purposes of this illustration, is chargeable to basic customs duty of 10% *ad valorem*, additional duty of 20% *ad valorem* only, then the computation of duty required to be paid would be as follows:

Basic Customs duty but for this exemption= Rs 10/-

Basic Customs duty because of this exemption= Rs.2.5/-

Value for the purposes of calculation of additional duty = Rs. 100/- + Rs. 2.5/- = Rs. 102.5/-

Additional duty= 20% of Rs.102.5/- = Rs.20.50/-.

Total duty payable after this exemption= Rs. 2.5/- +Rs. 20.5/- = Rs 23/-”;

- (ii) against S. No.5, for the entry in column (2), the entry “5208 to 5212” shall be substituted;  
(iii) against S. No.5A, for the entry in column (2), the entry “5208 to 5212” shall be substituted;  
(iv) against S. No. 6, for the entry in column (2), the entry “5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516” shall be substituted;  
(v) against S. No. 12, for the entry in column (2), the entry “05” shall be substituted;  
(vi) against S. No.13, for the entry in column (2), the entry “2306 90 17 and 2306 90 27” shall be substituted;  
(vii) against S. No. 14, for the entry in column (2), the entry “2309” shall be substituted;  
(viii) against S. No.15, for the entry in column (2), the entry “5202” shall be substituted;  
(ix) against S. No.16, for the entry in column (2), the entry “5307, 5310, 57, 5801, 5802, 5806 or 6305 ” shall be substituted.

[F.No.334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

Note: The principal notification No. 23/2003-Central Excise, dated the 31<sup>st</sup> March, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 266 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2003, and was last amended by notification No.28/2005-Central Excise dated the 20<sup>th</sup> May, 2005, and published vide number G.S.R. 332(E), dated the 20<sup>th</sup> May, 2005.



अधिसूचना

सं० 2/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

**सा.का.नि. 113(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 13/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित मान और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1986 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, उस माल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको उक्त उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे और उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित फुटकर विक्रय कीमत की प्रतिशतता उपशमन के रूप में अनुज्ञात करती है।

## सारणी

क्रम सं०	पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष	माल का वर्णन	फुटकर कीमत की प्रतिशतता का रूप में उपशमन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0402 91 10 या 0402 99 20	सांद्रित (संघनित) दुग्ध, चाहे मधुरित हो या न हो जो इकाई आधानों में रखे गए हैं और साधारण रूप से विक्रय के लिए आशयित	
2.	17 या 21	चीनी की अन्य विनिर्मितियां	40 प्रतिशत
3.	1702	चीनी सीरप जिसमें सुरुचिकारक या रंजक पदार्थ न मिलाए गए हों ; कृत्रिम शहद, चाहे उसमें प्राकृतिक शहद मिलाया गया हो या नहीं ; कैरामल	40 प्रतिशत
4.	1704	गोंद, चाहे चीनी विलेपित हो या नहीं (जिसके अंतर्गत चीविंग गम, बबल गम और उसी प्रकार की वस्तु है)	40 प्रतिशत
5.	1704 90	सफेद चाकलेट से भिन्न सभी माल	35 प्रतिशत
6.	1704 90	सफेद चाकलेट	40 प्रतिशत
7.	1805 00 00 या 1806 10 00	कोकोचूर्ण, चाहे उसमें चीनी या अन्य मधुरक पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं	35 प्रतिशत
8.	1806	किसी रूप में चाकलेट, चाहे उसमें गिरी, फल गिरी या फल अंतर्विष्ट हैं या नहीं जिसके अंतर्गत पेय चाकलेट भी हैं	35 प्रतिशत
9.	1806	कोको वाली अन्य खाद्य निर्मितियां	35 प्रतिशत

10.	1901 20 00 या 1901 90	सभी माल	35 प्रतिशत
11.	1902	सभी माल	35 प्रतिशत
12.	1904	सभी माल	35 प्रतिशत
13.	1905 31 00 या 1905 19 20	सभी माल	35 प्रतिशत
14.	1905 32 11 या 1905 32 90	वैफल और वैफर, चाकलेट सहित या चाकलेट विलेपित	35 प्रतिशत
15.	1905 32 90	वैफर बिस्किट से भिन्न सभी माल	40 प्रतिशत
16.	1905 32 19 या 1905 32 90	वैफर बिस्किट	35 प्रतिशत
17.	2101 11 या 2101 12 00	कॉफी के सत, सार और सांद्र तथा ऐसी विनिर्मितियां जो इन सतों, सारों, सांद्रों पर अथवा कॉफी पर आधारित हैं	35 प्रतिशत
18.	2102	सभी माल	35 प्रतिशत
19.	2105 00 00	आइस्क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका हो या नहीं	—
20.	2106 90 20, 2403	पान मसाला और तंबाकू युक्त पान मसाला	50 प्रतिशत
21.	2106 90 30	सभी माल	35 प्रतिशत
22.	2106	पैक किया हुआ तैयार खाना, टेक्सचराज, डिजिटल प्रोटीन (सोया बड़ी), और स्टॉन्ट फूड मिक्स जैसे प्याल मिक्स, वेडई मिक्स, पकौड़ा मिक्स, प्यासम मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स, रवा डोसा मिक्स, इडली मिक्स, डोसा मिक्स, मुरुक्कु मिक्स और केसरी मिक्स	37 प्रतिशत
23.	2106 90 11	शरबत	35 प्रतिशत
24.	2106 10 00, 2106 90 50, 2106 90 70, 2106 90 80, 2106 90 91 या 2106 90 99	सभी माल (उपरोक्त क्रम सं० 22 के सिवाय)	40 प्रतिशत
25.	2201 10 10, 2201 90 90, 2202 10 90, 2202 90 90	खनिज जल	50 प्रतिशत
26.	2201 10 20 या 2202 10 10	वातित जल	42.5 प्रतिशत
27.	2209	सिरका और ऐसेटिक अम्ल से अभिप्राप्त सिरका के लिए अनुकल्प	40 प्रतिशत

28.	2403 99 10 या 2403 99 20	सभी माल	50 प्रतिशत
29.	2523 21 00 या 2523 29	सफेद सीमेंट, चाहे उसमें कृत्रिम रंग मिलाया गया हो या नहीं और चाहे उसमें शीघ्र त्वरित ठोस होने का गुण हो या नहीं	35 प्रतिशत
30.	2710	स्नेहक तेल और स्नेहक विनिर्मितियां	40 प्रतिशत
31.	3204 20	फ्लोरोसेंट प्रदीपन अभिकर्मक या किसी ल्युमिनोफोर्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले संश्लिष्ट अकार्बनिक प्रकार के उत्पाद	35 प्रतिशत
32.	3206	ल्युमिनोफोर्स के रूप में प्रयुक्त प्रकार के पिगमेंट और अकार्बनिक उत्पादों से भिन्न सभी माल	35 प्रतिशत
33.	3208, 3209, 3210	सभी माल	40 प्रतिशत
34.	3212 90 20	घरेलू या प्रयोगशाला के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी प्रकार के फार्मी या छोटी पैकिंग में रखी जाने वाली डाइयां और अन्य रंजक पदार्थ	40 प्रतिशत
35.	3213	सभी माल	40 प्रतिशत
36.	3214	सभी माल	40 प्रतिशत
37.	3303, 3304, 3305 या 3307	सभी माल	40 प्रतिशत
38.	3306 10 20	टूथपेस्ट	35 प्रतिशत
39.	3401 19 या 3401 20 00	साबुन (उससे भिन्न जो कागज, वैडिंग, नमदा और अव्युतित, संसेचित, विलेपित या साबुन या अभिकर्मक से आच्छादित है)	35 प्रतिशत
40.	3401 11, 3401 19, 3402 3402 90 20 के सिवाय	कार्बनिक पृष्ठ सक्रिया उत्पाद और विनिर्मितियां जो बार, केक, संचन टुकड़े या आकृतियों के रूप में उपयोग के लिए हैं	35 प्रतिशत
41.	3403	स्नेहक विनिर्मितियां (जिनके अंतर्गत स्नेहकों पर आधारित कर्तन-तेल निर्मितियां, बोल्ट या नट विमोचन निर्मितियां, जंग रोधी या संक्षारण रोधी निर्मितियां और संच विमोचन निर्मितियां हैं)	35 प्रतिशत
42.	3405	जूतादि, फर्नीचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए पालिश और क्रीम, अभिमार्जन पेस्ट और पाउडर और वैसी ही निर्मितियां (चाहे वे ऐसे कागज, वैडिंग, नमदा, अव्युतित सामग्री, सेलूलर प्लास्टिक या सेलूलर रबड़ के रूप में हैं जो ऐसी विनिर्मितियों से संसेचित, विलेपित या आच्छादित हैं या नहीं) जिनके अंतर्गत शीर्ष सं० 3404 के मोम नहीं हैं	35 प्रतिशत
43.	3506	निर्मित संरेस और अन्य निर्मित आसंजक, जो अन्यत्र	40 प्रतिशत

		विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है	
44.	3702	सभी माल (एक्सरे और अननुभाषित सिनेमेटोग्राफिक फिल्म से भिन्न)	40 प्रतिशत
45.	3808	कीटनाशी, कृतकनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी और अंकुरण रोधी	35 प्रतिशत
46.	3808 40 00 या 3808 90 90	विसंक्रामक और वैसे ही उत्पाद	40 प्रतिशत
47.	3814 00 10	थिनर	40 प्रतिशत
48.	3819	हाइड्रालिक संचारण के लिए हाइड्रालिक ब्रेक तरल और अन्य निर्मित द्रव, जिनमें पेटोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से प्राप्त तेल नहीं है या भार के आधार पर 70 प्रतिशत से कम है	40 प्रतिशत
49.	3820 00 00	हिमकरणरोधी निर्मितियां और निर्मित विहिमन तरल	40 प्रतिशत
50.	3824 90 24 या 3824 90 90	फुटकर विक्रय के लिए पैकेजों में रखे गए स्टैंसिल शोधक और अन्य शोधक द्रव्य, स्याही अपसारक	40 प्रतिशत
51.	3919	प्लास्टिक की स्व-आसंजक टेप	40 प्रतिशत
52.	3923, 3924	विद्युत्तरोधी बर्तन	45 प्रतिशत
53.	4816	कार्बन कागज, स्वतः प्रतिलिपिकरण कागज, कागज की अनुलिपित्र स्टैंसिल	40 प्रतिशत
54.	4818 4818 40, 4818 50 00 के सिवाय	कागज की लुग्दी से निर्मित सफाई वाले या फेसियल टिशू, रुमाल और तौलिए, कागज, सेल्यूलोज वॉडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के वेब	40 प्रतिशत
55.	6401 से 6405	निम्नलिखित, अर्थात् :—  (i) 250 रु० से अधिक और 750 प्रतिजोड़ा से अनधिक खुदरा विक्रय मूल्य के जूतादि  (ii) सभी अन्य जूतादि	47 प्रतिशत  40 प्रतिशत
56.	6506 10	सुस्त्रा हेडगियर	40 प्रतिशत
57.	6907 10 10, 6907 90 10	कांचानित टाइलें, चाहे पालिश की गई हैं या नहीं	45 प्रतिशत
58.	6908	काचांकित टाइलें	45 प्रतिशत
59.	7321	कुकिंग अप्लाएंसस और प्लेट वार्मर (एलपीजी गैस स्टोव केवल बर्नर सहित, बिना किसी अन्य सुविधा के जैसे ग्रिल या अवन)	40 प्रतिशत
60.	7321	एलपीजी गैस स्टोव (केवल बर्नर सहित, बिना किसी अन्य सुविधा के जैसे ग्रिल या अवन)	35 प्रतिशत

61.	7323, 7615 19 10	प्रेशर कुकर	30 प्रतिशत
62.	7324	लौह या इस्पात के स्वच्छता सामान	40 प्रतिशत
63.	7418 20 10	ताम्र के स्वच्छता सामान	40 प्रतिशत
64.	8212	रेजर तथा रेजर ब्लेड्स (पट्टी में रेजर ब्लेड ब्लैक सहित)	40 प्रतिशत
65.	8305 20 00, 8305 90 20	आधार धातु के स्ट्रिप्स में स्टैपल, कागज क्लिपें	40 प्रतिशत
66.	8414 51, 8414 59	बिजली के पंखे	40 प्रतिशत
67.	8415	खिड़की कक्ष वातानुकूलक और 3 टन धारिता से अधिक विपाटित वातानुकूलक	30 प्रतिशत
68.	8418	प्रशीतित्र	40 प्रतिशत
69.	8421 21	घरेलू प्रयोजनों में उपयोग के लिए वाटर फिल्टर और जल परिशोधक	40 प्रतिशत
70.	8422 11 00, 8422 19 00	व्यंजन पात्र धावन मशीनें	35 प्रतिशत
71.	8450	घरेलू या लाण्ड्री प्ररूप धावन मशीनों, जिनके अंतर्गत ऐसी मशीनें भी हैं जो धावन और शुष्कन, दोनों, कार्य करती हैं	40 प्रतिशत
72.	8469	टाइपराइटर	35 प्रतिशत
73.	8470 (8470 40, 8470 50, 847090 के सिवाय)	परिकलन कृत्यों सहित परिकलन मशीनें और जेब-आकार का डाटा अभिलेखन, पुनरुत्पादन और प्रदर्शन मशीनें	40 प्रतिशत
74.	8472 90 10	स्टेप्लिंग मशीनें	40 प्रतिशत
75.	8506 8506 90 00 के सिवाय	प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां	40 प्रतिशत
76.	8509 8509 90 00 के सिवाय	विद्युत यांत्रिक घरेलू साधित्र, स्वतः अंतर्विष्ट विद्युत मोटर सहित	40 प्रतिशत
77.	8510 8510 90 00 के सिवाय	शेवर और केशप्रकर्तित्र और बाल सफाई साधित्र, स्वतः अंतःविष्ट विद्युत मोटर सहित	40 प्रतिशत
78.	8513 8513 90 00 के सिवाय	सुबाह्व विद्युत लैंप, जो अपने ही ऊर्जा स्रोत (उदाहरणार्थ शुष्क बैटरियों, संचायकों, मैग्नेटों) से कार्य करने के लिए अभिकल्पित हैं, शीर्ष सं० 8512 के प्रकाश उपस्कर से भिन्न	35 प्रतिशत
79.	8516	विद्युत तात्क्षणिक या भंडारण जल तापित्र और निमज्जन तापित्र, विद्युत स्पेस तापन उपकरण और विद्युत मृदा तापन उपकरण, विद्युत तापीय केश प्रसाधन उपकरण (उदाहरणार्थ केश शुष्कित्र, केशवलीयत्र, वलीयन टांग तापित्र) और हस्त शुष्कित्र, विद्युत मसृण इस्त्री, इसी प्रकार के अन्य विद्युत तापीय साधित्र, जिनका उपयोग	40 प्रतिशत

		घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है	
80.	8517 11, 8517 19 या 8517 21 00	टेलीफोन सेट, जिसके अंतर्गत बेतार हैंडसेट सहित टेलीफोन, वीडियो फोन, फेसिमिल मशीन	40 प्रतिशत
81.	8519, 8520	सभी माल	40 प्रतिशत
82.	8521	सभी माल	40 प्रतिशत
83.	8523	अनरिकार्डिड आडियो कैसेट	40 प्रतिशत
84.	8523, 8524	वीडियो कैसेट	40 प्रतिशत
85.	8523 20, 8524	चुंबकीय डिस्क	40 प्रतिशत
86.	8525	पेजर, सेलुलर या मोबाइल फोन	40 प्रतिशत
87.	8527	ट्रांजिस्टर सेट सहित रेडियों सेट जिनमें रेडियों संकेतों को प्राप्त करने और उन्हें श्रव्य उत्पाद में परिवर्तित करने की सुविधा हो किन्तु जिसमें उसी ढांचे में या उसके संलग्न ढांचे में किसी अन्य ध्वनि रिकार्डिंग या पुनःप्रस्तुतीकरण या घड़ी की कोई अन्य अतिरिक्त सुविधा प्रयुक्त न की गई हो	35 प्रतिशत
88.	8527	रेडियो प्रसारण के लिए प्राप्त करने वाला साधित्र चाहे वह उसी ढांचे में संयुक्त हो या नहीं और जिसमें ध्वनि रिकार्डिंग या पुनःप्रस्तुतीकरण साधित्र या घड़ी हो (क्र० सं० 86 के अधीन आने वाले माल से भिन्न)	40 प्रतिशत
89.	8528	टेलीविजन रिसीवर (जिसके अंतर्गत वीडियो मानीटर और वीडियो प्रोजेक्टर है) चाहे उसमें रेडियो प्रसारण रिसीवर या ध्वनि या वीडियो रिकार्डिंग अथवा पुनःप्रस्तुतीकरण के साधित्र लगे हों या नहीं	35 प्रतिशत
90.	8536	सभी माल	40 प्रतिशत
91.	8539	निम्नलिखित माल, अर्थात् :—  (i) टैरिफ मद 8539 31 10 के अंतर्गत आने वाले कम्पैक्ट प्रतिदीप्ति लैम्प (सीएफएल)  (ii) अन्य सभी माल	37 प्रतिशत  40 प्रतिशत
92.	9006	फोटोग्राफिक कैमरे (चलचित्र कैमरे से भिन्न)	35 प्रतिशत
93.	9101, 9102	ब्रेल घड़ियों से भिन्न, सभी माल	35 प्रतिशत
94.	9103, 9105	दीवार घड़ियां	45 प्रतिशत
95.	9612	सभी माल	35 प्रतिशत
96.	9617 00 11, 9607 00 12	निर्वात प्लास्क	40 प्रतिशत

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “खुदरा विक्रय मूल्य” से वह अधिकतम मूल्य अभिप्रेत है जिस पर उत्पाद शुल्क माल पैकेटों में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय किया जाता है और इसमें व्यौहारियों को संदेय सभी कर, स्थानीय या अन्यथा, भाड़ा, परिवहन प्रभार, कमीशन भी है और इसमें यथास्थिति, विज्ञापन, परिधान, पैकिंग, अग्रेषण और वैसे ही अन्य प्रभार भी हैं और ऐसे विक्रय के लिए कीमत अनन्य प्रतिफल है।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**Notification**New Delhi, the 1<sup>st</sup> March, 2006

No.2/2006-Central Excise (N.T)

10 Phalgun, 1927 (Saka)

**G.S.R. 113(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and sub-section (2) of section 4 A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and in supercession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2002-Central Excise (N.T.), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R 152(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Central Government hereby specifies the goods mentioned in Column (3) of the Table below and falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1986 (5 of 1986) mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, as the goods to which the provisions of the said sub-section (2) shall apply, and allows as abatement the percentage of retail sale price mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

**TABLE**

S. No.	Chapter or heading or sub heading of the First Schedule	Description of goods	Abatement as a percentage of retail sale price
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0402 91 10 or 0402 99 20	Concentrated (condensed) milk, whether sweetened or not, put up in unit containers and ordinarily intended for sale	-
2.	17 or 21	Preparations of other sugars	40%
3.	1702	Sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel	40%
4.	1704	Gums, whether or not sugar coated (including chewing gum, bubblegum and the like)	40%
5.	1704 90	All goods, other than white chocolate	35%
6.	1704 90	White chocolate	40%
7.	1805 00 00 or 1806 10 00	Cocoa powder, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	35%
8.	1806	Chocolates in any form, whether or not containing nuts, fruit kernels or fruits, including drinking chocolates	35%
9.	1806	Other food preparations containing cocoa	35%
10.	1901 20 00 or 1901 90	All goods	35%
11.	1902	All goods	-
12.	1904	All goods	35%
13.	1905 31 00 or 1905 19 20	Biscuits	35%

14.	1905 32 11 or 1905 32 90	Waffles and wafers, coated with chocolate or containing chocolate	35%
15.	1905 32 90	All goods, other than wafer biscuits	40%
16.	1905 32 19 or 1905 32 90	Wafer biscuits	35%
17.	2101 11 or 2101 12 00	Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee	35%
18.	2102	All goods	35%
19.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa	-
20.	2106 90 20, 2403	Pan masala and Pan Masala containing tobacco	50%
21.	2106 90 30	All goods	35%
22.	2106	Ready to eat packaged food, texturised vegetable proteins (Soya bari), and instant food mixes such as Pongal mix, Vadai mix, Pacoda mix, Payasam mix, Gulab jamun mix, Rava Dosa mix, Idli mix, dosai mix, Murruku mix, and Kesari mix.	37%
23.	2106 90 11	Sharbat	35%
24.	2106 10 00, 2106 90 50, 2106 90 70, 2106 90 80, 2106 90 91 or 2106 90 99	All goods (other than S.No 22 above)	40%
25.	2201 10 10, 2201 90 90, 2202 10 90, 2202 90 90	Mineral waters	50%
26.	2201 10 20 or 2202 10 10	Aerated waters	42.5%
27.	2209	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid	40%
28.	2403 99 10 or 2403 99 20	All goods	50%
29.	2523 21 00 or 2523 29	White cement, whether or not artificially coloured and whether or not with rapid hardening properties	35%
30.	2710	Lubricating oils and Lubricating preparations	40%
31.	3204 20	Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as a luminophores	35%
32.	3206	All goods other than pigments and inorganic products of a kind used as luminophores	35%
33.	3208, 3209, 3210	All goods	40%
34.	3212 90 20	Dyes and other colouring matter put up in forms or small packing of a kind used for domestic or laboratory purposes	40%
35.	3213	All goods	40%
36.	3214	All goods	40%
37.	3303, 3304, 3305 or 3307	All goods	40%
38.	3306 10 20	Toothpaste	35%
39.	3401 19 or 3401 20 00	Soap (other than paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with	35%



		soap or detergent)	
40.	3401 11, 3401 19, 3402 except 3402 90 20	Organic surface active products and preparations for use as soap in the form of bars, cakes, moulding pieces or shapes	35%
41.	3403	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparation and mould release preparations based on lubricants)	35%
42.	3405	Polishes and creams, for footwear furniture, floors, coachwork, glass or metal; scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading No. 3404	35%
43.	3506	Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included	40%
44.	3702	All goods (other than for X-ray and unexposed cinematographic films)	40%
45.	3808	Insecticides, fungicides, herbicides, weedicides and pesticides	35%
46.	3808 40 00 or 3808 90 90	Disinfectants and similar products	40%
47.	3814 00 10	Thinners	40%
48.	3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals	40%
49.	3820 00 00	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids	40%
50.	3824 90 24 or 3824 90 90	Stencil correctors and other correcting fluids, ink removers put up in packings for retail sale	40%
51.	3919	Self adhesive tapes of plastics	40%
52.	3923, 3924	Insulated ware	45%
53.	4816	Carbon paper, self-copy paper, duplicator stencils, of paper	40%
54.	4818 except 481840, 4818 50 00	Cleansing or facial tissues, handkerchiefs and towels, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres.	40%
55.	6401 to 6405	The following goods, namely:- (i) Footwear of retail sale price exceeding Rs 250/- and not exceeding Rs 750/- per pair (ii) All other footwear	37% 40%
56.	6506 10	Safety headgear	40%

57.	6907 10 10, 6907 90 10	Vitrified tiles, whether polished or not	45%
58.	6908	Glazed tiles	45%
59.	7321	Cooking appliances and plate warmers, other than LPG gas stoves (with burners only, without other functions such as, grills or oven)	40%
60.	7321	LPG gas stoves (with burners only, without other functions such as, grills or oven)	35%
61.	7323, 7615 19 10	Pressure Cookers	30%
62.	7324	Sanitary ware of iron or steel	40%
63.	7418 20 10	Sanitary ware of copper	40%
64.	8212	Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)	40%
65.	8305 20 00, 8305 90 20	Staples in strips, paper clips, of base metal	40%
66.	8414 51, 8414 59	Electric fans	40%
67.	8415	Window room air-conditioners and split air-conditioners of capacity upto 3 tonnes	30%
68.	8418	Refrigerators	40%
69.	8421 21	Water filters and water purifiers, of a kind used for domestic purposes	40%
70.	8422 11 00, 8422 19 00	Dish washing machines	35%
71.	8450	Household or laundry type washing machines, including machines which both wash and dry	40%
72.	8469	Typewriters	35%
73.	8470 (except 8470 40, 8470 50, 847090)	Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions	40%
74.	8472 90 10	Stapling machines	40%
75.	8506 except 8506 90 00	Primary cells and primary batteries	40%
76.	8509 except 8509 90 00	Electro-mechanical domestic appliances with self-contained electric motor	40%
77.	8510 except 8510 90 00	Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self contained electric motor	40%
78.	8513 except 8513 90 00	Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading No. 8512	35%
79.	8516	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hairdressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters)	40%

		and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes	
80.	8517 11, 8517 19 or 8517 21 00	Telephone sets including telephones with cordless handsets; video phones; facsimile machines	40%
81.	8519, 8520	All goods	40%
82.	8521	All goods	40%
83.	8523	Unrecorded audio cassettes	40%
84.	8523, 8524	Video cassettes	40%
85.	8523 20, 8524	Magnetic discs	40%
86.	8525	Pagers, cellular or mobile phones	40%
87.	8527	Radio sets including transistors sets, having the facility of receiving radio signals and converting the same into audio output with no other additional facility like sound recording or reproducing or clock in the same housing or attached to it	35%
88.	8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock (other than goods covered at S.No. 86)	40%
89.	8528	Television receivers (including video monitors and video projectors) whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus	35%
90.	8536	All goods	40%
91.	8539	The following goods, namely:- (i) Compact Fluorescent Lamp (CFL) falling under tariff item 8539 31 10 (ii) All other goods	37% 40%
92.	9006	Photographic (other than cinematographic) cameras	35%
93.	9101, 9102	All goods, other than braille watches	35%
94.	9103, 9105	Clocks	45%
95.	9612	All goods	35%
96.	9617 00 11, 9607 00 12	Vacuum flasks	40%

**Explanation.-** For the purposes of this notification "retail sale price" means the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like, as the case may be, and the price is the sole consideration for such sale.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006,
सं० 3/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(एन.टी.)	10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 114(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 16/98-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 2 जून, 1998 को जो भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि. सं० 312(अ) तारीख 2 जून, 1998 को प्रकाशित की गई थी अधिक्रान्त करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची की टैरिफ मद 2106 90 20 या शीर्ष 2403 के अधीन आने वाले उत्पाद-शुल्क्य माल की बाबत, पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर टैरिफ मूल्य नियत करती है।

#### सारणी

उत्पाद-शुल्क्य माल का विवरण	रकम
(1)	(2)
पान मसाला, खुदरा पैकेज में, -	
(1) यदि खुदरा विक्रय कीमत खुदरा पैक पर मुद्रित नहीं है, -	
(i) जिसमें प्रति पैक दो ग्राम से अधिक नहीं है	1.50 ₹ प्रति पैक यूनिट
(ii) जिसमें प्रति पैक दो ग्राम से अधिक है किन्तु चार ग्राम से अधिक नहीं है	3.00 ₹ प्रति पैक यूनिट
(iii) जिसमें प्रति पैक चार ग्राम से अधिक है किन्तु दस ग्राम से अधिक नहीं है	3.00 ₹ + चार ग्राम से अधिक प्रति ग्राम या उसके भाग पर 1.25 ₹
2. यदि खुदरा विक्रय कीमत खुदरा पैक पर मुद्रित है	मुद्रित खुदरा विक्रय कीमत का 50%

स्पष्टीकरण 1 - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “खुदरा विक्रय कीमत” से वह अधिकतम कीमत अभिप्रेत है जिस पर पैक रूप में उत्पाद-शुल्क्य माल अंतिम उपभोक्ता को बेचा जा सकेगा और उसमें सभी कर, स्थानीय या अन्य, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यौहारियों को संदेय कमीशन और विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण मदे तथा उसी प्रकार के सभी प्रभार सम्मिलित हैं और कीमत ऐसे विक्रय के लिए एक मात्र प्रतिफल है।

स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “खुदरा पैकेज” से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जिसमें ऐसा पान मसाला अंतर्विष्ट है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उपभोग के लिए खुदरा विक्रय अभिकरणों या अन्य परिकरणों के माध्यम से विक्रय के लिए उत्पादित, वितरित, प्रदर्शित, दर्शित या भंडारित किया जाता है।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

**Notification**

No.3/2006-Central Excise (N.T.)

New Delhi, the 1st March 2006.

10 Phalguna, 1927 (Saka)

**G.S.R. 114(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.16/98-Central Excise (N.T.), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1998, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.312(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1998, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby fixes tariff value in respect of the excisable goods, specified in column (1) of the Table below, and falling under tariff item 2106 90 20 or heading 2403 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), equivalent to the amount specified in the corresponding entry in column (2) of the Table aforesaid:-

TABLE

Description of excisable goods (1)	Amount (2)
Pan masala, in retail packages,-	
(1) If retail sale price is not printed on retail pack,-	
(i) containing not exceeding two grams per pack	Re. 1.50 per unit pack
(ii) containing more than 2 grams but not exceeding 4 grams per pack	Rs.3.00 per unit pack
(iii) containing more than 4 grams but not exceeding 10 grams per pack	Rs.3.00 +Rs.1.25 per gram or part thereof exceeding 4 grams
(2) If retail sale price is printed on the retail pack	50% of the printed retail sale price

**Explanation 1.**- For the purposes of this notification “retail sale price” means the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like and the price is the sole consideration for such sale.

**Explanation 2.** For the purposes of this notification, “retail package” means a package containing pan masala which is produced, distributed, displayed, delivered or stored for sale through retail sales agencies or other instrumentalities for consumption by an individual or a group of individuals.

[F.No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 1/2006- सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 115(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के सुसंगत उपखंडों में विनिर्दिष्ट वर्णन की कराधेय सेवा को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्तने सेवा कर से, जो ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा उक्त कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए भारित सकल रकम के उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर उस मूल्य पर संगणित सेवा कर से अधिक है, पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है :

सारणी

क्र.सं.	धारा 65 के खंड (105) का उपखंड	कराधेय सेवा का वर्णन	शर्तें	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(ड)	(1) मंडप का उपयोग, जिसके अंतर्गत ऐसे उपयोग के संबंध में और खानपान प्रभारों के लिए ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं भी हैं।	यह छूट केवल ऐसे मामलों में ही लागू होगी जहां मंडप का स्वामी खान-पान सेवाएं भी प्रदान करता है अर्थात् भोजन भी प्रदाय करता है और जारी किए गए बीजक, बिल या चालान में यह उपदर्शित किया जाता है कि इसमें खान-पान सेवा के लिए प्रभार सम्मिलित हैं।	60
		(2) ऐसे मामलों में जहां प्रदान की गई सेवाओं में खान-पान सेवाएं, अर्थात् भोजन प्रदाय करना भी सम्मिलित हैं, मंडप स्वामी के रूप में होटल द्वारा	जारी किए गए बीजक, बिल या चालान में यह उपदर्शित किया जाता है कि इसमें खान-पान सेवा के लिए प्रभार भी सम्मिलित हैं।	60

		प्रदान की गई कराधेय सेवा ।	स्पष्टीकरण — “होटल” पद से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो वाणिज्यिक आधार पर जनता को बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधाएं प्रदान करता है ।	
2.	(ढ)	<p>(क) किसी पर्यटन प्रचालक द्वारा किसी पर्यटन के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं, -</p> <p>(1) जहां पर्यटन प्रचालक एक पैकेज पर्यटन उपलब्ध कराता है ; या</p> <p>(2) जहां प्रदान की गई सेवाएं पैकेज पर्यटन से संबंधित पर्यटन से भिन्न पर्यटन के संबंध में हैं ।</p> <p>(ख) पर्यटन के संबंध में प्रदान की गई सेवा यदि पर्यटन प्रचालक पर्यटन के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए आवास की व्यवस्था कराने या बुकिंग कराने की ही सेवाएं देता है ।</p>	<p>इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए बिल में यह उपदर्शित है कि इसमें ऐसे पर्यटन के लिए प्रभार सम्मिलित हैं ।</p> <p>जारी किए गए बिल में यह उपदर्शित किया जाता है कि बिल में प्रभारित रकम ऐसे पर्यटन के लिए प्रभारित सकल रकम है ।</p> <p>स्पष्टीकरण- “पैकेज पर्यटन” पद से ऐसा पर्यटन अभिप्रेत है जिसमें पर्यटन पर जाने वाले व्यक्ति के परिवहन और रुकने के लिए आवास की सुविधा पर्यटन प्रचालक द्वारा प्रदान की जाती है ।</p> <p>(i) जारी किए गए बीजक, बिल या चालान में यह उपदर्शित है कि यह ऐसे आवास के लिए प्रभारों मद्दे है, और</p> <p>(ii) यह छूट ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां पर्यटन प्रचालक द्वारा ग्राहक को जारी किए गए बीजक, बिल या चालान में किसी पर्यटन के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए</p>	40

			आवास की व्यवस्था कराने या बुकिंग कराने के लिए सेवा प्रभार ही सम्मिलित हैं और ऐसे आवास का खर्च सम्मिलित नहीं है।	
3.	(ण)	कैब किराये पर देना	-	40
4.	(यग)	सम्मेलन का आयोजन करना, जहां प्रदान की गई सेवा में खान-पान सेवा भी सम्मिलित है।	ग्राहक से प्रभारित सकल रकम में खान-पान सेवा के लिए प्रभार सम्मिलित है।	60
5.	(ययघ)	किसी संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर का प्रदाय करने के लिए संविदा के अधीन संरचना खड़ी करना, कमीशन करना या स्थापन और ऐसे संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर को खड़ा करना, कमीशन करना या स्थापित करना।	यह छूट कमीशन या स्थापन करने वाले अभिकरण के लिए वैकल्पिक है। स्पष्टीकरण - ग्राहक से प्रभारित सकल रकम में कमीशन करने और स्थापन अभिकरण द्वारा संरचना खड़ी करने, कमीशन करने या स्थापन सेवा प्रदान करने के दौरान बेचे गए संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, पुर्जों और किसी अन्य सामग्री का मूल्य सम्मिलित है।	33
6.	(ययत)	सड़क द्वारा माल वाहक में माल का परिवहन	—	25
7.	(ययथ)	वाणिज्यिक या औद्योगिक सन्निर्माण सेवा	यह छूट ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां प्रदान की गई कराधेय सेवाएं वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (25ख) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भवन या सिविल संरचना के संबंध में उसके पूरा होने पर ही प्रदान की गई हैं और फिनिशिंग सेवाएं हैं। स्पष्टीकरण - भारित सकल रकम में ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए सन्निर्माण सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय किए गए या प्रदान	33



			किए गए या उपयोग किए गए माल और सामग्री का मूल्य भी सम्मिलित है ।	
8.	(ययन)	खान-पान	यह छूट ऐसे मामलों में लागू होगी जहां, -- (i) बाहरी खान-पान प्रबंधक भोजन भी प्रदान करता है ; और (ii) जारी किए गए बीजक, बिल या चालान में यह उपदर्शित किया जाता है कि इसमें भोजन प्रदाय के लिए प्रभार भी सम्मिलित है ।	50
9.	(ययब)	किसी तरह के पंडाल या शामियाना के संबंध में सेवाएं जिसके अंतर्गत खान-पान के रूप में प्रदान की गई सेवाएं भी हैं ।	यह छूट केवल उन मामलों में लागू होगी जहां, - (i) पंडाल या शामियाना ठेकेदार खान-पान सेवाएं भी प्रदान करता है, अर्थात् भोजन भी प्रदाय करता है ; और (ii) जारी किए गए बीजक, बिल या चालान में यह उपदर्शित किया जाता है कि इसमें खान-पान सेवा के लिए प्रभार भी सम्मिलित है ।	70
10.	(यययज)	कम्प्लैक्स का सन्निर्माण	यह छूट उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां प्रदान की गई कराधेय सेवाएं वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (30क) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट आवासीय कम्प्लैक्स के पूरा होने पर प्रदान की गई हैं और उसके संबंध में फिनिशिंग सेवाएं हैं । स्पष्टीकरण - प्रभारित सकल रकम में सेवा प्रदाता द्वारा कराधेय सेवा प्रदान करने के	33

			लिए प्रदाय किए गए या प्रदान किए गए या उपयोग किए गए माल और सामग्री का मूल्य भी सम्मिलित होगा।	
--	--	--	--	--

1. तदनु, यह अधिसूचना ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां, -

(i) ऐसी कसघेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश या पूंजीगत माल पर शुल्क का मूल्यवर्धित कर प्रत्यय या निवेश सेवाओं पर सेवा कर का मूल्य वर्धित कर प्रत्यय, मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन किया गया है ; या

(ii) सेवा प्रदाता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2003 - सेवा कर, तारीख 20 जून, 2003 [ सा.का.नि. 503(अ), तारीख 20 जून, 2003] के अधीन फायदा प्राप्त कर लिया है।

स्पष्टीकरण -- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, “भोजन” पद से सारवान और संतुष्टिदायक आहार अभिप्रेत है तथा “खान-पान सेवा” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

जी. जी. पई, अवर सचिव

Notification	New Delhi, the 1 <sup>st</sup> March, 2006.
No. 1/2006-Service Tax	10 Phalgun, 1927 (Saka)

11  
G.S.R. 115(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service of the description specified in column (3) of the Table below and specified in the relevant sub-clauses of clause (105) of section 65 of the Finance Act, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act, as is in excess of the service tax calculated on a value which is equivalent to a percentage specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table, of the gross amount charged by such service provider for providing the said taxable service, subject to the relevant conditions specified in the corresponding entry in column (4) of the Table aforesaid:

Table

S. No	Sub-clause of clause (105) of Section 65	Description of taxable service	Conditions	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(m)	(1) The use of mandap, including the facilities provided to the client in relation to such use and also for the catering charges.	This exemption shall apply only in such cases where the mandap keeper also provides catering services, that is, supply of food and the invoice, bill or challan issued indicates that it is inclusive of the charges for catering service.	60

[illegible]

6.	(zzp)	Transport of goods by road in a goods carriage.		25
7.	(zzq)	Commercial or industrial construction service.	This exemption shall not apply in such cases where the taxable services provided are only completion and finishing services in relation to building or civil structure, referred to in sub-clause (c) of clause (25b) of section 65 of the Finance Act. <i>Explanation.-</i> The gross amount charged shall include the value of goods and materials supplied or provided or used by the provider of the construction service for providing such service.	33
8.	(zzt)	Catering.	This exemption shall apply in cases where,- (i) the outdoor caterer also provides food; and (ii) the invoice, bill or challan issued indicates that it is inclusive of charges for supply of food.	50
9.	(zzw)	Services in relation to pandal or shamiana in any manner, including services rendered as a caterer.	This exemption shall apply only in cases where,- (i) the pandal or shamiana contractor also provides catering services, that is, supply of food; and (ii) the invoice, bill or challan issued indicates that it is inclusive of charges for catering service.	70
10.	(zzzh)	Construction of complex.	This exemption shall not apply in cases where the taxable services provided are only completion and finishing services in relation to residential complex, referred to in sub-clause (b) of clause (30a) of section 65 of the Finance Act. <i>Explanation.-</i> The gross amount charged shall include the value of goods and materials supplied or provided or used for providing the taxable service by the service provider.	33

Provided that this notification shall not apply in cases where, -

- (i) the CENVAT credit of duty on inputs or capital goods or the CENVAT credit of service tax on input services, used for providing such taxable service, has been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004; or
- (ii) the service provider has availed the benefit under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2003-Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2003[G.S.R. 503 (E), dated the 20th June, 2003].

*Explanation.-* For the purposes of this notification, the expression “food” means a substantial and satisfying meal and the expression “catering service” shall be construed accordingly.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

## अधिसूचना

सं० 2/2006- सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 116(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, उन बातों के सिवाय 1 मार्च, 2006 से विखंडित करती है, जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई थीं या जिनका करने से लोप किया गया था, अर्थात् :-

## सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या, उसकी सा.का.नि. संख्या और तारीख
(1)	(2)
1.	21/97 सेवा कर, तारीख 26 जून, 1997 [सा.का.नि.347(अ), तारीख 26 जून, 1997]
2.	39/97 सेवा कर, तारीख 22 अगस्त, 1997 [सा.का.नि.481(अ), तारीख 22 अगस्त, 1997]
3.	40/97 सेवा कर, तारीख 22 अगस्त, 1997 [सा.का.नि.482(अ), तारीख 22 अगस्त, 1997]
4.	59/98 सेवा कर, तारीख 16 अक्टूबर, 1998 [सा.का.नि.624(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 1998]
5.	12/2001 सेवा कर, तारीख 20 दिसम्बर, 2001 [सा.का.नि.907(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2001]
6.	8/2003 सेवा कर, तारीख 20 जून, 2003 [सा.का.नि.499(अ), तारीख 20 जून, 2003]
7.	11/2003 सेवा कर, तारीख 20 जून, 2003 [सा.का.नि.502(अ), तारीख 20 जून, 2003]
8.	19/2003 सेवा कर, तारीख 21 अगस्त, 2003 [सा.का.नि.677(अ), तारीख 21 अगस्त, 2003]
9.	2/2004 सेवा कर, तारीख 5 फरवरी, 2004 [सा.का.नि.101(अ), तारीख 5 फरवरी, 2004]
10.	9/2004 सेवा कर, तारीख 9 जुलाई, 2004 [सा.का.नि.435(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004]
11.	10/2004 सेवा कर, तारीख 9 जुलाई, 2004 [सा.का.नि.436(अ), तारीख 9 जुलाई,

	2004]
12.	15/2004 सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि.589(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004]
13.	16/2004 सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि.590(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004]
14.	19/2004 सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि.593(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004]
15.	20/2004 सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि.594(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004]
16.	21/2004 सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि.595(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004]
17.	22/2004 सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि.596(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004]
18.	32/2004 सेवा कर, तारीख 3 दिसम्बर, 2004 [सा.का.नि.787(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2004]
19.	18/2005 सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005 [सा.का.नि.360(अ), तारीख 7 जून, 2005]

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

जी. जी. पई, अवर सचिव

टिप्पण

(1) मूल अधिसूचना सं० 21/97-सेवा कर, तारीख 26 जून, 1997 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 26 जून, 1997 में सा.का.नि. संख्या 347(अ), तारीख 26 जून, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्या 586(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/ 2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004, द्वारा संशोधित की गई थी ।

(2) मूल अधिसूचना सं० 39/97-सेवा कर, तारीख 22 अगस्त, 1997 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 22 अगस्त, 1997 में सा.का.नि. संख्या 481(अ), तारीख 22 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्या 586(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/ 2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी ।

(3) मूल अधिसूचना सं० 40/97-सेवा कर, तारीख 22 अगस्त, 1997 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 22 अगस्त, 1997 में सा.का.नि. संख्या 482(अ), तारीख 22 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्या 586(अ) तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/ 2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी ।

(4) मूल अधिसूचना सं० 59/98-सेवा कर, तारीख 16 अक्टूबर, 1993, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 अक्टूबर, 1998 में सा.का.नि. संख्या 624(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्या 543 (अ) तारीख 1 अगस्त, 2002 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 15/ 2002-सेवा कर, तारीख 1 अगस्त, 2002 द्वारा संशोधित की गई और अन्तिम बार सा.का.नि. संख्या 403(अ), तारीख 14 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/ 2003-सेवा कर, तारीख 14 मई, 2003 द्वारा संशोधित की गई थी ।

(5) मूल अधिसूचना सं० 12/2001-सेवा कर, तारीख 20 दिसम्बर, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 20 दिसम्बर, 2001 में सा.का.नि. संख्या 907(अ) तारीख 20 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्या 154(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/2002 सेवा-कर, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. संख्या 157(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3/ 2003-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. संख्या 434(अ) तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 8/2004-सेवा कर, तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी और अन्तिम बार सा.का.नि. संख्या 586 (अ) तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 12 / 2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी ।

(6) मूल अधिसूचना सं० 8/ 2003-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 20 जून, 2003, में सा.का.नि. संख्या 499(अ) तारीख 20 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्या 586(अ) तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/ 2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी ।

(7) मूल अधिसूचना सं० 11/ 2003-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 20 जून, 2003 में सा.का.नि. संख्या 502(अ) तारीख 20 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी

(8) मूल अधिसूचना सं० 19/2003-सेवा कर, तारीख 21 अगस्त, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 21 अगस्त, 2003 में सा.का.नि. संख्या 677 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्या 586(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि.12/ 2004 - सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी ।

(9) मूल अधिसूचना सं० 2/ 2004-सेवा कर, तारीख 5 फरवरी, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 5 फरवरी, 2004 में सा.का.नि. संख्या 101(अ), तारीख 5 फरवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्या 434(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 8/2004-सेवा कर, तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी और अन्तिम बार सा.का.नि. संख्या 586(अ) तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 12/2004-सेवा कर तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी ।

(10) मूल अधिसूचना सं० 9/2004-सेवा कर, तारीख 9 जुलाई, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 9 जुलाई, 2004 में सा०का०नि० सं० 435(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा०का०नि० सं० 586(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 12/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी।

(11) मूल अधिसूचना सं० 10/2004-सेवा कर, तारीख 9 जुलाई, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 9 जुलाई, 2004 में सा०का०नि० सं० 436(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा०का०नि० सं० 586(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 12/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी।

(12) मूल अधिसूचना सं० 15/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 सितम्बर, 2004 में सा०का०नि० सं० 589(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा०का०नि० सं० 361(अ), तारीख 7 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 19/2005-सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005 द्वारा संशोधित की गई थी।

(13) मूल अधिसूचना सं० 16/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 सितम्बर, 2004 में सा०का०नि० सं० 590(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(14) मूल अधिसूचना सं० 19/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 सितम्बर, 2004 में सा०का०नि० सं० 593(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(15) मूल अधिसूचना सं० 20/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 सितम्बर, 2004 में सा०का०नि० सं० 594(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(16) मूल अधिसूचना सं० 21/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 सितम्बर, 2004 में सा०का०नि० सं० 595(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(17) मूल अधिसूचना सं० 22/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 सितम्बर, 2004 में सा०का०नि० सं० 596(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(18) मूल अधिसूचना सं० 32/2004-सेवा कर, तारीख 3 दिसंबर, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 3 दिसंबर, 2004 में सा०का०नि० सं० 787(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।



(19) मूल अधिसूचना सं० 18/2005-सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 7 जून, 2005 में सा०का०नि० सं० 360(अ), तारीख 7 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Notification	New Delhi, the 1 <sup>st</sup> March, 2006.
No. 2/2006-Service Tax	10 Phalguna, 1927 (Saka)

G.S.R. 116(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as specified in column (2) of the Table below, except as respects things done or omitted to be done before such rescission with effect from the 1<sup>st</sup> day of March, 2006, namely:-

Table

S.No.	Notification Number, its G.S.R. number and date
(1)	(2)
1.	21/97-Service Tax, dated the 26 <sup>th</sup> June, 1997 [G.S.R. 347(E), dated the 26 <sup>th</sup> June, 1997];
2.	39/97-Service Tax, dated the 22 <sup>nd</sup> August, 1997 [G.S.R. 481(E), dated the 22 <sup>nd</sup> August, 1997];
3.	40/97-Service Tax, dated the 22 <sup>nd</sup> August, 1997 [G.S.R. 482(E), dated the 22 <sup>nd</sup> August, 1997];
4.	59/98-Service Tax, dated the 16 <sup>th</sup> October, 1998 [G.S.R. 624(E), dated the 16 <sup>th</sup> October, 1998];
5.	12/2001-Service Tax, dated the 20 <sup>th</sup> December, 2001 [G.S.R. 907(E), dated the 20 <sup>th</sup> December, 2001];
6.	8/2003-Service Tax, dated the 20 <sup>th</sup> June, 2003 [G.S.R. 499(E), dated the 20 <sup>th</sup> June, 2003];
7.	11/2003-Service Tax, dated the 20 <sup>th</sup> June, 2003 [G.S.R. 502(E), dated the 20 <sup>th</sup> June, 2003];
8.	19/2003-Service Tax, dated the 21 <sup>st</sup> August, 2003 [G.S.R. 677(E), dated the 21 <sup>st</sup> August, 2003];
9.	2/2004-Service Tax, dated the 5 <sup>th</sup> February, 2004 [G.S.R. 101(E), dated the 5 <sup>th</sup> February, 2004];
10.	9/2004-Service Tax, dated the 9 <sup>th</sup> July, 2004 [G.S.R. 435(E), dated the 9 <sup>th</sup> July, 2004];
11.	10/2004-Service Tax, dated the 9 <sup>th</sup> July, 2004 [G.S.R. 436(E), dated the 9 <sup>th</sup> July, 2004];
12.	15/2004-Service Tax, dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004 [G.S.R. 589(E), dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004];
13.	16/2004-Service Tax, dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004 [G.S.R. 590(E), dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004];
14.	19/2004-Service Tax, dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004 [G.S.R. 593(E), dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004];
15.	20/2004-Service Tax, dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004 [G.S.R. 594(E), dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004];
16.	21/2004-Service Tax, dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004 [G.S.R. 595(E), dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004];
17.	22/2004-Service Tax, dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004 [G.S.R. 596(E), dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004];
18.	32/2004-Service Tax, dated the 3 <sup>rd</sup> December, 2004 [G.S.R. 787(E), dated the 3 <sup>rd</sup> December, 2004];
19.	18/2005-Service Tax, dated 7 <sup>th</sup> June, 2005 [G.S.R. 360(E), dated the 7 <sup>th</sup> June, 2005].

[F.No.334/3/2006-TRU]

AJAY, Under Secy.

## Note:

- (1) The principal notification No. 21/97-Service Tax, dated the 26<sup>th</sup> June, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 26<sup>th</sup> June, 1997, vide number G.S.R. 347 (E) dated the 26<sup>th</sup> June, 1997 and was amended by notification No.12/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 which was published vide number G.S.R. 586 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;
- (2) The principal notification No. 39/97-Service Tax, dated the 22<sup>nd</sup> August, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 22<sup>nd</sup> August, 1997, vide number G.S.R. 481 (E) dated the 22<sup>nd</sup> August, 1997 and was amended by notification No.12/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 which was published vide number G.S.R. 586 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;
- (3) The principal notification No. 40/97-Service Tax, dated the 22<sup>nd</sup> August, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 22<sup>nd</sup> August, 1997, vide number G.S.R. 482 (E) dated the 22<sup>nd</sup> August, 1997 and was amended by notification No.12/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 which was published vide number G.S.R. 586 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;
- (4) The principal notification No. 59/98-Service Tax, dated the 16<sup>th</sup> October, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 16<sup>th</sup> October, 1998, vide number G.S.R. 624(E) dated the 16<sup>th</sup> October, 1998 and was amended by notification No.15/2002-Service Tax, dated the 1<sup>st</sup> August, 2002 which was published vide number G.S.R. 543 (E), dated the 1<sup>st</sup> August, 2002 and last amended by notification No.6/2003-Service Tax, dated the 14<sup>th</sup> May, 2003, which was published vide number G.S.R. 403(E), dated the 14<sup>th</sup> May, 2003;
- (5) The principal notification No. 12/2001-Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> December, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 20<sup>th</sup> December, 2001, vide number G.S.R. 907 (E) dated the 20<sup>th</sup> December, 2001 and was amended vide notification No. 2/2002-Service Tax, dated the 1<sup>st</sup> March, 2002 which was published vide number G.S.R. 154 (E) dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, notification No. 3/2003-Service Tax, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003 which was published vide number G.S.R. 157 (E) dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, notification No. 8/2004-Service Tax, dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 which was published vide number G.S.R. 434 (E) dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 and last amended by notification No.12/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 which was published vide number G.S.R. 586 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;
- (6) The principal notification No. 8/2003-Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 20<sup>th</sup> June, 2003, vide number G.S.R. 499 (E) dated the 20<sup>th</sup> June, 2003 and was amended by notification No.12/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 which was published vide number G.S.R. 586 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;
- (7) The principal notification No. 11/2003-Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 20<sup>th</sup> June, 2003, vide number G.S.R. 502 (E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2003;
- (8) The principal notification No. 19/2003-Service Tax, dated the 21<sup>st</sup> August, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 21<sup>st</sup> August, 2003, vide number G.S.R. 677 (E) dated the 21<sup>st</sup> August, 2003 and was amended by notification No.12/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 which was published vide number G.S.R. 586 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;
- (9) The principal notification No. 2/2004-Service Tax, dated the 5<sup>th</sup> February, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 5<sup>th</sup> February, 2004, vide number G.S.R. 101 (E) dated the 5<sup>th</sup> February, 2004 and was amended vide notification No. 8/2004-Service Tax, dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 which was

published vide number G.S.R. 434 (E) dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 and last amended by notification No.12/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 which was published vide number G.S.R. 586 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;

(10) The principal notification No. 9/2004-Service Tax, dated the dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 9<sup>th</sup> July, 2004, vide number G.S.R. 435 (E) dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 and was amended by notification No.12/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 which was published vide number G.S.R. 586 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;

(11) The principal notification No. 10/2004-Service Tax, dated the dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 9<sup>th</sup> July, 2004, vide number G.S.R. 436 (E) dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 and was amended by notification No.12/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 which was published vide number G.S.R. 586 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;

(12) The principal notification No. 15/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004, vide number G.S.R. 589(E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 and was amended by notification No.19/2005-Service Tax, dated the 7<sup>th</sup> June, 2005 which was published vide number G.S.R. 361(E), dated the 7<sup>th</sup> June, 2005;

(13) The principal notification No. 16/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004, vide number G.S.R. 590(E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;

(14) The principal notification No. 19/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 vide number G.S.R. 593(E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;

(15) The principal notification No. 20/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 vide number G.S.R. 594(E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;

(16) The principal notification No. 21/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004, vide number G.S.R. 595(E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;

(17) The principal notification No. 22/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004, vide number G.S.R. 596(E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;

(18) The principal notification No.32/2004-Service Tax, dated the 3<sup>rd</sup> December, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 3<sup>rd</sup> December, 2004, vide number G.S.R. 787(E), dated the 3<sup>rd</sup> December, 2004;

(19) The principal notification No. 18/2005-Service Tax, dated 7<sup>th</sup> June, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 7<sup>th</sup> June, 2005, vide number G.S.R. 360(E), dated the 7<sup>th</sup> June, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

सं० 3/2006-सेवा कर

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 117(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 3/94-सेवा कर, तारीख 30 जून, 1994 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 555(अ), तारीख, 30 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 9 और क्रम सं० 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

जी. जी. पई, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 3 जून, 1994 में, सा.का.नि. 555(अ), तारीख 30 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Notification	New Delhi, the 1 <sup>st</sup> March, 2006
No. 3/2006- Service Tax	10 Phalguna, 1927 (Saka)

G.S.R. 117(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/94-Service Tax, dated the 30<sup>th</sup> June, 1994 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 555 (E), dated the 30<sup>th</sup> June, 1994, namely:-

In the said notification, in the TABLE, Sr.Nos. 9 and 10 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F.No. 334/3/2006-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 30<sup>th</sup> June, 1994 vide number G.S.R. 555(E), of the same date.

अधिसूचना

सं० 4/ 2006-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

1/K

सा.का.नि. 118(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (यड) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवा को, अर्थात् वित्तीय पट्टे पर देने की सेवाएं जिनके अंतर्गत वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (12) के उपखंड (क) की मद (i) में यथापरिभाषित उपस्कर को पट्टे पर देने और अवक्रय भी हैं, जो किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई हैं या उपलब्ध कराई जानी हैं, वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्तने सेवा कर से, जो ब्याज के भागरूप या उस रूप में अर्थात् पट्टा रकम के संदाय मद्दे संदत्त किस्त और संदत्त ऐसी किस्त में अंतर्विष्ट मूल रकम के बीच अंतर की रकम के नब्बे प्रतिशत पर संगणित सेवा कर के बराबर है, छूट देती है।

स्पष्टीकरण— ऐसी छूट पट्टा प्रबंधन फीस, आदेशिका फीस, दस्तावेज प्रभार और प्रशासन फीस के रूप में सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित ब्याज के भागरूप या उस रूप में रकम से भिन्न किसी रकम को लागू नहीं होगी।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

जी. जी. पाई, अवर सचिव

Notification	New Delhi, the 1 <sup>st</sup> March, 2006.
No. 4/2006-Service Tax	10 Phalgun, 1927 (Saka)

1/9

G.S.R. 118(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (herein referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service, specified in sub-clause (zm) of clause (105) of section 65 of the Finance Act, that is to say the financial leasing services including equipment leasing and hire-purchase as defined in item (i) of sub-clause (a) of clause (12) of section 65 of the Finance Act, provided or to be provided to any person, from so much of the service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act, as is equivalent to the service tax calculated on ninety per cent. of an amount, forming or representing as interest, i.e. the difference between the installment paid towards repayment of the lease amount and the principal amount contained in such installment paid.

*Explanation.*— This exemption shall not apply to any amount, other than an amount forming or representing as interest, charged by the service provider such as lease management fee, processing fee, documentation charges and administration fee.

[F.No. 334/3/2006-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 5/2006-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 119(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर ( संशोधन) नियम, 2006 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. सेवा कर नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में,-  
(1) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--  
“(5क) जहां किसी निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के समय प्ररूप एसटी-1 में प्रस्तुत की गई किसी जानकारी या ब्यौरों में कोई परिवर्तन है या वह कोई अतिरिक्त जानकारी या ब्यौरे प्रस्तुत करना चाहता है वहां ऐसे परिवर्तन या जानकारी या ब्यौरे निर्धारिती द्वारा लिखित रूप में ऐसे परिवर्तन के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त को सूचित किए जाएंगे ।”;  
(2) उपनियम (7) के अंत में “तुरन्त अभ्यर्पित करेगा” शब्दों के स्थान पर “तुरन्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को अभ्यर्पित करेगा” शब्द रखे जाएंगे । ;  
(3) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--  
“(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक उपनियम (7) के अधीन प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारिती ने अधिनियम के उपबंधों के अधीन और तद्धीन जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं के अधीन केन्द्रीय सरकार को देय सभी धनों का संदाय कर दिया है, और तदुपरि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा ।”।
3. उक्त नियमों के नियम 5 में,  
(1) उपनियम (1) में कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;  
(2) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--  
“(3) ऐसे सभी अभिलेख उस वित्तीय वर्ष के तुरन्त पश्चात् जिससे वे अभिलेख संबंधित हैं, कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखे जाएंगे ;

(4) प्रत्येक निर्धारित रजिस्ट्रीकृत परिसरों में सभी युक्तियुक्त समय पर उपनियम (3) में वर्णित अभिलेखों को, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के निरीक्षण और परीक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए “रजिस्ट्रीकृत परिसरों” के अंतर्गत ऐसे सभी परिसर या कार्यालय हैं जहां से निर्धारित कराधेय सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।”।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

जी. जी. पाई, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 546(अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं.31/2005-सेवा कर, तारीख 20 अक्टूबर, 2005 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 639(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Notification	New Delhi, the 1 <sup>st</sup> March, 2006.
No. 5/2006-Service Tax	10 Phalgun, 1927 (Saka)

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Amendment) Rules, 2006.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Service Tax Rules, 1994, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, -  
(1) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-  
“(5A) Where there is a change in any information or details furnished by an assessee in Form ST-1 at the time of obtaining registration or he intends to furnish any additional information or detail, such change or information or details shall be intimated, in writing, by the assessee, to the jurisdictional Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, within a period of thirty days of such change.”;  
(2) in sub-rule (7), the following words shall be inserted at the end, namely,-  
“to the Superintendent of Central Excise.”;  
(3) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely: -  
“(8) On receipt of the certificate under sub-rule (7), the Superintendent of Central Excise shall ensure that the assessee has paid all monies due to the Central Government under the provisions of the Act, and the rules and the notifications issued thereunder, and thereupon cancel the registration certificate.”.
3. In the said rules, in rule 5, -  
(1) in sub-rule (1), the brackets, shall be omitted;  
(2) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:-  
“(3) All such records shall be preserved at least for a period of five years immediately after the financial year to which such records pertain.  
(4) Every assessee shall make available, at the registered premises, at all reasonable time, such records as mentioned in sub-rule (3), for inspection and examination by the Central Excise Officer authorised in writing by the jurisdictional Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be.  
*Explanation.* - For the purposes of this rule, “registered premises” includes all premises or offices from where an assessee is providing taxable services.”.

[F.No. 334/3/2006-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

Note:- The principal rules were notified vide notification no. 2/94-Service Tax, dated the 28th June, 1994 and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.546 (E), dated the 28th June, 1994 and were last amended vide notification No. 31/2005-Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> October, 2005 and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 639 (E), dated the 20<sup>th</sup> October, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006.

सं० 6/2006-सेवा कर

10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 120(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययज) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवा को, जो जल क्वालिटी के परीक्षण और विश्लेषण से संबंधित सरकार के स्वामित्वाधीन राज्य या जिला स्तर की प्रयोगशाला द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई हैं या उपलब्ध कराई जानी हैं, वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

जी. जी. पाई, अवर सचिव

Notification	New Delhi, the 1 <sup>st</sup> March, 2006.
No. 6/2006-Service Tax	10 Phalguna, 1927 (Saka)

G.S.R. 120(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (herein referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service specified in sub-clause (zzh) of clause (105) of section 65 of the Finance Act, provided or to be provided to any person, by a Government owned State or District level laboratory in relation to testing and analysis of water quality, from the whole of service tax leviable thereon under section 66 of the Finance Act.

[F.No. 334/3/2006-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2006,
सं० 7/2006- सेवा कर	10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सा.का.नि. 121(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली कराधेय सेवा को वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

जी. जी. पाई, अवर सचिव

Notification	New Delhi, the 1 <sup>st</sup> March, 2006.
No. 7/2006-Service Tax	10 Phalguna, 1927 (Saka)

G.S.R. 121(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (herein referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable services, provided or to be provided to any person, by Reserve Bank of India, from the whole of service tax leviable thereon under section 66 of the Finance Act.

[F.No. 334/3/2006-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.